CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMFL1 User: cci Time: 01-02-2026 23:05 Color:

मुंबई › शनिवार, 3 जनवरी 2026 › पौष 14 शक संवत 1947 पौष शुक्ल पूर्णिमा, विक्रम संवत 2082



ईरान ने अगर प्रदर्शनकारियों को मारा तो बचाने को तैयार: ट्रंप

▶देखें अंदर

WATCH GOD WATCHDOG

NBT
नवभारत टाइम्स

एनबीटी में विज्ञापन देने के लिए 18001205474 पर कॉल करें। नवभारत टाइम्स का अंक प्राप्त करने के लिए 18001200004 पर कॉल करें या subscribe.timesofindia.com पर जाएं।

भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना गया एनबीटी प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025

ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को राष्ट्र का सलाम

ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिए कई और संदेश

Poonam.Pandey@timesofindia.com

पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। 6 मई की रात एक बजकर पांच मिनट से रात डेढ़ बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 7 मई की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को जानकारी देनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे बुलाई गई थी। हालांकि यह थोड़ा देरी से शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि आर्म्ड फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन करीब 10-15 मिनट पहले ही सूत्रों से जानकारी मिली कि महिला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पत्रकारों से हाउसफुल नैशनल मीडिया सेंटर में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और दो महिला अधिकारियों की एंट्री हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। आत्मविश्वास से लबरेज दोनों महिला अधिकारियों ने दुनिया को बताया कि किस तरह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। ऑपरेशन के ठीक 9 घंटे बाद सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दुनिया के सामने इस ऑपरेशन से जुड़े सबूत रखे। बताया गया कि कैसे आतंकवादियों के ठिकानों को चुना गया, कहां ये आतंकी ठिकाने थे और किस तरह उन्हें हिट किया गया। उन्होंने 8, 9 और 10 मई को भी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लगातार मीडिया को दी।

इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना गया, जिसके जरिए संदेश दिया गया कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं और भारत ने महिला शक्ति की ताकत दिखाई। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या की थी। सोफिया और व्योमिका के जरिए यह भी संदेश दिया गया कि हिंदू-मुस्लिम में तनाव बढ़ाने की कोई नापाक कोशिश सफल नहीं होगी। साथ ही भारत में सभी धर्मों का सम्मान है और धर्म के आधार पर बांटने के मंसूबों को करारा जवाब दिया गया।

7 मई की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका को कई बार भारतीय सेना के एडीजीपीआई (एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन) ऑफिस में काम करते देखा। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने से करीब 3-4 दिन पहले ही तय कर लिया गया था कि सोफिया और व्योमिका आर्म्ड फोर्सेस की प्रवक्ता के तौर पर ऑपरेशन की जानकारी दुनिया के सामने रखेंगी। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। सोफिया और व्योमिका सिंह को 6 मई की शाम को ही एडीजीपीआई ऑफिस में बुला लिया गया था। इसके बाद से ही दुनिया के सामने सबूतों के साथ सारी जानकारी रखने की तैयारी शुरू हो गई थी। ▶▶विस्तृत कवरेज पेज 11 पर

NBT प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025

जनता ने चुना

46%

वोट से देश की वीरांगनाएं बनीं एनबीटी प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर

ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि जब बात राष्ट्र सुरक्षा की होती है तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं एकजुटता, स्पष्ट उद्देश्य और असाधारण साहस के साथ खड़ी होती हैं। ऑपरेशन की सफलता हमारे जवानों की ट्रेनिंग, नेतृत्व और बलिदान भावना का परिणाम है। देश ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को 'एनबीटी प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर' चुना है, यह सम्मान हर उस सैनिक के नाम है जो वर्दी पहनकर देश के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने में पीछे नहीं रहता। ये देश की सशस्त्र सेनाओं के प्रति देश के लोगों का भरोसा और प्यार है।

जनरल अनिल चौहान
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

NBT ने इन हस्तियों को भी शामिल किया था रेस में

शीतल देवी और सुमित अंतिल | शुभांशु शुक्ला | हरमनप्रीत कौर | दिव्या देशमुख

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMTEN User: kamlesh.mestry Time: 01-02-2026 22:24 Color:

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 3 जनवरी 2026

लीपापोती का प्रयास

इंदौर में मौत के आंकड़ों पर बहस

स्वच्छता रैंकिंग में लगातार टॉप पर आने वाले इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से हुई मौतें लापरवाही का नतीजा हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप बेहद गंभीर है कि पानी की क्वॉलिटी को लेकर लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। और दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अदालत को दखल देकर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश देना पड़ रहा है।

हाईकोर्ट में सुनवाई

अलग-अलग आंकड़े। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम की तरफ से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दूषित पेयजल की वजह से केवल चार मौतें बताई गई हैं, जबकि वहीं के मेयर का कहना है कि 10 लोगों की मौत हुई और दूसरे सोर्स संख्या 15 बता रहे हैं। मौत के आंकड़ों पर बहस साबित करती है कि अब भी इस घटना से सबक लेने के बजाय लीपापोती करने का प्रयास है। दूषित पेयजल की वजह से एक भी मौत होना शर्मनाक है और यहां तो 200 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा।

कार्रवाई काफी नहीं। राज्य सरकार ने नगर निगम के आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अपर नगर आयुक्त को इंदौर से हटा दिया है और प्रभारी अधीक्षण अभियंता से जिम्मेदारी वापस ले ली है। लेकिन, क्या इतना काफी है? इस तरह की 'रूटीन' कार्रवाई जिम्मेदारों को सबक नहीं देती, बल्कि पीड़ितों का मजाक बनाती है। यहां ऊपर से नीचे तक, सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

सुधार की जरूरत। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना जरूरी नागरिक सुविधाओं की कमी की ओर भी इशारा करती है। आज भी देश में हर एक लाख आबादी पर औसतन लगभग 35 लोगों की दूषित पेयजल की वजह से जान जाती है। ग्लोबल एवरेज की तुलना में यह लगभग तीन गुना है। बेशक सरकार ने जल जीवन मिशन जैसे अभियान चलाए हैं, जिसकी बदौलत करीब 81% ग्रामीण घरों में टैप वॉटर पहुंचाने का दावा है, लेकिन अब भी सुधार की बहुत जरूरत है।

चुनौती और बढ़ेगी। भारत ने 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़े होने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पहले आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा। 2050 तक भारत की आबादी 1.7 अरब तक होने का अनुमान है और तब पानी के संसाधनों पर और दबाव पड़ेगा। देश को बेहतर वॉटर मैनेजमेंट के साथ सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, तभी इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।

अंतर्दृष्टि

आइए, इस नए वर्ष में एक साथ लें 26 संकल्प

नया वर्ष आते ही हम सब कुछ नया करने की इच्छा से भर जाते हैं। नई तारीखें, नई योजनाएं और नई उम्मीदें मन में जन्म लेती हैं। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद वही पुरानी थकान, वही बिखरी दिनचर्या और वही अधूरे वादे लौट आते हैं। शायद इसलिए कि हम संकल्प तो लेते हैं, पर जीवन की दिशा नहीं बदलते। इस बार मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ संकल्प लें, अकेले नहीं बल्कि साथ चलकर।

सुंदर चंद ठाकुर

1. हम यह संकल्प लें कि अपने शरीर को बोझ नहीं, साधन मानेंगे और उसे नियमित गति देंगे।
2. हम भोजन को केवल स्वाद नहीं, ऊर्जा और संतुलन के रूप में देखेंगे।
3. हम मन को यह अधिकार नहीं देंगे कि हर विचार को अंतिम सत्य बना दे।
4. हम यह अभ्यास करेंगे कि विचार आएं और जाएं, पर उनमें उलझें नहीं।
5. हम भावनाओं को दबाएंगे नहीं, पर उन्हें अपनी पहचान भी नहीं बनाएंगे।
6. हम साक्षी भाव में रहना सीखेंगे। हम देखने वाले बनेंगे, डूबने वाले नहीं।
7. यह स्मरण रखेंगे कि हम केवल शरीर और नाम नहीं हैं, बल्कि चेतना हैं।
8. हम हर दिन कुछ पल मौन में बैठकर अपने 'होने' का अनुभव करेंगे।
9. हम अपने जीवन को बिना उद्देश्य के नहीं चलने देंगे।
10. हम यह प्रश्न पूछते रहेंगे कि हमारा जीवन किसके लिए है।
11. हम आलस्य नहीं, प्रेरित कर्म चुनेंगे।
12. हम यह समझेंगे कि कर्म से ही ऊर्जा पैदा होती है।
13. हम हर दिन कुछ ऐसा करेंगे, जिससे भीतर जीवंतता बनी रहे।
14. हम कम अपेक्षा करेंगे और अधिक देने का अभ्यास करेंगे।
15. हम समय, ध्यान और करुणा बिना हिसाब लगाए बांटेंगे।
16. हम रिश्तों में बोलने से पहले सुनना सीखेंगे।
17. हम दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझने का प्रयास करेंगे।
18. हम समय को खर्च नहीं, निवेश मानेंगे।
19. हम अनावश्यक भागदौड़ और व्यर्थ की चिंताओं को कम करेंगे।
20. हम तुलना की आदत से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे।
21. हम यह स्वीकार करेंगे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
22. हम सीखते रहेंगे, चाहे उम्र कोई भी हो।
23. हम जो हैं, उसके लिए कृतज्ञ रहना सीखेंगे।
24. हम अपने डर को छिपाएंगे नहीं, बल्कि उसे पहचानेंगे।
25. हम जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल नहीं बनाएंगे।
26. और अंत में, हम यह संकल्प लेंगे कि जीवन को ऑटोमेटिक नहीं जिएंगे, बल्कि हर दिन थोड़ा और जागरूक होकर जिएंगे।

नववर्ष की शुभकामनाएं।

ऑफ़ दि ट्रैक

सबसे पुराने क़दम

दिलीप लाल

सऊदी अरब के रेगिस्तान से इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है, जो मनुष्य के पहले माइग्रेशन की कहानी को और स्पष्ट करती है। पश्चिमी नेफुद डेजर्ट में स्थित Alathar नामक स्थल पर वैज्ञानिकों को लगभग 1.15 लाख वर्ष पुराने मानव पदचिह्न मिले हैं। इन्हें अरब प्रायद्वीप में आधुनिक मानव (Homo sapiens) की अब तक की सबसे पुरानी प्रत्यक्ष मौजूदगी का प्रमाण माना जा रहा है। यह खोज उस धारणा को चुनौती देती है, जिसमें आज के सऊदी अरब को केवल सूखा, तपता और निर्जन क्षेत्र समझा जाता है। जांच से पुष्टि हुई कि ये किसी जानवर के नहीं, बल्कि इंसानों के हैं। इन पदचिह्नों की आयु Last Interglacial Period की बताई गई है, जब पृथ्वी की जलवायु अधिक नम और मानव जीवन के लिए अनुकूल थी। उस समय नेफुद डेजर्ट में मीठे पानी की झीलें, घास के मैदान और बड़े जानवर मौजूद थे। वहां पत्थर के औजार, आग या हड्डियों के प्रमाण नहीं मिलने से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई स्थायी बस्ती नहीं, बल्कि मानव प्रवास के दौरान का अस्थायी पड़ाव था। यह खोज उस सिद्धांत को मजबूती देती है कि अरब प्रायद्वीप कभी अफ्रीका, लेवांत और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला एक 'ग्रीन कॉरिडोर' था, जिसके जरिए प्रारंभिक मानव अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अन्य हिस्सों की ओर बढ़े।

केंद्र ने नए साल में 4000 मंदिरों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई

दक्षिण की ओर चला धर्म रथ

प्रत्यक्षं किम् प्रमाणं - जो सामने है, उसके लिए प्रमाण जरूरी नहीं होता। मेरे खयाल से सनातन धर्म के लिए यह बात एकदम सही है। किसी को शक नहीं है कि सनातन धर्म का ध्वज आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शीर्ष पर लहरा रहा है। भले ही आप इसे राजनीतिक चश्मे से देखें, लेकिन मानेंगे कि भारत में करीब एक दशक पहले बदले राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद सब इतना आसान नहीं था।



विश्वनाथ गोकर्ण



दुर्लभ संयोग। एक साल पहले महाकुंभ की गूंज अचानक से तेज हुई। 144 साल के दुर्लभ संयोग की चर्चा हर जगह होने लगी। लोगों को लगा कि अब नहीं गए, तो कभी नहीं जा पाएंगे। बड़ी संख्या में लोग तमाम मुश्किलें उठाकर और जमा-पूंजी लगाकर इस ऐतिहासिक मौके को अपने नाम करने पहुंचे।

जेब खाली, मन भरा। प्रयागराज पहुंचने वाला हर श्रद्धालु अपनी हैसियत से थोड़ा अधिक ही खर्च कर आया। नतीजतन, पंडित-पुरोहितों के साथ ई-रिक्शा, ऑटो, ठेला चालकों की भरपूर कमाई हुई। होटल, रेस्तरां वाले भी मालामाल हो गए।

आज भी सिहरन। महाकुंभ की यादों से लोग आज भी रोमांचित हो उठते हैं। वे याद करते हैं कि प्लेन टिकट महंगा था, ट्रेनों में जगह नहीं थी और रास्ते जाम थे, फिर भी लोग पहुंचे। जो होटल का खर्च नहीं उठा सकते थे, उन्होंने सड़क किनारे ही डेरा डाल दिया।

इकॉनमी को बूस्ट। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के एक सर्वे के मुताबिक, महाकुंभ पहुंचे हर श्रद्धालु ने औसतन 5.8 हजार रुपये खर्च किए। मेले में लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। इस हिसाब से यूपी की इकॉनमी को करीब 3.88 लाख करोड़ का बूस्ट मिला। सर्वे से यह भी भी पता चलता है कि लोगों ने घूमने पर 41% से ज्यादा खर्च किया, जबकि रहने पर 16.64% और खाने पर केवल 11.24%।

सभी को फायदा। मेले में लोगों ने पुण्य ही नहीं कमाया, बड़े पैमाने पर रोजगार का मौका भी भुनाया। गंगाजल के लिए प्लास्टिक कैन और बोतल का कारोबार ही करोड़ों रुपये का हो गया। दक्षिण भारत में रहने वालों ने लाखों रुपये खर्च कर टैंकर से संगम का जल मंगाया। उन्होंने अपने इलाके के मंदिरों में जलाभिषेक किया और कई लोगों को निःशुल्क बांटा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर और नागवासुकि मंदिर सहित कई कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाना इन्हीं में से एक था। अब एक बार फिर प्रयागराज माघ मेले के लिए सज चुका है।

नए साल की आशा

कॉरिडोर निर्माण। महाकुंभ बीतते-बीतते लगा, सनातनी चर्चाएं कम होने लगेंगी, लेकिन उज्जैन के श्री महाकालेश्वर और मां विंध्याचल देवी कॉरिडोर निर्माण ने सनातनी उत्थान यज्ञ में आहुति दे दी। साल के आखिर तक प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर बहुप्रतीक्षित धर्म ध्वजा फहराया। इसे सनातन ध्वजा कहा गया, जिससे अयोध्या पर फिर विश्व भर में चर्चा होने लगी। आलम है कि अयोध्या, काशी और मथुरा में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

धार्मिक टूरिज्म। पिछले साल इतने धार्मिक आयोजन हुए कि साल के अंत में लोग पहाड़ों और समुद्र किनारे छुट्टियां बिताने के बजाय धर्मस्थलों पर गए। पुराने साल को विदा करने वालों की भीड़ काशी, अयोध्या, मथुरा, वैष्णो देवी, कांची, मदुरै, तिरुपति और गोकर्ण जैसे स्थानों पर रही। कई पर्यटक द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हैं, तो कई शक्तिपीठ पहुंच गए।

अब दक्षिण की बारी। केंद्र ने नए साल में तमिलनाडु में चार हजार मंदिरों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई है। ऐसा हुआ तो अब दक्षिण भारत में और भीड़ बढ़ेगी। इसके अलावा, 17 फरवरी को आंशिक सूर्य ग्रहण है। इसमें भी पवित्र नदियों वाले शहरों में लोग जाएंगे। इस दौरान कई अहम धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं। बहरहाल नए साल में भारत को तमाम मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर संदेह नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातनी धर्म ध्वजा लहराता रहेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)



धार्मिक पर्यटन
- काशी और अयोध्या में हर दिन आ रहे लाखों श्रद्धालु
- घूमने के लिए भी धार्मिक शहरों का रुख कर रहे लोग

डेटिंग ऐप्स पर जॉब सर्च

डेटिंग ऐप्स को प्यार तलाशने का जरिया माना जाता है। लेकिन, AI के जमाने में हालात बदल रहे हैं। एक सर्वे से पता चला है कि युवा अब इंटर्नशिप, जॉब इंटरव्यू और फ्रीलांसिंग के लिए भी डेटिंग ऐप्स का सहारा ले रहे हैं।

5 पॉइंट

1 2,200 लोगों का सर्वे
सर्वे में शामिल एक तिहाई ने बताया कि नौकरी के लिए ही डेटिंग ऐप्स पर मैच ढूंढा। दो तिहाई ने अपनी पसंद की कंपनी के लोगों को राइट स्वाइप किया, जबकि आधे ने सीनियर पोजिशन वाले लोगों को चुना।

2 मैनेजर तक पहुंच
दरअसल, हायरिंग सिस्टम में AI के आने से योग्य उम्मीदवारों के रेज्यूमे ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। जॉब मार्केट और कठिन हो गया है। इसलिए, हायरिंग मैनेजर तक पहुंचने के लिए भी इनका सहारा लिया जा रहा है।

3 पहचान में मददगार
नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी डेटिंग ऐप्स की मदद ली जा रही है, क्योंकि नौकरी तब ही मिलती है जब उस कंपनी में किसी से पहचान हो। ऐसे में युवा पहले ऐप्स से दोस्ती कर रहे और फिर उसी दोस्त से नौकरी मांग रहे।

4 फ्रीलांस जैसा रिश्ता
कई लोगों ने डेटिंग ऐप्स पर बनाए रिश्तों को फ्रीलांसिंग के लिए भुनाया। कुछ को रिश्ते में आने के बाद फ्रीलांस काम मिल गया, लेकिन उनका रिश्ता चला नहीं। हालांकि कुछ का रिश्ता नौकरी से आगे भी बढ़ा।

5 कंपनियां कन्फ्यूज
डेटिंग ऐप्स कंपनियों के लिए यह ट्रेंड नया है। उनके यूजर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता है कि अगर हायरिंग के लिए ऐप्स का इस्तेमाल होने लगा तो उन पर भरोसा घटेगा।

प्रस्तुति: अभिषेक मिश्र

राजशाही की वापसी का तो सवाल ही नहीं

*राजशाही का अंत कर गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाने और एक प्रगतिशील संविधान हासिल कर लेने के बाद भी नेपाल लोकतंत्र की राह पर सहजता से आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक के बाद दूसरी अनिश्चितता से उसका पाला पड़ता रहा है। इसी की ताजा कड़ी है गत सितंबर में हुआ Gen Z विद्रोह, जिसने तत्कालीन ओली सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की अगुआई वाली अंतरिम सरकार ने मार्च में आम चुनाव करवाने का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच पुरानी संसद को बहाल करने की मांग भी जारी है। ऐसे में पिछले दिनों दिल्ली आए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. बाबूराम भट्टराई से बातचीत कर NBT के **प्रणव प्रियदर्शी** ने यह समझने का प्रयास किया कि नेपाल इन हालात में कैसे फंसा और यहां से आगे की उसकी राह किस ओर जाती दिखती है। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश:*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

डॉ. बाबूराम भट्टराई

▪ आप न केवल जनयुद्ध के दौर की अगुआई करने वाले प्रमुख नेताओं में रहे हैं, बल्कि संविधान समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। जिस अनिश्चितता में नेपाल अभी फंसा है, उसे देखते हुए क्या चुनाव तय समय पर होने की आशा है?

मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, इसलिए यह नहीं बता सकता कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि चुनाव तय समय पर ही होने चाहिए। सबके लिए यही सही है, नेपाल की जरूरत यही है।

▪ सितंबर में नेपाल में सड़कों पर Gen Z का जो गुस्सा फूटा था, उसे आप किस तरह से देखते हैं?

हमने नेपाल में लंबे संघर्षों के बाद संघीय गणतांत्रिक संविधान बनाया, उससे राजनीतिक तौर पर तो लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन उसके बाद जो बराबरी, समृद्धि, खुशहाली आनी चाहिए थी, वह नहीं लाई जा सकी। उसके खिलाफ नेपाल के युवाओं का असंतोष सामने आया, वही Gen Z विद्रोह था।

▪ पूर्व पीएम केपी ओली कहते हैं, उसके पीछे विदेशी हाथ था। उनका इशारा भारत की ओर है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं?

देखिए, जो भी शासक वर्ग के लोग होते हैं वे इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की कॉन्सपिरेसी थियरीज को मैं नहीं मानता। यह नेपाल के युवाओं का असंतोष था, जेनुइन विरोध था, इसमें कोई शक नहीं। हां, एक बार ऐसा विरोध फूट पड़ता है तो उसमें कुछ गलत तत्व भी प्रवेश कर जाते हैं। इसमें भी अगर ऐसा कुछ होगा, तो इसकी जांच चल ही रही है, उसमें सामने आ जाएगा, लेकिन मूलतः यह नेपाल के युवाओं का असंतोष था, उसके कारण भी आंतरिक थे।

▪ क्या थे वे आंतरिक कारण?

दो तरह के फैक्टर रहे इसके पीछे। जनयुद्ध के लंबे दौर के बाद हमने राजशाही का अंत करके नया संविधान बनाया। उसके बाद अजेंडा बदल गया था। इसलिए हमारी जो माओवादी पार्टी थी, हमने कहा था कि उसका कार्यभार पूरा हो गया है। उसके बाद नई तरह की राजनीति की जरूरत थी, सुशासन के जरिए आर्थिक समृद्धि लाने की जरूरत थी। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। पुरानी पार्टी के पुराने नेता पुराने ही तौर-तरीके चलाते रहे। लिहाजा आर्थिक क्रांति नहीं हो पाई जिसका नतीजा इस विस्फोट के रूप में दिखा। दूसरा फैक्टर यह भी रहा कि टेक्नॉलजी के विकास, खासकर इंटरनेट की पहुंच से युवाओं की चेतना बढ़ी। उस लिहाज से उनकी आकांक्षाएं बढ़ीं। तो वस्तुगत और मनोगत ये दोनों कारण रहे।

▪ नेपाल में राजतंत्र की वापसी की मांग भी सुनने में आ रही है कई कोनों से। यह खतरा कितना वास्तविक है?

देखिए, किसी भी समाज में एक छोटा सा हिस्सा तो होता ही है जो अतीतोन्मुख होता है। तो कभी ऐसा कोई स्वर कहीं से उठ जाए बात अलग है, वास्तव में ये फ्रिंज एलीमेंट्स ही हैं। राजशाही की वापसी का सवाल ही नहीं उठता। नेपाल उस दौर को पीछे छोड़ चुका है।

> असलियत यह है कि भारत और नेपाल के संबंध इतने पुराने और इतने गहरे हैं कि उसे किसी तरह से रिप्लेस करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। फिर भी, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी मूर्खता करने की सोचता भी है तो खुद चीन उसे अस्वीकार कर देगा। ये बातें रेकॉर्ड पर हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में जब भी ऐसी कोशिश की गई, चीन ने उसे हतोत्साहित किया।

▪ केपी ओली के शासनकाल में खास तौर पर भारत विरोधी भावनाओं का उभार देखा गया। भारत के बरक्स चीन के करीब जाने का रुझान भी नजर आया...

ऐसी बातें करने वाले जो भी लोग हों, वे हकीकत से अनजान हैं। कुछ लोग अपने किसी संकीर्ण स्वार्थ की वजह से भी ऐसी बातें प्रचारित करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि भारत और नेपाल के संबंध इतने पुराने और इतने गहरे हैं कि उसे किसी तरह से रिप्लेस करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। फिर भी, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी मूर्खता करने की सोचता भी है तो खुद चीन भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये बातें रेकॉर्ड पर हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में जब भी ऐसी कोशिश की गई, चीन ने उसे हतोत्साहित किया। चीन की तरफ से स्पष्ट बता दिया गया कि नेपाल का हित भारत से अच्छे संबंध बनाए रखने में है और सुरक्षित तथा स्थिर नेपाल चीन के भी हक में है।

▪ बीसवीं सदी में वामपंथी विचारों ने नेपाल और भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में गहरी छाप छोड़ी। लेकिन 21वीं सदी में उसका प्रभाव कमजोर होता जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि यह विचारधारा अप्रासंगिक होती जा रही है?

कोई भी विचारधारा अपने समय और समाज से निरपेक्ष नहीं होती। आज तकनीकी विकास ने हमारे जीवन, सोच और जरूरतों को बदल दिया है। विचारधारा को भी उसी हिसाब से जरूरी बदलाव करने होंगे, तभी वह अपनी प्रासंगिकता बनाए रख पाएगी।

www.nbt.in

ऐसी दुश्मनी पहले तो न थी!

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में वन्यजीवों और इंसानों का आमना-सामना होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले भी इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष होता था, लेकिन कभी-कभार। और इसके बावजूद दोनों के बीच का रिश्ता सहज और समन्वय का था। यह रिश्ता कैसे बिगड़ा, इसे लेकर तमाम रिपोर्ट हैं - मुझे तो वे तीन कहानियां याद हैं, जो बता देती हैं कि पहाड़ों पर आखिर चल क्या रहा है।

चमोली के ज्योतिर्मठ की दया भिलगवाल को अब भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है। उनके सिर पर 22 और मुंह पर 12 टांके लगे हैं। घाव का निशान गहरा है। यह निशान उन्हें मिला था 4 नवंबर 2024 की सुबह। वह घर के पास खेतों में पशुओं के लिए घास लेने गई थीं। जब वह घास काट रही थीं, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया। दया ने कुछ देर तक मुकाबला किया, लेकिन फिर पस्त पड़ गईं। उनकी चीख सुनकर परिवार के लोग जब तक पहुंचते, भालू ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था।

दूसरी कहानी है उत्तरकाशी के मातली गांव की सुंदरी देवी की। उनकी उम्र 80 बरस है और उन्होंने पहाड़ को बदलते बहुत करीब से देखा है। उनसे जब इस बारे में बात हुई तो कहने लगीं, 'हमारे लिए जंगल सिर्फ पेड़-पौधों और हरियाली नहीं, हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम अपने आसपास के जंगल में बिना डर के जाते थे। तब पता होता था कि कौन-सा इलाका हमारा है और कौन-सा वन्य जीवों का। दोनों ही इस सीमा को मानते। न हम उनके क्षेत्र में बिना जरूरत जाते और न ही वे इधर आते। आज जब इंसान पहले जैसा नहीं रहा, तो जंगल भी बदल गया है। हमने प्रकृति से दूरी बना ली है। जंगल और इंसान के बीच की समझ, उनके बीच का संतुलन टूट रहा है।' सुंदरी देवी ने अपने साथ घटी एक घटना बताई। वह रोज की तरह जंगल में चारा-पत्ती लेने गई थीं। एक पेड़ पर चढ़कर जब वह पत्तियां तोड़ रही थीं, तभी उनका गमछा गिर गया। उन्होंने नीचे देखा तो एक भालू आराम फरमा रहा था। वह न चीखीं और न घबराईं। पत्तियां तोड़ने के बाद वह धीरे से नीचे उतरीं और गमछा उठाकर घर चल पड़ीं। 'मुझे डर इसलिए नहीं लगा कि वह भी जंगल का हिस्सा है और मैं भी। तब तो कभी-कभी बाघ और तेंदुए भी गांव और घरों के आसपास दिखाई दे जाते थे। लेकिन, वे चुपचाप आते और चले जाते। अब आपस में दुश्मनी का भाव हो गया है, जो तब नहीं था।'

खुद अपनी आंख से

बृजेश सती

तीसरी कहानी है मिली कोट गांव के भरत सिंह चौधरी की। उनके साथ हाल ही में घटना हुई, 26 नवंबर को। वह पौधों में पानी दे रहे थे, जब अचानक भालू ने हमला कर दिया। उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर भालू ने उन्हें खींच लिया। 55 साल के भरत सिंह ठीक हैं, लेकिन शायद पहले जितने भरोसे के साथ वह अब जंगल में कदम न रख पाएं।

चलते-चलते...

वैज्ञानिकों ने गाजर के बेकार समझे जाने वाले कचरे को उच्च पोषण और स्वादिष्ट प्रोटीन स्रोत में बदलने का एक नया तरीका खोज लिया है। American Chemical Society की रिपोर्ट के अनुसार, इससे तैयार फंगल मायसेलियम का उपयोग पैटी और सॉसेज में किया गया। सोया या चने की तुलना में इस फंगल प्रोटीन से बने उत्पादों को लोगों ने अधिक पसंद किया।

रीडर्स मेल

पानी और ज़हर

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें केवल एक शहर की त्रासदी नहीं, बल्कि देश के शहरों और कस्बों के लिए चेतावनी हैं। पीने का पानी जीवन है और जब वही जहर बन जाए, तो यह सीधी-सीधी प्रशासनिक विफलता कहलाती है। सीवरेज व्यवस्था की अनदेखी, पीने के पानी की पाइपलाइनों में लीकेज और समय पर मरम्मत का अभाव, ये सभी कारण मिलकर आम नागरिकों की जान जोखिम में डालते हैं। किसी भी लीकेज या गंदे पानी की शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामलों में फाइलों में दबी जांच का कोई मतलब नहीं है। अब समय है कि केवल बयान नहीं, ठोस कदम उठाए जाएं। नियमित निरीक्षण, तकनीकी ऑडिट, आपात मरम्मत तंत्र और लापरवाही पर स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए। पानी की सुरक्षा पर समझौता, जीवन की सुरक्षा से समझौता है और इसकी कोई कीमत स्वीकार्य नहीं।

ओम प्रकाश हुड़िया, ईमेल से

आम जनता की सुरक्षा

बीते कुछ समय से आगजनी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इन घटनाओं ने न केवल आम सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रशासन और दमकल विभाग की तैयारियों की भी परीक्षा ली है। रेस्तरां, कैफे, बार, होटल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जहां लोग जश्न मनाने जाते हैं, वहीं वे जोखिम और खतरे की चपेट में आ जाएं, तो इनसे बचाव की सुविधाओं पर सवाल उठाना लाजिमी है। ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर आपातकालीन निकासी और उचित वेंटिलेशन का प्रावधान नहीं होने से खतरे की आशंका बढ़ जाती है। सभी व्यवसायों के लिए अग्नि सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों, ग्राहकों और जान-माल की सुरक्षा करना पहला कानूनी कर्तव्य है। भविष्य में कोई भी जश्न मातम में न बदल जाए, इसके लिए सभी को एहतियाती कदम उठाने जरूरी हैं।

दीपा सिन्हा, ईमेल से

NBT खेल
नवभारत टाइम्स | मुंबई |
शनिवार, 3 जनवरी 2026

मुझे अपने करियर के दौरान किसी भी तरह के नस्ली भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे हमेशा अपनी टीम के साथियों और इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का पूरा समर्थन मिला।
– मोंटी पनेसर, भारतीय मूल के इंग्लैंड के स्पिनर

11845

रन बनाए हैं एलेस्टर कुक ने ओपनर के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में। वह टेस्ट क्रिकेट में ओपनर के तौर पर 10000+ रन बनाने वाले इकलौते प्लेयर हैं

स्पोर्ट्स QUIZ

इस पेज पर छपी खबरों में ही इन सवालों का जवाब है।

1. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने वाले उस्मान ख्वाजा ने कितने टेस्ट मैच खेले हैं?
A) 89 B) 87 C) 89 D) 99
2. भारतीय विमिंस हॉकी टीम के नए कोच शोर्ड मारिन किस देश के हैं?
A) इंग्लैंड B) ऑस्ट्रेलिया C) नीदरलैंड्स D) स्पेन

कल के जवाब
1. C) पीटी उषा 2. D) मिचेल मार्श 3. A) 39

लकी WINNERS

1 दिनेश शर्मा, गाजियाबाद, यूपी

2 अशोक, उल्हास नगर, मुंबई

3 वेदांशी, रमेश नगर, दिल्ली

4 रंजना श्रीवास्तव, वसंत कुंज, दिल्ली

5 प्रिया मावी, दयालपुर, दिल्ली

आप अपने जवाब हमें **9319282367** पर अपने नाम, तस्वीर और शहर/गांव के नाम के साथ वॉट्सऐप करें। एक 'लकी विनर' का नाम और तस्वीर हम कल के अंक में छापेंगे। दो अन्य विजेताओं के नाम भी प्रकाशित होंगे।

फटाफट खबरें

अमीरा, जुहैर को गोल्ड

■ भोपाल: हरियाणा की अमीरा अरशद ने 68वीं नैशनल शूटिंग चैंपियनशिप में विमिंस 10 मीटर एयर राइफल का गोल्ड जीता। उन्होंने रेलवे की राजश्री सचेती को सिर्फ 0.1 अंक से हराया (251.9 बनाम 251.8)। मैंस ट्रैप में यूपी के जुहैर खान ने पहला सीनियर नैशनल खिताब जीता।

दिव्यांशी की आसान जीत

■ बड़ोदरा: गत चैंपियन दिव्यांशी भौमिक और सिंड्रेला दास ने WTT यूथ कंटेंडर में अंडर-17 अभियान की शुरुआत जीत से की। दिव्यांशी ने नीजा कामत को 3-0 से हराया, जबकि सिंड्रेला ने तानिया करमाकर को सीधे गेमों में मात दी। लड़कों में रित्विक गुप्ता, वेद पचाल, अद्वित्य दास और साहिल रावत अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहे।

नामीबिया का असम दौरा

■ गुवाहाटी: नामीबिया की सीनियर महिला क्रिकेट टीम आगामी आठ जनवरी से असम के खिलाफ चार मैचों की फ्रेंडली सीरीज खेलेगी। दौरे में दो वनडे और दो टी20 मुकाबले खेले जाएंगे।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का आरोप- वह नस्ली भेदभाव का शिकार हुए

संन्यास से पहले ख्वाजा ने किया सन्न

■एजेंसियां, सिडनी: पाकिस्तान में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने घोषणा की है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ रविवार से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में शुरू होने वाले पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी ख्वाजा ने संन्यास की घोषणा करते हुए 'नस्ली रूढ़िवादिता' की भी आलोचना की जिसका अनुभव उन्होंने कथित रूप से अपने करियर के दौरान किया था। दाएं हाथ के बल्लेबाज 39 वर्षीय ख्वाजा के लिए एससीजी का मैदान काफी भाग्यशाली रहा है।

'मुझे टारगेट किया गया': ख्वाजा ने कहा कि उन्हें लगता था कि उनके पाकिस्तानी और मुस्लिम पृष्ठभूमि के कारण उनके साथ 'अभी भी थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है।' ख्वाजा ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वो अलग था, घटनाएं भी अलग थीं। मुझे पीठ में दर्द होता है जो मेरे बस में नहीं है लेकिन मीडिया और पूर्व खिलाड़ी मुझ पर टूट पड़ते हैं। मुझे लगभग पांच दिनों तक आलोचना का सामना करना पड़ा।' उन्होंने कहा, 'मुझे लेकर कई तरह के नस्ली रूढ़िवादिता सामने आई, जैसे कि मैं आलसी हूं, पाकिस्तानी, वेस्टइंडीज के, अश्वेत खिलाड़ी...हम स्वार्थी हैं, हम सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, हमें टीम की परवाह नहीं है, हम कड़ी मेहनत नहीं करते। ये वो बातें थीं जिनसे मैं अपनी पूरी जिंदगी जूझता रहा हूं।'

पर्थ मैच से पहले ख्वाजा की आलोचना हुई क्योंकि उन्होंने दो बार गोल्फ खेला और वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया। कुछ लोगों का मानना था कि गोल्फ ही उनकी पीठ की समस्या का कारण हो सकता है। ख्वाजा ने कहा, 'मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, जब खिलाड़ी गोल्फ खेलकर चोटिल हो गए लेकिन आप लोगों ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं आपको ऐसे भी कई उदाहरण दे सकता हूं जब खिलाड़ियों ने मैच से पहले की रात खूब बियर पी और वे अस्वस्थ हो गए, लेकिन उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया लेकिन जब मैं चोटिल हुआ तो मेरी प्रतिबद्धता और एक व्यक्ति के रूप में मेरी छवि पर सवाल उठा दिए गए।' ख्वाजा ने कहा कि उन्हें पता था कि उनके करियर का अंत निकट है। उन्होंने कहा, 'मैं सीरीज के शुरू होने से पहले ही मुझे अंदाजा हो गया था कि यह मेरी अंतिम सीरीज होगी। मुझे खुशी है कि मैं अपनी शर्तों पर विदाई ले रहा हूं।'

उस्मान ख्वाजा

द एशेज

मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वो अलग था, घटनाएं भी अलग थीं। मुझे पीठ में दर्द होता है जो मेरे बस में नहीं है लेकिन मीडिया और पूर्व खिलाड़ी मुझ पर टूट पड़ते हैं। मुझे लेकर कई तरह के नस्ली पूर्वाग्रह सामने आए। – उस्मान ख्वाजा

उस्मान ख्वाजा का रेकॉर्ड

टेस्ट: मैच- 87, रन- 6206, हाइएस्ट- 232, औसत- 43.39, स्ट्राइक रेट- 48.86, सेंचुरी/ हाफ सेंचुरी- 16/28
ODI: मैच- 40, रन- 1554, हाइएस्ट- 104, औसत- 42.00, स्ट्राइक रेट- 84.09, सेंचुरी/ हाफ सेंचुरी- 2/12
टी20I: मैच- 9, रन- 241, हाइएस्ट- 58, औसत- 26.77, स्ट्राइक रेट- 132.41, सेंचुरी/ हाफ सेंचुरी- 0/1

इंग्लैंड ने घोषित किए 12 प्लेयर्स

इंग्लैंड ने मौजूदा एशेज सीरीज के अंतिम टेस्ट के लिए अपने बारह सदस्यीय दल की घोषणा कर दी। इसके मुताबिक तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को इस सीरीज में पहली बार खेलने का मौका मिल सकता है। इंग्लिश टीम में 19 टेस्ट खेल चुके शोएब बशीर भी शामिल हैं। पॉट्स को अब तक हुए मुकाबलों में किसी भी टेस्ट मुकाबले में एक बार भी मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन सिडनी टेस्ट में उन्हें इलेवन में जगह मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि तेज गेंदबाज गस एटकिंसन हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण नहीं खेल पाएंगे। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे चल रहा है और एशेज पर उसका कब्जा बरकरार है।

सिडनी टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्राउली, बेन डकेट, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग

SCG से जुड़ी है यादें: इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां टेस्ट ख्वाजा के करियर का 88वां और आखिरी टेस्ट मैच होगा, जो उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां से उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। ख्वाजा ने 2015 में एससीजी में ही इंग्लैंड के खिलाफ 171 रन बनाकर एशेज में अपना पहला शतक बनाया था। एससीजी में ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दो शतक लगाकर 35 वर्ष की उम्र में अपने करियर को नई दिशा दी।

आज भारतीय वनडे टीम की हो सकती है घोषणा

■पीटीआई, नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज होगी। हालांकि, जब चयनकर्ता 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन करने बैठेंगे तो ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होने की संभावना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ सप्ताह पहले हुई सीरीज में जीत दर्ज करने वाली टीम में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति दो मुद्दों पर ध्यान दे सकती है। पहला मुद्दा पंत की दूसरे विकेटकीपर के रूप में स्थिति हो सकती है, क्योंकि ईशान किशन झारखंड के लिए मध्य क्रम में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ध्रुव जुरेल ने भी घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा शतक जड़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू तेज गेंदबाजों का चयन है। टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चयनकर्ता अन्य दो तेज गेंदबाजों हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को भी आराम देते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से दो मुख्य दावेदार सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज

भारतीय टीम आएगी बांग्लादेश: बीसीबी

■पीटीआई, ढाका: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इस साल सितंबर में भारत की मेजबानी करेगा जिसमें तीन मैच की वनडे और तीन मैच की टी20 इंटरनैशनल सीरीज खेली जाएगी। हालांकि मौजूदा हालात में बांग्लादेश में स्थिर सरकार नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआई इस दौरे के लिए सहमति देगा या नहीं। बीसीबी की विज्ञप्ति के अनुसार वनडे मुकाबले 1, 3 और 6 सितंबर को खेले जाएंगे जबकि टी20I मैच 9, 12 और 13 सितंबर को होंगे। भारतीय टीम सीमित ओवरों की इस सीरीज के लिए 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम का पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश का दौरा अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया था।

सितंबर में मेजबानी का किया ऐलान

PCB ने अपमानित किया, इसलिए छोड़ा पद: गिलेस्पी

■एजेंसियां, कराची: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने अपने छोटे लेकिन विवादों से भरे कार्यकाल को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज गिलेस्पी ने कहा कि उन्हें कई मौकों पर अपमानित किया गया, जिससे पद पर बने रहना असंभव हो गया।

गिलेस्पी को अप्रैल 2024 में पाकिस्तान का टेस्ट कोच नियुक्त किया गया था, जबकि सफेद गेंद की टीम की जिम्मेदारी गैरी कर्स्टन के पास थी। हालांकि, पीसीबी ने बिना हेड कोच से सलाह लिए सीनियर सहायक कोच टिम नीलसन को बर्खास्त कर दिया, जिसे गिलेस्पी ने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा, 'PCB ने बिना मुझसे बात किए बिना सीनियर सहायक कोच को बर्खास्त कर दिया। हेड कोच के रूप में मुझे यह स्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य लगी। कई अन्य मुद्दे भी थे जिनसे मुझे पूरी तरह से अपमानित होना पड़ा।'

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इस फैसले से उनका और बोर्ड का रिश्ता और खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे से हटने का फैसला किया और दिसंबर में इस्तीफा दे दिया। PCB और गिलेस्पी के बीच भुगतान को लेकर भी विवाद चल रहा है।

क्रिकेट कॉर्नर

पाक के पूर्व टेस्ट हेड कोच गिलेस्पी

सुदर्शन चोटिल, आठ हफ्ते रहना पड़ सकता है बाहर

नई दिल्ली: युवा भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन को विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान गंभीर चोट लगी है और वह छह से आठ हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। BCCI सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में डाइव लगाकर रन पूरा करते समय उनकी दाईं ओर की सातवीं पसली में हल्का फ्रैक्चर हो गया। 24 वर्षीय सुदर्शन ने 29 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट किया, जहां स्कैन में चोट की पुष्टि हुई।

हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा, पूछताछ शुरू

जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा दिखाने के मामले में क्रिकेटर फुरकान भट से पूछताछ शुरू की है। यह घटना जम्मू-कश्मीर चैंपियंस लीग में जेकेके इलेवन किंग्स और जम्मू ट्रेलब्लेजर्स के बीच मैच के दौरान सामने आई। बल्लेबाजी के समय कैमरे में फुरकान भट के हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और टूर्नामेंट आयोजक को समन जारी किया। पुलिस जांच कर रही है कि झंडा दिखाने के पीछे क्या इरादा था और क्या इसके लिए जरूरी अनुमति ली गई थी।

मुस्ताफिजुर विवाद में बोर्ड ने खींचे हाथ!

■एजेंसियां, नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर उठे विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों ने स्थिति स्पष्ट की है। बीसीसीआई से जुड़े एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में खेलने से रोकने को कहा गया हो। दरअसल, कोलकाता नाइटराइडर्स द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद यह मुद्दा गरमाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों के बीच कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने रहमान को टीम से बाहर करने की मांग की है। BCCI से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड को इस मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं, इसलिए हस्तक्षेप का सवाल नहीं उठता। मुस्ताफिजुर 2016 से IPL खेल रहे हैं और 60 मैचों में 65 विकेट ले चुके हैं। यह राशि किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को अब तक मिली सबसे बड़ी बोली है।

IPL अपडेट

मुस्ताफिजुर

स्टब्स को जगह नहीं, मारक्रम होंगे कप्तान

■एजेंसियां, जोहानिसबर्ग: साउथ अफ्रीका ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। एडेन मारक्रम की अगुआई वाली टीम में सबसे चौंकाने वाला फैसला मिडल ऑर्डर बैटर ट्रिस्टान स्टब्स और ओपनर रयान रिकेल्टन को बाहर रखना रहा। प्रोटियाज ने 2024 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले सात खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। मारक्रम के अलावा क्विंटन डीकॉक, कागिसो रबाडा, मार्को यानसन, एनरिच नॉर्त्जे, डेविड मिलर और बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज टीम का हिस्सा हैं।

टीम में युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस, तेज गेंदबाज क्वेना मफाका, ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश, बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी, जेसन स्मिथ और डोनोवन फरेरा को शामिल किया गया है। स्पिनर जॉर्ज लिंडे की भी वापसी हुई है। स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के लिए सिर्फ दो टी20I मैच का अनुभव है। मफाका ने साउथ अफ्रीका के लिए 13 टी20I मैच खेले हैं।

टी20 वर्ल्ड कप अपडेट

साउथ अफ्रीकी कप्तान मारक्रम

साउथ अफ्रीका टीम: एडेन मारक्रम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जॉर्जी, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्त्जे, कागिसो रबाडा, जेसन स्मिथ

35 विकेट के साथ एनरिच नॉर्त्जे टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के सबसे सफल बॉलर हैं

229 रन बनाए थे चार विकेट पर साउथ अफ्रीका ने 2016 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ। यह उनका टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक स्कोर है

वीनस रचेंगी टूर्नामेंट में नया कीर्तिमान

टेनिस स्टार वीनस विलियम्स

■एजेंसियां, मेलबर्न: दिग्गज टेनिस स्टार वीनस विलियम्स को आगामी ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। सात बार की सिंगल्स ग्रैंडस्लैम विजेता वीनस 45 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेलकर इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। आयोजकों ने घोषणा की कि 45 वर्षीय वीनस उस मेलबर्न पार्क में वापसी के लिए तैयार है, जहां उन्होंने 28 साल पहले पहली बार हिस्सा लिया था। उन्होंने 1998 में दूसरे दौर में अपनी छोटी बहन सेरेना को हराया था। वीनस ने आखिरी बार इस ग्रैंडस्लैम इवेंट में साल 2021 में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वह पांच साल बाद यहां वापसी करेंगी। वीनस ने नवंबर में घोषणा की थी कि वह ऑस्ट्रेलियन ओपन से दो सप्ताह पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेलेंगी।

ऑस्ट्रेलियन ओपन

महिला हॉकी टीम के फिर कोच बने मारिन

■एजेंसियां, नई दिल्ली: नीदरलैंड्स के अनुभवी कोच शोर्ड मारिन को एक बार फिर भारतीय विमिंस हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। 51 वर्षीय मारिन इससे पहले 2017 से 2021 तक इस भूमिका में रहे थे, जब भारत ने तोक्यो ओलिंपिक्स में चौथा स्थान हासिल किया था। वह हरेंद्र सिंह की जगह लेंगे, जिन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन और कार्यशैली को लेकर लगे आरोपों के बाद पद छोड़ा। मारिन के साथ अर्जेंटीना के पूर्व मिडफील्डर मटियास विला विश्लेषणात्मक कोच होंगे, जबकि वेन लोम्बार्ड की वापसी वैज्ञानिक सलाहकार और खेल प्रदर्शन प्रमुख के रूप में हुई है। मारिन ने कहा कि वह नई ऊर्जा और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ लौटे हैं और टीम को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने कहा, 'भारत वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नई ऊर्जा और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ इस पद पर लौटा हूं।'



हेड कोच शोर्ड मारिन

पहले मैच में तूफांस के सामने ड्रैगंस

■एजेंसियां, चेन्नै: एकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगंस की टीम शनिवार को यहां मेंस हॉकी इंडिया लीग (HIL) के उद्घाटन मैच में हैदराबाद तूफांस के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसे घरेलू दर्शकों के समर्थन से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन में मैचों को कई शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत चेन्नै से होगी, फिर यह रांची में खेला जाएगा और 26 जनवरी को भुवनेश्वर में फाइनल के साथ समाप्त होगा। हैदराबाद तूफांस पिछले सीजन का उपविजेता था।

टॉप-4 खेलेंगी नॉकआउट मैच: इस सीजन में एक ही राउंड-रॉबिन प्रारूप होगा, जिसमें शीर्ष चार टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंचेंगी। प्लेऑफ में शीर्ष दो टीमें क्वॉलिफायर एक में एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसमें विजेता फाइनल में पहुंचेगा और हारने वाली टीम क्वॉलिफायर-2 में जाएगी। क्वॉलिफायर-2 की दूसरी टीम का फैसला एलिमिनेटर के विजेता द्वारा किया जाएगा, जो पॉइंट्स टेबल में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच खेला जाएगा। इस सीजन तमिलनाडु ड्रैगंस, हैदराबाद तूफांस के अलावा बंगाल टाइगर्स, कलिंगा लांसर्स, एसजी पाइपर्स, सूरमा हॉकी क्लब, रांची रॉयल्स और एचआईएल जीसी भी खिताब के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी।

हॉकी इंडिया लीग

तमिलनाडु ड्रैगंस के कप्तान अमित रोहिदास

रॉयल्स की दूसरी जीत, सूरमा के पहले अंक का इंतजार बढ़ा

नई दिल्ली: रांची रॉयल्स ने विमिंस हॉकी इंडिया लीग में पहला मैच गवाने के बाद लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उन्होंने शुक्रवार को हुए मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब को 2-0 के मामूली अंतर से हराया। सूरमा की यह लीग में लगातार तीसरी हार है, जिससे उसकी पहली जीत का इंतजार और बढ़ गया है। पिछले मैच में बंगाल टाइगर्स पर 5-0 की जीत दर्ज करने वाली रॉयल्स के लिए इस मैच में स्तुजा डाइक्सी पिसाल ने दूसरा क्वॉर्टर खत्म होने से चंद सेकंड पूर्व पहला गोल किया। मुकाबले के 54वें मिनट में साक्षी राणा ने एक और गोल कर सूरमा हॉकी क्लब की वापसी के सभी रास्ते बंद कर दिए और रांची को 2-0 की बढ़त दिला दी।

मैनचेस्टर सिटी का मैच ड्रॉ, खिताबी दौड़ में पिछड़ी

■एजेंसियां, लंदन: अर्लिंग होलान की मौजूदगी के बावजूद मैनचेस्टर सिटी को संडरलैंड के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा, जिससे इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) की टाइटल रेस में टीम पिछड़ गई है। वहीं, आर्सनल ने पॉइंट्स टेबल में चार अंक की मजबूत बढ़त बना ली है। दूसरी ओर, लिवरपूल भी घरेलू मैदान एनफील्ड में लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ गोल नहीं कर सका और मुकाबला 0-0 पर खत्म हुआ। इन नतीजों का सबसे ज्यादा फायदा तालिका में शीर्ष पर काबिज आर्सनल को मिला। आर्सनल के 19 मैचों में 45 अंक हो गए हैं। मैनचेस्टर सिटी इतने ही मैचों में 41 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि एस्टन विला 39 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर बना हुआ है।

फुटबॉल कॉर्नर

सिटी और संडरलैंड का मैच

आज से नॉकआउट मैच

नई दिल्ली: आज सेनेगल अफ्रीका कप ऑफ नेशंस (AFCON) में सूडान के खिलाफ प्री-क्वॉर्टर फाइनल में उतरेगा। सेनेगल को खिताबी दावेदारों में से एक माना जा रहा, लेकिन सूडान की टीम उलटफेर करने का दम रखती है।

12 राशियां और आपका दिन

ARIES (21 Mar - 19 Apr): आपकी राशि का स्वामी मंगल-सौम्य ग्रहों की राशि में है। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा। सायंकाल के समय कोई रुका काम बनने की संभावना है। पंचम भाव दूषित होने के कारण संतान पक्ष से निराशाजनक समाचार मिल सकता है। रात्रि का समय प्रियजनों से भेंट व आमोद-प्रमोद में बीतेगा।

TAURUS (20 Apr - 19 May): आज का दिन संतोष और शांति का है। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। शासन व सत्ता से गठजोड़ का लाभ मिल सकता है। नए अनुबंधों के द्वारा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रात्रि में कुछ अप्रिय व्यक्तियों से मिलने से अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा।

GEMINI (21 May - 21 Jun): आज के दिन किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने का भय बना रहेगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद समाचार मिलेगा। सायंकाल में कोई रुका कार्य पूरा होगा। रात्रि में उत्साहवर्धक मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज के दिन किसी भी कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल न करें।

CANCER (22 Jun - 22 Jul): षष्ठम द्वादश भाव में उत्तम संपत्ति का संकेत कर रहा है। आज के दिन आजीविका के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। राज्य-मान-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है। यात्रा की स्थिति सुखद व लाभदायक रहेगी। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। सायंकाल से लेकर रात्रि तक प्रिय व्यक्तियों का दर्शन व सुखमाकार मिलेगा।

LEO (23 July - 22 Aug): राशि का स्वामी सूर्य धनु राशि पंचम त्रिकोण भाव में आ गया है। आज आपकी आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। शिक्षा, प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगा। आज दिन के समय अधिक भागदौड़ और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है।

VIRGO (23 Aug - 22 Sep): राशि स्वामी बुध चतुर्थ भाव त्रिकोण दृष्टि कर रहा है। रोजगार-व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से भी संतोषजनक सुखद समाचार मिलेगा। दोपहर बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है।

LIBRA (23 Sep - 22 Oct): आज आपके घरों और सुखद वातावरण रहेगा। घर-परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेंगी। कई दिनों से चली आ रही लेन-देन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में धन हाथ में आ जाने का सुख मिलेगा। विरोधियों का मनोबल गिरेगा। पास व दूर की यात्रा का प्रसंग प्रबल होकर स्थगित होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ता की ओर बढ़ेंगे।

SCORPIO (23 Oct - 21 Nov): आपकी राशि पर शनि की स्थिति पंचम संतान लक्ष्मी भाव में हो गई है। फलस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। बेहतर होगा आज दिन के पहले हिस्से में किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी सेहत के मामले में सलाह-मशविरा कर लें और उसके बाद ही बाकी के कामों में जुटें।

SAGITTARIUS (22 Nov - 21 Dec): आज आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। शासन पक्ष से निकटता व गठजोड़ का लाभ भी मिलेगा। ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन हाथ लग सकता है। सायंकाल से लेकर रात्रिपर्यंत सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के भी अवसर प्राप्त होंगे।

CAPRICORN (22 Dec - 19 Jan): आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों का आदर व सहयोग भी पर्याप्त मिलेगा। सायंकाल के समय किसी झगड़े-विवाद में न पड़ें। रात्रि में प्रिय अतिथियों के स्वागत का योग बन रहेगा।

AQUARIUS (20 Jan - 18 Feb): आज आपके स्वास्थ्य सुख में व्यवधान आ सकते हैं। राशि का स्वामी शनि उदय चल रहा है। इसलिए आज के दिन कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई विपरीत समाचार सुनकर अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें और झगड़े-विवाद से बचें।

PISCES (19 Feb - 20 Mar): आज का दिन पुत्र, पुत्री की चिंता तथा उनके कामों में व्यतीत होगा। दांपत्य जीवन में कई दिन से चल आ रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा। कार्यों और खाते से आज लेन-देन न करें। धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा और पुण्य कार्यों पर खर्चा हो सकता है। यात्रा के समय सावधान अवश्य रहें। बृहस्पति का विशेष योग मूल्यवान वस्तुएं चोरी करा सकता है।

जन्मदिन की शुभकामनाएं

यह वर्ष मंगल, बुध, चंद्र के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। जनवरी शेष में आयात-निर्यात के व्यापार से जुड़े लोगों को बारबार समस्याओं से जूझना पड़ेगा। हालांकि सभी परेशानियां अस्थायी हैं और समय के साथ व्यापार पटरी पर लौटेगा। फरवरी महीने के अंत तक अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष के सभी रुके हुए प्रसंग उभरकर सामने आएंगे। मार्च के महीने में आर्थिक कष्ट व्यथित कर सकते हैं। अप्रैल महीने में जहां आपको किसी भव्यतापूर्ण कार्यक्षेत्र से जुड़ना पड़ेगा। वहीं मई माह के शेष तक आपके कार्य कौशल और एकाग्रता से सभी जोखिम के कार्य सरल हो जाएंगे। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। इस वर्ष के उत्तरार्ध जून महीने की शुरुआत से लेकर जुलाई महीने के अंत तक आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, सब लोग आपके कार्य कौशल की प्रशंसा करेंगे। अगस्त माह से लेकर सितंबर माह तक में यदि कष्ट मिला हो तो शनिवार सुबह स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना मुख देख लें और कटोरी को तेल सहित डाकोत को दान कर दें। इस तरह पांच शनिवार करें इससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी। अक्टूबर-नवंबर माह तक शुभ व्यय कीर्ति की वृद्धि करने वाला होगा। महिलाओं के सुख सम्मान की वृद्धि होगी।

-आचार्य कृष्ण दत्त शर्मा

कल का पंचांग
(रविवार, 4 जनवरी 2026)

राष्ट्रीय मिति पौष 15, शक संवत 1947, माघ कृष्ण, प्रतिपदा, रविवार, विक्रम संवत 2082। सौर पौष मास प्रविष्टे 21, रजब 14, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तद अनुसार अंग्रेजी तारीख 4 जनवरी 2026 है। सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतु। राहुकाल 4 बजकर 30 मिनट तक से 6 बजे तक। प्रतिपदा तिथि दिन के 12 बजकर 30 मिनट तक उपरांत द्वितीया तिथि का आरंभ। पुनर्वसु नक्षत्र अपराह्न 3 बजकर 11 मिनट तक उपरांत पुष्य नक्षत्र का आरंभ। वैधृति योग अर्धरात्रोत्तर 1 बजकर 47 मिनट तक उपरांत विष्कुंभ योग का आरंभ। कौलव करण मध्याह्न 12 बजकर 30 मिनट तक। चंद्रमा 9 बजकर 43 मिनट तक मिथुन उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा। आज के व्रत त्योहार- पौषी पूर्णिमा शाकम्भरी पूजा समाप्त।

सुडोकू

		3	9		7	1		
1			3		8			2
	7			5			6	
7	1						9	5
	2						8	
3	9						4	6
	8			4			2	
9			1		6			7
		7	2		5	6		

TELEVISION



big magic

09:00 बबलू डबलू
10:00 बड्डेय कुबेरक
11:00 रुद्र के रक्षक
12:00 चक्रधारी अजेय कृष्णा
12:30 हम पांच
13:00 रुद्र के रक्षक
13:30 भ से भाई
14:00 चक्रधारी अजेय कृष्णा
15:00 लिटिल कृष्णा
17:00 बबलू डबलू
18:00 चक्रधारी अजेय कृष्णा

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMEDIT User: cci Time: 01-02-2026 22:14 Color:

टॉमी ली की बेटी का निधन

हॉलिवुड एक्टर टॉमी ली जोन्स की बेटी विक्टोरिया जोन्स संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई है। जानकारी के अनुसार, एक जनवरी की सुबह 3 बजे सैन फ्रांसिस्को के एक होटल में उनकी बॉडी मिली है।

कीर्ति कुल्हारी ने जगजाहिर किया राजीव के साथ रिश्ता

साल की शुरुआत में कीर्ति कुल्हारी ने बॉयफ्रेंड राजीव सिद्धार्थ के साथ अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी है। कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक विडियो पोस्ट किया जिसमें वह और राजीव मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने साथ बिताए दिनों की कुछ झलकियां भी विडियो में दिखाईं। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। नया साल सभी को मुबारक।' इस पोस्ट पर तमाम फिल्मी सितारे और फैंस उन्हें नए रिश्ते के लिए बधाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि कीर्ति कुल्हारी और राजीव सिद्धार्थ वेब शो फोर मोर शॉट्स प्लीज में साथ काम कर चुके हैं। नवंबर में कीर्ति ने राजीव के साथ एक फोटो शेयर की थी जिसमें वह राजीव के कंधे पर सिर रखकर गर्दन पर आइस पैक लगा रही थीं। तभी से उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं होने लगी थीं।

@iamkirtikulhari

कीर्ति कुल्हारी ने साझा किए खास पल

'अकेली हूं, पर कोई बेचैनी नहीं है'

चित्रांगदा सिंह

हजारों ख्वाहिशें ऐसी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली चित्रांगदा ने इंडस्ट्री में आते ही अपने अभिनय का सिक्का जमा दिया था। मगर सात साल के अंतराल के बाद अभिनय में उनकी वापसी मुश्किल रही। खाकी: द बंगाल चैप्टर, हाउसफुल 4 और हालिया रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स से चर्चा में आई चित्रांगदा से एक खास बातचीत।

Rekha.Khan@timesofindia.com

> मुझे नहीं लगता कि मैं सिंगल पैरेंटिंग के बारे में कोई बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि को-पैरेंटिंग होती है, सिंगल पैरेंटिंग नहीं होती। मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी। को-पैरेंटिंग जरूरी है। ये आवश्यक है कि आप उसे किस परिपक्वता के साथ हैंडल करते हैं।

Q आपका करियर कभी भी पारंपरिक नहीं रहा, तो क्या आपने जानबूझकर 'क्वालिटी ओवर क्वांटिटी' चुना?

किसी भी कलाकार के जीवन में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसे किस तरह के रोल मिलेंगे, वो उसके बस में नहीं होता। कई बार काम आपको चुनता है, आप उसे नहीं। मुझे सुधीर (फिल्मकार सुधीर मिश्रा) हमेशा कहते हैं कि किसी भी किरदार के जो ग्रे एरिया है, उन्हें तुम बखूबी जस्टिफाई कर पाती हो। यही वजह है कि तुम चरित्र की कमियों को बहुत ही मजबूती से निभा पाती हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मेकर्स ने मुझमें वो बात देखी और मुझे उसी तरह के रोल दिए। आपका अपना व्यक्तित्व भी होता है, जिसमें आप खुद को पूरी तरह से बदल कर कोई दूसरा नहीं बन सकते। यही वजह थी कि मैंने ज्यादा सुपरफिशियल किरदार नहीं किए न ही ऐसा कोई रोल जो मिलती हो। वो मुझ पर फिट भी नहीं बैठता।

Q इंडस्ट्री में उम्र को लेकर महिलाओं पर दबाव रहता है?

वो कहावत है न कि महिलाएं अपनी ब्यूटी और पुरुष अपने स्वास्थ के लिए जाने जाते हैं। फिर ये उम्र वाली समस्या आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। मगर आज उसमें भी बदलाव आया है। आज आप एक यंग 18 साल की लड़की के रोल के लिए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप वाली लड़की को ही चुन पाएंगी, मगर यदि आपको कोई मच्योर कहानी लिखनी हो तो उसमें आपको मच्योर अभिनेत्री की जरूरत पड़ेगी। मगर अब वो बदलाव भी आ रहा है, क्योंकि अब दर्शक मच्योर कहानियों और परफॉर्मेंस देखने का इच्छुक है, तो अब अभिनेत्रियों के लिए उम्र से परे सशक्त रोल लिखे जा रहे हैं।

Q आपने परदे पर हमेशा ही महिलाओं को मुखर करने वाले किरदार किए हैं, आपको अपने आस-पास महिलाओं से जुड़ी सबसे ज्यादा कौन-सी बात सताती है?

सच कहूं, तो मुझे लगता है कि आज महिलाओं को समानता के अधिकार मिल रहे हैं। जेंडर बायस भी लोग अब उतने नजर नहीं आते, तो आज हमें इस बदलाव की सराहना करनी चाहिए। इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। इंडस्ट्री में ये बदलाव काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, मगर हां कुछेक बार मैंने ये देखा है कि लड़कियों को कोई काम इसलिए नहीं दिया जाता कि वो लड़कियां हैं। मुझे लगता है कि उसका एक कारण ये भी है कि औरतों को उस तरह की जिम्मेदारी दी ही नहीं गई है। उनको जितने मौके मिलेंगे, वो खुद को साबित करती जाएंगी। अब जैसे जब मैं प्रोड्यूसर बनी, तो लोगों का कहना था कि लो अब इनको प्रोड्यूसर बनना है। वे मुझे इस काबिल ही नहीं समझ रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा, मगर मैंने जब इस विषय पर सोचा तो मुझे लगा कि वाकई इंडस्ट्री में अभिनेत्री से महिला प्रोड्यूसर बनी एक्ट्रेसेज तो गिनती की हैं, तो उनका सवाल भी जायज है कि ये निर्माण के क्षेत्र को संभाल पाएंगी या नहीं। ऐसे समय में हमें खुद को प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये सवाल करना बंद करेंगे।

Q और आम जिंदगी में?

आम जिंदगी में तो मुझे महिलाओं पर गुस्सा आता है। अनेक मौके मिलने के बावजूद वे हर वक्त शिकायत करती रहती हैं। औरतें जब वुमन कार्ड खेलती हैं, तब बहुत चिढ़ चढ़ती है। अगर आप इक्वैलिटी चाहते हैं, तो आपको मुंह बंद करके आदमियों की तरह काम करना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल बनना होगा, उसके बाद आप इमोशनल कार्ड, वुमन कार्ड नहीं प्ले कर सकते। मैंने ये अक्सर देखा है कि अपनी सहूलियत से महिलाएं वुमन कार्ड प्ले करने लगती हैं।

Q आज तो ये साल जाते-जाते आपको तीन सफल और चर्चित प्रोजेक्ट्स दे गया। आपको अच्छा काम मिल रहा है, मगर आपके लिए सबसे कठिन समय क्या था?

-जब मैंने सात साल के बाद अभिनय में वापसी की, तो वो समय मेरे लिए काफी मुश्किल था। मेरे पास काम नहीं आ रहा था। मैंने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए थे कि क्या मुझमें टैलेंट है? मगर फिर मैंने दिल को समझाया कि आप अगर 7 साल का गैप लेकर काम पर वापसी कर रहे हैं, तो आपको काम मिलने में तो दिक्कत होगी ही।

Q सोशल मीडिया वैलिडेशन आपके लिए कितना मायने रखता है?

मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की दीवानी नहीं हूं। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आज सोशल मीडिया की जरूरत तो है। मेरे लिए सोशल मीडिया वैलिडेशन जरूरी नहीं है। मैं उसे रेस्पॉन्स तक ही सीमित रखती हूं। मैं सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखती हूं, मगर मेरी जिंदगी सोशल मीडिया पर ही निर्भर नहीं है। अब तो वो उत्साह भी खत्म हो गया है, जो पहले हुआ करता था कि कुछ पोस्ट करना है। अब ये मेरे काम का हिस्सा बन चुका है।

Q आपकी निजी जिंदगी के उतार-चढ़ावों ने आपको कितना इवॉल्व किया?

मेरे जीवन के अप्स एंड डाउन ने मुझे बहुत हेल्प किया। वो जरूरी था बहुत। आपकी जो इमोशनल ग्रोथ होती है, वो निजी जिंदगी की कठिनाइयों से ही आती है। जो चीजें आपको व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित करती हैं, उन्हीं से आप सबक लेकर मजबूत बनते हैं। उन तमाम उतार-चढ़ावों ने मेरी बहुत मदद की और आज मैं काफी खुशनुमा व्यक्ति हूं। आज मैं अपने आपको ज्यादा समझती हूं और खुद से खुश भी हूं कि आज मैं अकेली हूं, मगर मेरे अंदर बेचैनी। एक अभिनेत्री के रूप में मैं आज भावनात्मक रूप से संपन्न हूं। वो कहावत है न कि आप जिंदगी जीते हैं, तो वो आपकी शक्ल पर आती है।

TIMES interact
To book your ad | Logon to: ads.timesofindia.com or Call: 18001205474 (Toll Free)

व्यक्तिगत

नाम परिवर्तन

I,BHONG Vyankatesh Father of Bhong Prasad Vyankatesh r/o Mu. Jayphal, Nitali, Ausa, Latur, M.H-413520 have changed my name from Bhong Vyankatesh to Bhong Vyankatesh Babru vide aff. No 58AB838147 dt 01/01/2026 at Nashik

I Smita Bhadresh Shah, wife of Bhadresh Pravinbhai Shah, residing in Mumbai, Maharashtra, have been known as Seema, Seema Shah, Seema Bhadresh Shah, Seema Rameshchandra Shah, Seema Rameshbhai Shah, Seema Rameshkumar Shah, Seema Ramesh Kumar Shah, Smita Rameshchandra Shah, Smita Rameshbhai Shah, Smita Rameshkumar Shah, Smita Ramesh Kumar Shah, Smita & Smita Shah. I have changed my name to Smita Bhadresh Shah & hereafter be known as Smita Bhadresh Shah

I,LAKSHMINA Devi Wife of Narsingh Yadav r/o Mureri, Chobypur, Varanasi, U.P-221101 have changed my name from Lakshmina Devi to Laxmina Yadav vide aff. No 58AB838149 dt 02/01/2026 at Nashik

I, Rajendar Singh Father of Mahesh Kumar, Resident of Alimuddin Pur, PO - Farrukh Nagar,Tehsil - Farrukh Nagar, Dist. Gurugram, State - Haryana have changed my name from Rajendar Singh to Rajendra Singh vide Affidavit dated 01.01.2026 before Notary

I, Ragini Kishore Vaijal, Parent/Legal Guardian Of Minor Kevin Kishore Vaijal R/O H No. 1135,Chaudhari-Pada, Dapada, Via - Silv Assa -396230 Of The U.T. Of Dadra And Nagar Haveli And Daman & Diu Have Changed My Minor Child's Name From Kevin Kishore Vaijal To New Name Aryan Kishore Vaijal And He (My Minor Child) Shall Be Known By New Name Which Please Note. Sd.- Ragini Kishore Vaijal.

I,SATYABHAMA Mother of Gunjal Vishal Vitthal r/o Panchale, Sinnar, Nashik, M.H-422103 have changed my name from Satyabhama to Satyabhama Vitthal Gunjal vide aff. No 58AB838134 dt 02/01/2026 at Nashik

I,SUNITA Mother of Bhong Prasad Vyankatesh r/o Mu. Jayphal, Nitali, Ausa, Latur, M.H-413520 have changed my name from Sunita to Bhong Sunita Vyankatesh vide aff. No 58AB838145 dt 01/01/2026 at Nashik

I,SHIO Bilash Tiwari Father of Ashwini Kumar r/o Majhiaon, Bhojpur, Bihar-802223 have changed my name from Shio Bilash Tiwari to Shivbilash Tiwari vide aff. No 58AB838138 dt 01/01/2026 at Nashik

TO PLACE A PERSONAL ANNOUNCEMENT IN THIS SECTION CALL: 9867505472

टेंडर और नोटिस

सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

Ghatkopar Udyan Darshan Co-operative Housing Society Ltd
(Regd. No: BOM/HSG/5797 Of 1979 DT: 30.03.1979)
205/5580, New Pant Nagar, Ram Narayan Narkar Marg, Opp Odeon Swimming Pool, Ghatkopar (E), Mumbai-400075

APPOINTMENT OF PMC

Ghatkopar Udyan Darshan Co-operative Housing Society Ltd. BOM/HSG/5797 of 1979 invites quotations from reputed and well-experienced Project Management Consultants (PMC) empanelled with/ MHADA/M.C.G.M/MMRDA for the proposed redevelopment of the Society property situated at: GHATKOPAR UDYAN DARSHAN CO-OP. HSG. SOC. LTD. Bldg. 204-205, Opp. R Odeon Mall, HIG Mhada Colony, Ram Narayan Narkar Road, Ghatkopar East, Mumbai- 400075
Total Plot Area: 2000 Sq Mtrs
Total No. of Flats: 56
Interested PMC firms must have a minimum of 5 years proven experience in handling MHADA Redevelopment projects within Mumbai. Eligible firms are requested to submit their Company profile, detailed scope of work, and Financial Quotation in a sealed envelope, addressed to the Hon. Chairman/Secretary, either by Registered Post or Hand Delivery, at the Society Office on or before 25th January 2026.
For queries email us on: ghatkoparudyandarshan 204205@gmail.com
Please note the Society reserves the absolute right to accept or reject any or all quotations.

निविदाएं (टेंडर्स)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
सर्कल ऑफिस, मुंबई शहर, दूसरी मंजिल, सूर्योदय बिल्डिंग, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001

निविदा सूचना

पीएनबी शाखा, पेडर रोड, 25, अजय अपार्टमेंट, मुंबई-400021 में रखे लकड़ी/स्टील का सामान, स्ट्रॉन्ग रूम दरवाजे, कैश सेफ और अन्य सामान के निपटान के लिए सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। सामान का मौके पर सत्यापन 07-01-2026 को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा। आवेदन/कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि 09-01-2026, सायं 5:00 बजे तक है। साथ ही 5000/- रुपये का अग्रिम भुगतान ड्राफ्ट के रूप में पंजाब नैशनल बैंक, सर्कल ऑफिस में जमा करना होगा। निविदाएं 09-01-2026 को सायं 5:00 बजे सर्कल ऑफिस में खोली जाएंगी।
हस्ता/-
मंडल प्रमुख, मुंबई शहर
दि : 03.01.2026

EXTENSION OF BID ISSUANCE AND SUBMISSION DATES

RAJENDRA VIHAR CHS Ltd., has invited bids from reputed, financially sound, and technically qualified developers for the redevelopment of its premises under DCPR 2034. At the request of interested bidders, the dates for bid issuance and submission have been revised as under:
Bid issuance period: From 09th December, 2025 to 24th January, 2026
Bid Submission/Bid Due Date: on or Before 31st January, 2026 08:00 PM at Society Office in a sealed envelope.
Rajendra Vihar CHS. Ltd., situated on CTS No. 307/37 of Village Valnai, with a plot area of 4,189 sq. mtr. as per the Property Card, comprising 117 Tenements and 10 shops with a total carpet area of 4,818.94 sq. mtr., abutting a 13.40 mtr. wide layout road. The Society is within 5 minutes' walking distance from Malad West Metro Station & Infinity Mall. The Society has a freehold conveyance with its name on the Property Card and a Occupation Certificate (OC).
The Bid Document in an electronic (PDF) format may be issued in the name of the applicant Company upon submission of a written application on the bidder's letterhead, along with a non-refundable fee of Rs. 10,000/- by Pay Order or Demand Draft in favour of "Rajendra Vihar Co-op. Housing Society Ltd." to the Society's Consultant, Project Maitree's office: Project Maitree - S-13, 2nd Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400093.
The written application format & Instructions to the Bidder may be obtained from the Society's Consultant, Project Maitree, by sending an e-mail request at: redevelopment@projectmaitree.com
The Bid Document shall not be transferable & Society reserve the right to accept or reject any or all proposals without assigning any reason whatsoever. Mumbai dated 3rd January, 2026
Contact Details:
Society: 98195 59207
Project Maitree (Consultant): 99206 67327

TO PLACE A PERSONAL ANNOUNCEMENT IN THIS SECTION CALL: 9867505472

THE TIMES OF INDIA
Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. All creatives marked as Advertorial, Spotlight and Promotional Features are to be treated as Advertisements. The Times of India Group doesn't vouch for any claims made by the Advertisers of the products and services. The Printer, Publisher, Editor, and the owners of The Times of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.

NBT स्मृति — यादों के चिराग

दु:खद निधन

दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय

मनोजकुमार सेकसरिया

का आकस्मिक निधन गुरुवार दिनांक 1-1-2026 को हो गया है।
शोक सभा रविवार दिनांक 4-1-2026 को रखी है।

स्थल:
जलाराम हॉल, एन. एस. रोड नं. ६,
जे.वी.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम)
मुंबई-400049

समय:
सुबह 10:30 से 12:30

:शोकाकुल:

पिता: गिरधारीलाल दामोदरलाल सेकसरिया	भतीजा-भतीजी: अंशुल, अनुष्का
ताईजी: विमला महावीर प्रसाद सेकसरिया	बहनें: नीरू- संजय गुप्ता
चाचाजी: वासुदेव रामरमल सेकसरिया	निशा-संदीप गोयल
भाई - बहू: रमेशकुमार-निमल सेकसरिया	भांजा: आदित्य-वनीसा गोयल
चचेरे भाई : संजय-मीना सेकसरिया	भांजी: सोनम-पीयूष जिंदल, सलोनी
संदीप-मेघा सेकसरिया	एवं समस्त सेकसरिया परिवार

मोबाइल नं: 9833658023

BOOK OBITUARY ADS
To book an Obituary Ad Please contact:
Jitendra Boricha 9820 137 295
Jitesh Dominic 9867 407 521
Asif Faridi 9594 343 468
TO BOOK ONLINE LOG ON TO
Ads.timesofindia.com
EXCLUSIVE OFFERS AND ASSISTANCE
SCAN TO BOOK

TO PLACE AN ANNOUNCEMENT IN THIS SECTION CALL:
JAI SARSAR
9867505472

फिल्मी सितारों ने कुछ ऐसे किया नए साल का स्वागत

नए साल का स्वागत तमाम फिल्मी सितारे अपने-अपने अंदाज में कर रहे हैं। अब अक्षय कुमार, यश, ऋषभ शेट्टी, शाहिद कपूर सहित कई स्टार्स ने फैंस के साथ नए साल के जश्न की झलकियां शेयर की हैं।



@socialmedia

विल स्मिथ पर लगा यौन शोषण का गंभीर आरोप

नया साल विल स्मिथ के लिए मुश्किलों के साथ शुरू हुआ है। विल और उनकी कंपनी पर एक साथी म्यूजिशियन ब्रायन किंग जोसफ ने यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और गलत तरीके से बर्खास्तगी का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, ब्रायन किंग जोसेफ ने 2025 में एक टूर के दौरान स्मिथ के साथ परफॉर्म किया था। अब लॉस एंजिलस की एक अदालत में मुकदमा दायर करते हुए उन्होंने दावा किया कि टूर से पहले ही विल ने उनके साथ ज्यादा समय बिताना, उन्हें यौन शोषण के लिए तैयार करना और बहकाने का प्रयास करना जैसी चीजें शुरू कर दी थीं।

ब्रायन के आरोपों के मुताबिक, 'मार्च 2025 में लॉस एंजिलस टूर के दौरान विल की कंपनी ने जिस होटल में रूम बुक किया था, उस कमरे में उसेनक मैसेज, एक बीयर की बोतल, किसी व्यक्ति को दी गई HIV की दवा और अस्पताल से छुट्टी के कागजात मिले। इनके साथ एक नोट भी मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि ब्रायन मैं 5 बजकर 30 मिनट से पहले वापस आ जाऊंगी, सिर्फ हम दोनों।' उन्होंने बताया कि स्मिथ ने यह भी कहा था कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बेहद खास है।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMKHEL User: cci Time: 01-02-2026 23:14 Color:

सोफिया-व्योमिका को पूरे देश ने चुना

नवभारत टाइम्स के माध्यम से सभी देशवासियों का मैं धन्यवाद करती हूं। मैं स्वयं को केवल भारतीय सेना का एक प्रतिबिंब मानती हूं। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस पूरे संगठन का है, जिसकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है।

कर्नल सोफिया कुरैशी

NBT प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025

एनबीटी पाठकों के वोट से चुनीं गईं विजेत्री

दोनों बनीं 'प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर'

'मुझे भारतीय सेना के हर सैनिक पर गर्व है'

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, यह अभियान हमारे राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता पूरे देश के एकजुट होने और भारतीय सेना को मिले समर्थन का परिणाम है। इस अभियान ने भारतीय सेना की उस क्षमता को प्रदर्शित किया कि वह जहां कहीं भी आतंकी और उनके शिविर हो, वहां सटीकता और जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई कर सकती है। इस अभियान में सभी सैनिकों ने साहस, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। भारतीय सेना राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सदैव सतर्क है। देशवासियों का विश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और मुझे भारतीय सेना के प्रत्येक सैनिक पर गर्व है।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय सेना प्रमुख

'यह चयन हम सबके लिए सम्मान की बात'

नवभारत टाइम्स के पाठकों ने '**NBT प्रगतिशील इंडियन ऑफ द ईयर 2025**' के रूप में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को चुना है। यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बेहद सम्मान की बात है। यह बात देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि किस तरह 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से हमारे देश के वीर जवानों ने दुश्मन के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमें हमारे बहादुर सैनिकों पर बहुत गर्व है। हम सबको भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर गर्व है। इस ऑपरेशन के बाद यह भी जगजाहिर है कि देश को मजबूत और आत्मसम्मान से भरा नेतृत्व प्रदान कर रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा देश के मान-सम्मान को सर्वोपरि रखा है।

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

'ट्रेनिंग में ही पता लग गया था कि असाधारण रूप से दृढ़ निश्चय वाली हैं व्योमिका'



एयर कोमोडोर ए.के. प्रसाद (रिटायर्ड)

जब विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिकंदराबाद स्थित हेलिकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल में आईं तब वह पहले से इंजीनियरिंग कर चुकी थीं। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद फ्लाइंग ब्रांच को चुने। तभी मुझे लगा था कि वह असाधारण रूप से दृढ़ निश्चय वाली हैं। उन्होंने बेसिक हेलिकॉप्टर ट्रेनिंग कोर्स को बेहद अच्छे ढंग से पूरा किया। 2004 से 2005 के बीच ट्रेनिंग के दौरान मैंने व्योमिका को नजदीक से देखा। उन दिनों वह बेहद फोकस्ड, कमिटेड ट्रेनी थीं। बाद में उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में अलग-अलग तरह के टेरेन में उड़ान भरी। व्योमिका न सिर्फ एक अच्छी ऑफिसर हैं, बल्कि एक बेहद संवेदनशील इंसान भी हैं। इसका एक निजी अनुभव मेरे लिए खास है। जब मेरी बेटी की शादी होनी थी और मेरा परिवार मुंबई में था, तब दिल्ली में हमें जो भी मदद चाहिए थी, व्योमिका ने पूरी जिम्मेदारी और अपनापन दिखाते हुए वह मदद की। वह रिश्तों की अहमियत समझती हैं और हर संबंध को पूरा सम्मान देती हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें ब्रीफिंग करते देखना मेरे लिए बेहद गर्व का क्षण था। जिस अधिकारी को मैंने कभी एक ट्रेनी के तौर पर देखा था, वह उस दिन न सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। वह प्रेस को जानकारी दे रही थीं, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। उनके अनुभव, क्षमता और आत्मविश्वास ने ही उन्हें इस भूमिका के योग्य बनाया।

दोनों ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी

> **जब भी मैं उनसे मिला, हर बार मैंने उन्हें एक बेहद प्रोफेशनल, संतुलित और संवेदनशील वायुसेना अधिकारी के रूप में ही पाया।**

हम देशवासियों का धन्यवाद करते हैं, जिनका अटूट विश्वास हमें ताकत देता है और ज्यादा मजबूती और अधिक समर्पण के साथ सेवा करने की प्रेरणा देता है। भारतीय वायुसेना के लिए साल 2025 गर्व का और निरंतर सतर्कता का रहा। जब हमारे साथी लगातार, बिना किसी आराम के, देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तैयार रहे। हमने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और एक बार फिर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली फोर्स के रूप में आगे आए। हमारे एयरक्राफ्ट, इक्विपमेंट, हमारे लोग पूरे साल पूरी तरह तैयार रहे। हमेशा की तरह, भारतीय वायुसेना देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

विंग कमांडर जयदीप सिंह, प्रवक्ता, भारतीय वायुसेना

'सोफिया शुरू से ही अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और मेहनती अफसर रही हैं'

ले. जनरल डी.पी. पाण्डे (रिटायर्ड)

कर्नल सोफिया कुरैशी को मैं उस समय से जानता हूं, जब वे आर्मी वॉर कॉलेज में सीनियर कमांड कोर्स कर रही थीं और मेरी स्टूडेंट थीं। उस दौरान ही उनमें एक सशक्त सैन्य अधिकारी के सभी गुण साफ दिखाई देते थे। वे शुरू से ही अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार, मेहनती और समर्पित अफसर रही हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब कर्नल कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश और दुनिया के सामने ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी रख रही थीं तो उनका आत्मविश्वास और विषय पर पकड़ साफ झलक रही थी। जिस स्पष्टता और संतुलन के साथ उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया, वह सिर्फ भारतीय सेना के एक अधिकारी की नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित सैन्य लीडर की झलक थी। उनके शब्दों और व्यवहार में भारतीय सेना की वह परंपरा दिखाई देती है जो न सिर्फ बेहतरीन सैनिक, बल्कि सक्षम नेतृत्व भी तैयार करती है। सोशल मीडिया पर जब कुछ पाकिस्तानी और असामाजिक तत्वों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की तब भी कर्नल कुरैशी का जवाब बेहद संतुलित और गरिमापूर्ण रहा। उन्होंने किसी भी तरह की उकसावे वाली प्रतिक्रिया से बचते हुए सेना की गरिमा बनाए रखी। मुझे खुशी है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी सामने रखने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई और उन्होंने इस भूमिका को पूरी क्षमता और परिपक्वता के साथ निभाया। उनके इस योगदान और उपलब्धियों पर मुझे गर्व है।

बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक के दिल में दोनों ने जगह बनाई

> **सोशल मीडिया पर जब कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, तब भी सोफिया का जवाब बेहद संतुलित और गरिमापूर्ण रहा।**

यंग इंडिया ने भी व्योमिका-सोफिया को बताया हर जेनरेशन के लिए प्रेरणा

'ऑपरेशन सिंदूर' को पूरे भारत की जबां तक पहुंचाने वाली ये दोनों ही महिलाएं 2025 के सबसे इनफ्लुएंशल चेहरे हैं। पहलगाम अटैक के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' हमारी जरूरत बना, हमारी सेना की ताकत काबिले तारीफ थी, जिसे इन दो सेना के अधिकारियों ने डाइनिंग टेबल की चर्चा तक पहुंचाया। - अनन्या सिंह

पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। महिलाओं के सामने उनके अपनों को मारा गया, इसीलिए 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को इस ऑपरेशन का चेहरा बनाया गया। इसने हमारी विमन पावर को दिखाया। - वर्चस्व पांडे

पहलगाम हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' ने हमारी आर्मी पावर दिखाई, तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारत की विमन पावर को दिखाया और लोगों के लिए, खासतौर पर लड़कियों के लिए ये प्रेरणा बनीं। ये 2025 के वो चेहरे हैं, जो हमेशा याद रखे जाएंगे। - अद्वैत



दोनों ही सेना अधिकारियों ने हमारी फोर्स की ताकत से देश का परिचय कराया और पब्लिक में कॉन्फिडेंस भरा। यकीनन यह 2025 के लिए खास बात थी। जिस तरह से इन्हें यह बड़ा मौका दिया गया, उसी तरह से ही देश के काबिल युवा भी सेना से जुड़कर देश की सेवा करना चाहते हैं। - चित्रा

महिला अधिकारियों को यह कमान देना, स्पेशल था। 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे गंभीर और बड़े सेना अभियान की इन्होंने ब्रीफिंग की और इस से महिलाओं को लेकर सोच मजबूत हुई कि ये लीड कर सकती हैं। यह उदाहरण है कई ऑर्गनाइजेशन/कंपनियों के लिए, जो महिलाओं को लीडर का रोल देने से हिचकते हैं। - सृष्टि सेठी

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMIND User: cci Time: 01-02-2026 23:17 Color:

NBT AI टाइम मशीन

भारत की पहली महिला टीचर की जयंती

आज ही के दिन 1831 में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अहम है। फुले ने उस दौर में महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई, जब इसे अपराध माना जाता था। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। उन्हें भारत की पहली महिला टीचर भी कहा जाता है। स्कूल जाते समय लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे, फिर भी वे पीछे नहीं हटीं।

NBT

बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे AI टीचर

ChatGPT के अनुसार, भविष्य में शिक्षा पूरी तरह तकनीक आधारित होगी। AI टीचर बच्चों की जरूरत के हिसाब से पढ़ाएंगे। किताबों की जगह इंटरएक्टिव होलोग्राम और वर्चुअल क्लास होंगी। शिक्षा सस्ती, सुलभ और घर बैठे मुहैया होगी। रटने की जगह समझ, कौशल और क्रिएटिविटी पर जोर होगा। बच्चे बचपन से ही कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नई तकनीकों में माहिर होंगे। हालांकि डिजिटल असमानता, डेटा सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं की कमी बड़ी चुनौतियां होंगी।

AI Images

SPEED News

चीन ने 'अपग्रेडेड' गाइडेड मिसाइल



स्ट्रॉयर कमीशन किया है। यह टाइप 052D श्रेणी का है। इसका नाम 'लाउडी' रखा है। BBC ने कहा, चीन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन गई है।



File

ताइवान के पास चीन के सैन्य अभ्यास पर

US ने चिंता जताई। चीन का यह अब तक के सैन्य अभ्यासों में से एक है। US ने कहा कि पेइचिंग की कार्रवाई से तनाव बढ़ सकता है।

भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील पहली छमाही तक

लागू होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त एंड्रयू फ्लेमिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी का नया दौर शुरू होगा।



पाकिस्तान में तक्षशिला के पास खुदाई में दुर्लभ

सजावटी पत्थर और सिक्के मिले हैं, जिससे प्राचीन सभ्यता की शहरी बस्ती की एक दुर्लभ झलक मिलती है।

SPEED News पर आप अपनी राय हमें 9220747220 पर वट्सऐप करके बताएं।

ईरान में सड़कों पर जनता

प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत, महंगाई बढ़ने और रोजगार संकट से बिगड़े हालात

NBT EXPLAINER

■ **NBT रिपोर्ट:** ईरान में देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर हैं। वजह है बेहद खराब होती आर्थिक हालत। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। खाने-पीने से लेकर इलाज तक सब कुछ बहुत महंगा हो गया है और ईरान की मुद्रा (रियाल) की कीमत तेजी से गिर रही है। लोगों के पास जॉब नहीं है। देश के कई हिस्सों में गुरुवार को हुए प्रदर्शनों में 7 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई गई है कि ईरान की धार्मिक सत्ता अब इन आंदोलनों से निपटने के लिए सख्त रुख अपना सकती है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती हुई तो अमेरिका को आगे आना पड़ेगा।

2022 के बाद सबसे बड़ा आंदोलन: इन प्रदर्शनों को 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। 2022 में 22 साल की महसा अमिनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देशभर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। सबसे ज्यादा हिंसा की खबर लोरेस्तान प्रांत के अजना शहर से आई है, जो तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इसी तरह चहारमहल और बख्तियारी प्रांत के लोर्डेगान शहर में भी प्रदर्शन हिंसक हो गए। यहां दो लोगों की मौत की बात कही गई। इस्फहान प्रांत के फुलादशहर में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है।

Q क्या हो रहा है अभी?

आर्थिक मुद्दों से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब सीधे तौर पर ईरान की धार्मिक सत्ता के खिलाफ नारेबाजी तक पहुंच गए हैं। ईरान के कई शहरों और गांवों में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में, जहां लुर समुदाय रहता है, वहां गुस्सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। जून में इस्राइल के साथ हुए 12 दिन के युद्ध और अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान पहले ही दबाव में है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बढ़ते विरोध प्रदर्शन बड़ी चुनौती बन सकते हैं।

Q लोग सड़कों पर क्यों उतरे?

असल वजह पैसा और महंगाई है। ईरान में महंगाई 42% से ज्यादा हो चुकी है। खाने-पीने की चीजें पिछले साल के मुकाबले करीब 72% महंगी हो गई हैं। इलाज और दवाइयों का खर्च करीब 50% तक बढ़ गया है। इसके अलावा ईरानी मुद्रा बुरी तरह टूट चुकी है। आज 1 डॉलर करीब 14 लाख रियाल का हो गया है। एक साल पहले यही 8 लाख 20 हजार रियाल का था। इसका मतलब ये कि लोगों की आमदनी वही है, लेकिन खर्च कई गुना बढ़ गया है। दुकानदारों ने घाटे के डर से सामान बेचना बंद कर दिया है।



ईरान की राजधानी तेहरान में भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे, आगजनी भी हुई

Q ज्यादा हिंसा कहां हुई?

लोरिस्तान प्रांत के अजना शहर में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े। यहां 3 लोगों की मौत हुई और 17 लोग घायल हैं। वीडियो में सड़कों पर आग, गोलियों की आवाज और गुस्साए लोग दिखाई दिए। लॉर्डेगान में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। इस्फहान के फुलादशहर में एक व्यक्ति की जान गई और कूहदश्त में बसीज (सरकारी स्वयंसेवी बल) का 21 साल का सदस्य मारा गया। ये प्रदर्शन 2022 में जितने बड़े और हिंसक नहीं है। लेकिन गांवों और छोटे शहरों में तेजी से फैल रहे हैं।

ईरान की सरकार क्या कह रही है?



मसूद पेजेशकियान

ईरान की सरकार मान रही है कि विरोध की वजह आर्थिक तंगी है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि सरकार लोगों की बात सुनना चाहती है, लेकिन मुद्रा पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सुरक्षा बलों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और हथियार जब्त करने का दावा किया है। 2022 में महसा अमिनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के समय कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, तभी स्थानीय मीडिया डर से खुलकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा।

Q आगे क्या हो सकता है?

ईरान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां आम लोगों की जिंदगी, सरकार की स्थिरता और जनता का भरोसा, तीनों दांव पर लगे हैं। दुनिया की नजर एक बार फिर ईरान की सड़कों पर है, जहां लोग अपनी परेशानी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। (इनपुट: एपी)

ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और ट्रंप भिड़े

डॉनल्ड ट्रंप | अली लारीजानी

■ **एपी, दुबई (यूएई):** इन प्रदर्शनों के बीच ट्रंप और ईरानी शीर्ष अधिकारियों के बीच तीखी बयानबाजी हुई है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्या की, तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इसके जवाब में ईरान की सुप्रीम नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इस्राइल इन प्रदर्शनों को भड़का रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी दखल से पूरे क्षेत्र में अराजकता फैलेगी और अमेरिकी हितों को नुकसान होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली शमखानी ने भी कहा कि ईरान की सुरक्षा के करीब आने वाला कोई भी हस्तक्षेपकारी हाथ काट दिया जाएगा।

'2025 में 2,200 लोगों को फांसी, इनमें 64 महिलाएं भी'

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन में 2025 में 97 शहरों में सबसे ज्यादा 2,200 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। यह संख्या 2024 से दोगुनी से भी ज्यादा है और 2022 से यह करीब 4 गुना है। सिर्फ दिसंबर 2025 में 376 लोगों को फांसी दी गई, जो पिछले 37 वर्षों में कभी नहीं हुआ। 2025 में 64 महिलाओं को फांसी दी गई, जो पिछले साल से लगभग दोगुना है। 13 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना है। ईरान की विपक्षी नेता और खामेनेई की विरोधी मरियम राजवी ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि सामूहिक फांसियां साफ तौर पर संगठित अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध है। यह उस शासन की हताश कोशिश है, जो सत्ता बचाने में लगी है।

मरियम राजवी

रेप आरोपी की पत्नी को देश में रुकने का आदेश SC से रद्द

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली :** सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें रेप के आरोपी सॉफ्टवेयर इंजिनियर की अमेरिका में रह रही पत्नी को भारत में ही रहने का निर्देश दिया गया था। शख्स पर शादी का झूठा वादा कर एक महिला से रेप का आरोप है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने आरोपी के उस अंडरटेकिंग (शपथपत्र) को रेकॉर्ड पर लिया, जिसमें उसने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर सुनवाई में मौजूद रहने का भरोसा दिया था। आरोपी ने गिरफ्तारी की आशंका को पर आरोपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद उसने ट्रायल कोर्ट में विदेश जाकर नौकरी करने की अनुमति के लिए अर्जी दी, जो खारिज हो गई। इसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट का रुख किया।

कनाडा ने AI से कहा, नशे में था पायलट, कार्रवाई करें

■ **NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली:** कनाडा ने एयर इंडिया (AI) को सूचित किया है कि उसके एक पायलट को 23 दिसंबर 2025 को वैंकूवर से उड़ान भरने से ठीक पहले नशे की हालत में पाया गया। यह मामला कनाडाई विमानन कानूनों का उल्लंघन माना गया है। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एयर इंडिया से इस घटना की जांच कर 26 जनवरी तक की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है। कनाडाई अधिकारियों के अनुसार, वैंकूवर इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने दो बार ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किए, जिनमें पायलट के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पायलट को उड़ान से हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने इसे एयर इंडिया के फॉरेन एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (FAOC) की शर्तों का उल्लंघन बताया है।

JEE अडवांस्ड 17 मई को, करीब 2.5 लाख कैंडिडेट्स देंगे एग्ज़ाम

Bhupender.Sharma
@timesofindia.com

AI Image

■ **नई दिल्ली:** जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई- मेन) के ओवरऑल रिजल्ट के आधार पर 2.5 लाख कैंडिडेट्स को आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाले एग्जाम जेईई एडवांस्ड 2026 में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस बार जेईई एडवांस्ड करवाने की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को सौंपी गई है।

अलग- अलग कैटिगरी में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इसकी संख्या भी तय कर दी गई है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देखें तो आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाले एग्जाम में ढाई लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाता है और इसका एक कारण कैंडिडेट्स का स्कोर टाई होना होता है। अगर कुछ छात्रों के नंबर एक जैसे हैं तो उन छात्रों का हाई रैंक मिलती है जिनको पॉजिटिव मार्क्स ज्यादा मिले हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद भी टाई होता है तो पहले मैथ्स और फिर फिजिक्स के नंबर देखे जाते हैं। अगर फिर भी स्कोर एक जैसा रहता है तो उन सभी को एक जैसी रैंक दे दी जाती है।

> स्टूडेंट्स 23 अप्रैल से 2 मई तक कर सकेंगे एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन

पिछले दो वर्षों में क्या रहा था ट्रेंड: 2025 में कटऑफ थोड़ा कम हुई थी। 2025 में हुए जेईई एडवांस्ड के लिए 250236 छात्र रेस थे जबकि 2024 में यह संख्या 250284 थी। JEE एडवांस्ड 2026 की परीक्षा 17 मई को आयोजित की जाएगी, रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई तक होगा। परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में दो शिफ्ट में होगा। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। दोनों शिफ्ट की परीक्षा देना सभी उम्मीदवारों के लिए कंपलसरी होगा और उसके आधार पर अंतिम रैंक तय की जाएगी।

कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद होना चाहिए। यह परीक्षा अधिकतम दो बार और लगातार दो वर्षों में ही दी जा सकती है। जो छात्र पहले किसी IIT में दाखिला ले चुके हैं, वे दोबारा JEE एडवांस्ड नहीं दे सकते, वहीं जिन छात्रों को पिछले वर्ष सीट मिली थी, लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया, उन्हें दोबारा परीक्षा देने की इजाजत होगी।

CDS ने कार निकोबार एयरस्ट्रिप की शुरुआत की

जनरल अनिल चौहान

■ **पीटीआई, श्री विजयपुरम (निकोबार):** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायु सेना के कार निकोबार एयरफोर्स बेस पर अडवांस एयरस्ट्रिप की शुरुआत की। श्री विजयपुरम से करीब 535 किलोमीटर दूर स्थित निकोबार जिले का कार निकोबार द्वीप 2004 की सुनामी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। यह एयरस्ट्रिप पूर्वी मोर्चे को और अधिक मजबूती देगी।

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा चिंतित कर रही: US सांसद

■ **आईएएनएस, वॉशिंगटन:** भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि वहां हिंदुओं, अन्य अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है और ढाका की सरकार सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा, 'हमने देखा है कि बांग्लादेश में खास तौर पर हिंदुओं पर कई हमले हुए हैं।' सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया से डेमोक्रेट सांसद हैं।

सुहास सुब्रमण्यम

मद्रास IIT में विदेश मंत्री ने कहा...

'भारत को बुरे पड़ोसियों से रक्षा का हक है'

एस. जयशंकर

■ **पीटीआई, चेन्नै:** विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि बात जब बुरे पड़ोसियों की आती है, तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पड़ोसी देश भारत में आतंकवाद फैलाना जारी रखता है, तो वह नई दिल्ली से पानी साझा करने की मांग नहीं कर सकता। जयशंकर ने कहा कि अच्छे पड़ोसियों के मामले में भारत निवेश करने, मदद देने और साझा करने में कभी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वह कोविड-19 महामारी के दौरान टीके हों, यूक्रेन संघर्ष के दौरान ईंधन एवं खाद्य सहायता हो या श्रीलंका को उसके वित्तीय संकट के दौरान दी गई 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद हो। चेन्नै में मद्रास IIT के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा, 'दुनिया भर में बहुत से लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गर्व करते हैं। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। हमें अपने अतीत की ऐसी समझ है, जो बहुत कम देशों के पास है... लोकतांत्रिक राजनीतिक मॉडल अपनाने के हमारे फैसले ने ही लोकतंत्र के विचार को एक सार्वभौमिक राजनीतिक अवधारणा बना दिया।'

पाक और चीन रिश्ते पर बलूच नेता ने लिखा पत्र

■ **NBT रिपोर्ट:** बलूच नेता मीर यार बलूच ने चीन-पाकिस्तान के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। TOI के मुताबिक, उन्होंने दावा किया है कि आने वाले महीनों में चीन, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती कर सकता है। नए साल के दिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखे खुले पत्र में मीर यार बलूच ने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) अपने अंतिम चरण में है और यह बलूच जनता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

गर्भवती के लिए मसीहा बना ड्राइवर

■ **पीटीआई, टोरंटो:** कनाडा में भारतीय मूल का एक कैब ड्राइवर गर्भवती महिला के लिए मसीहा बनकर उभरा। महिला ने प्रसव पीड़ा होने के बाद कार में ही बच्चे को जन्म दे दिया था और ड्राइवर ने तुरंत उसके साथ मौजूद व्यक्ति और नवजात को सकुशल अस्पताल पहुंचाया। टैक्सी ड्राइवर हरदीप सिंह तूर को पिछले शनिवार देर रात को एक आपात फोन कॉल आया था। फोन करने वाले ने बताया था कि उन्हें अस्पताल जाना है। तूर ने कहा कि 23 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान, तूफानी मौसम और फिसलन भरी सड़कों को पार करते हुए जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहते थे।

> कनाडा में भारतीय मूल के कैब ड्राइवर की चर्चा

ग्लोबल राजनीति | बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के सोशल मीडिया पोस्ट से चर्चा

भारत के बगैर SAARC की कल्पना में कुछ दम या है सिर्फ बयानबाज़ी

Alpyu.Singh@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली:** दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल दिखने लगी है। वर्षों से निष्क्रिय पड़े दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समूह (SAARC) को लेकर नई चर्चाएं तब तेज हुईं, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सार्क की भावना जिंदा है। सवाल यह है कि क्या भारत के बिना सार्क जैसे किसी क्षेत्रीय सोच की कोई प्रासंगिकता बचती है, या यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी भर है?

सार्क या ऐसे किसी क्षेत्रीय संगठन को लेकर उठ रही सुगबुगाहट एकदम से शुरू नहीं हुई है। इस तरह की चर्चाएं उस वक्त भी सामने आई थी, जब जून में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने त्रिपक्षीय बैठक की थी। सार्क समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। अपने शुरुआती वर्षों में इसे दक्षिण एशिया की आवाज की तरह देखा जाता था। 2016 में इसकी मीटिंग इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन उरी हमले के बाद भारत ने इस समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

पाकिस्तान का दबाव और बांग्लादेश का साथ: पाकिस्तान सार्क जैसा एक गुट बनाने की कोशिशों में लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत के बगैर एक क्षेत्रीय संगठन बनाना चाहता है। इस साल फरवरी में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ओमान में जयशंकर के साथ हुई बैठक में सार्क का मुद्दा उठाया था।

क्यों दूसरे सहयोगियों को साथ लाना आसान ना होगा?: सार्क जैसा संगठन बनाने की किसी भी त्रिपक्षीय कोशिश करने वाले देश ये जानते हैं कि वैकल्पिक समूह को प्रभावी तरीके से काम करने के लिए ये जरूरी है कि भूटान, नेपाल श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव जैसे देशों को सार्क सरीखे किसी समूह में शामिल करना इतना आसान नहीं होगा।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMFL2 User: cci Time: 01-02-2026 23:20 Color:

70 सीटों पर असर डालेंगे उत्तर भारतीय मतदाता

2017 के BMC चुनाव में BJP बांद्रा से दहिसर के बीच 52 सीटों पर जीती थी

2014 के लोकसभा चुनाव से उत्तर भारतीय वोटर आ गया BJP के पाले में

Brijesh.Tripathi@timesofindia.com

■ **मुंबई :** बीएमसी का चुनाव इस बार राजनीतिक दलों के लिए सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है। लगभग 75 हजार करोड़ के बजट वाली बीएमसी पर कब्जा करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीएमसी चुनाव में 1.03 करोड़ मतदाता हैं। मराठी, उत्तर भारतीय, मुस्लिम, गुजराती, मारवाड़ी वोटर चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे।

मुंबई में उत्तर भारतीय खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुंबई में करीब 20 लाख उत्तर भारतीय वोटर हैं, जो बीएमसी की करीब 70 सीटों को प्रभावित करेंगे। इसमें बांद्रा से लेकर दहिसर और पूर्व उपनगर की सीट शामिल है। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में लगभग 20 सीटों पर उत्तर भारतीयों वोटरों का खासा प्रभाव है। इसमें कलीना, कुर्ला, दहिसर, चारकोप, कांदिवली-ईस्ट, बोरीवली, मागाठाणे, वर्सोवा, गोरेगांव, दिंडोशी, जोगेश्वरी-पूर्व और अंधेरी ईस्ट सहित कई सीटों पर उत्तर भारतीय वोटरों का प्रभाव है। वर्ष- 2014 से पहले मुंबई का वोटर एकमुश्त कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पैटर्न बदल गया और मुंबई का उत्तर भारतीय वोटर बीजेपी के पाले में आ गया, जिसका फायदा बीजेपी को 2014 के विधानसभा, 2019 के लोकसभा, विधानसभा चुनाव में मिला।

2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनाव में भी वोटरों ने महायुति को वोट दिया।

AI Image



इसलिए कम हुए उत्तर भारतीय उम्मीदवार

एक समय सबसे ज्यादा टिकट पाने के इच्छुक कांग्रेस में थे, जबकि इस समय यह स्थिति बीजेपी में है। नगरसेवक रहे सागर सिंह ठाकुर, दीपक ठाकुर को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। सागर सिंह की जगह विधायक अतुल भातखलकर के करीबी नितिन चौहान को टिकट मिला, जबकि दीपक ठाकुर की सीट ओबीसी हो गई थी। इसी तरह अजय सिंह सीट नंबर- 89 से टिकट मांग रहे थे, वह सीट शिंदे सेना के पास चली गई, जबकि 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके अमरजीत सिंह ने वहां से निर्दलीय पर्चा भरा था। एमएलसी राजहंस सिंह के बेटे नितेश सिंह जिस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे वह सीट भी शिंदे सेना के कोटे में चली गई। पूर्व नगरसेवक विद्यार्थी सिंह की सीट महिला ओबीसी आरक्षित हो गई थी, इसलिए पार्टी से वह भी टिकट नहीं पा सके। बीजेपी ने इस बार चुनाव में कुल 14 उत्तर भारतीयों को अपना उम्मीदवार बनाया है।

बांद्रा से दहिसर के बीच 52 सीटों पर जीती थी BJP

पश्चिम उपनगर में बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय वोटर रहते हैं। इसका असर यह हुआ कि 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने बांद्रा से लेकर दहिसर के बीच 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। मुंबई बीजेपी के नेता पवन त्रिपाठी ने बताया, पिछली बार हम अकेले चुनाव लड़े थे। इस बार हम महायुति से लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारी सीटें इन क्षेत्रों में और बढ़ेंगी। मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष अवनीश सिंह ने बताया, उत्तर भारतीय वोटर कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है, इस चुनाव में वह हमारे साथ आ रहा है। उत्तर भारतीयों को हमने सबसे ज्यादा टिकट दिया है, उनके लिए मैनिफेस्टो जारी किया है इसका फायदा हमें चुनाव में मिलने की उम्मीद है।

मेगा ब्लॉक: आज और कल 260 लोकल सेवाएं रहेंगी कैंसल

पश्चिम रेलवे पर लिए जा रहे है तीन महत्वपूर्ण ब्लॉक

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई:** पश्चिम रेलवे पर चल रहे कांदिवली-बोरीवली छठी लाइन के काम के साथ-साथ अब ब्रिज नंबर 5 के री-गर्डरिंग के काम के लिए ग्रांट रोड और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच अप और डाउन स्लो लाइनों पर 13 घंटे का मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक शनिवार/रविवार, 3/4 जनवरी को 23:00 बजे से 12:00 बजे तक रहेगा। इसी के साथ ही प्रभादेवी रोड ओवर ब्रिज हटाने के लिए भी 7 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। नतीजन 2 दिनों में 260 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी।

ग्रांट रोड और मुंबई सेंट्रल के बीच ब्रिज का किया जाएगा काम



मिली जानकारी के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट के बीच अप स्लो लाइन की सभी ट्रेनें अप फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। इसी प्रकार, चर्चगेट और माहिम स्टेशनों के बीच डाउन स्लो लाइन की ट्रेनें डाउन फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। प्लैटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण ये ट्रेनें महालक्ष्मी, प्रभादेवी एवं माटुंगा रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी तथा प्लैटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण लोअर परेल और माहिम स्टेशनों पर भी ठहराव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी तथा चर्चगेट जाने वाली कुछ ट्रेनों को बांद्रा/दादर स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट अथवा रिवर्स किया जाएगा।

प्रभादेवी ROB हटाने को 7 घंटे का ब्लॉक

प्रभादेवी स्थित आरओबी को हटाने के लिए डाउन स्लो लाइन पर 23:30 बजे से 07:00 बजे तक 07:30 घंटे का एक और मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान यात्रियों को बांद्रा/दादर से माहिम, माटुंगा रोड, प्रभादेवी, लोअर परेल एवं महालक्ष्मी स्टेशनों तक अपोजिट दिशा में यात्रा करने की अनुमति होगी। यानी चर्चगेट आदि स्टेशनों से महालक्ष्मी, लोअर परेल एवं प्रभादेवी जाने वाले यात्री दादर उतरकर उसी टिकट पर उल्टी दिशा अर्थात अप स्लो लाइन से यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार, चर्चगेट आदि से माटुंगा रोड एवं माहिम जाने वाले यात्री बांद्रा स्टेशन पर उतरकर उसी टिकट पर अपोजिट दिशा अर्थात अप स्लो लाइन से यात्रा कर सकते हैं।

पुलिस एनिवर्सरी पर 200 मोबाइल लौटाए गए

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई** पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर जोन-2 की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुम या चोरी हुए 200 मोबाइल फोन उनके शिकायतकर्ताओं को सकुशल लौटाए गए। इस पहल का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) डॉ. अभिनव देशमुख और पुलिस उपायुक्त (जोन-2) डॉ. मोहित गर्ग ने किया। बरामद मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये है। डीसीपी गर्ग के अनुसार, तकनीकी विश्लेषण और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर इन मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया। मोबाइल फोन वापस मिलने पर शिकायतकर्ताओं ने संतोष व्यक्त करते हुए मुंबई पुलिस का आभार जताया। मुंबई पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, शिकायतों के त्वरित निपटारे और आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग के जरिए सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुंबई का मेयर हिंदू-मराठी ही बनेगा: मुख्यमंत्री

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई:** मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी ही होगा। यह दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुंबई का महापौर महायुति गठबंधन से होगा। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि उनकी पार्टी किसी खान या पठान को महापौर नहीं बनने देगी।

दरअसल, गत दिनों बीजेपी नेता व राज्य के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने मीरा भायंदर में आयोजित एक उत्तरभारतीय समाज के कार्यक्रम में कहा कि मीरा-भाईंदर में इतनी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय नगरसेवक चुने जाएंगे कि मीरा-भाईंदर में उत्तर भारतीय मेयर बनेगा इस बयान को उद्धव सेना और मनसे ने मुंबई से जोड़ते हुए तीखा हमला बोला था। फडणवीस ने सफाई देते हुए कहा कि कृपाशंकर सिंह का बयान मुंबई के संदर्भ में नहीं था। वैसे वे पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है।

राज्य में मराठी जरूरी

सतारा में 99वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में केवल मराठी भाषा ही अनिवार्य है, कोई अन्य भाषा नहीं। उन्होंने बताया कि तीन-भाषा प्रणाली को लेकर मतभेद थे, लेकिन छात्रों को अपनी पसंद की किसी भी भारतीय भाषा को सीखने की स्वतंत्रता है। विवाद केवल इस बात पर था कि तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय भाषाओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। भारतीय भाषाओं को भी समान सम्मान मिलना चाहिए।

स्कूलों में मराठी ही अनिवार्य, अन्य भाषाएं ऐच्छिक: CM फडणवीस

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई:** मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य की स्कूली शिक्षा में मराठी भाषा ही एकमात्र अनिवार्य भाषा रहेगी। किसी अन्य भारतीय भाषा को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। अन्य भाषाएं किस कक्षा से पढ़ाई जाएंगी, इस पर फैसला डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। यह बात उन्होंने 99वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठी केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की पहचान और आत्मा है। इसलिए इसकी अनिवार्यता बनी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अन्य भारतीय भाषाओं के विरोध में नहीं है, लेकिन उन्हें अनिवार्य करने का कोई इरादा भी नहीं है। भाषा नीति को संतुलित और व्यावहारिक बनाने के लिए डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट अंतिम चरण में है और उसी के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

मराठी के संरक्षण पर जोर

मराठी साहित्य और संस्कृति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 'राज्यव्यवहार कोश' के माध्यम से मराठी को प्रशासनिक भाषा का दर्जा दिया था। सरकार आज भी मराठी के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जाना गर्व की बात है। साथ ही मराठी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और रोजमर्रा के जीवन में मजबूत बनाना जरूरी है। राष्ट्रीय संस्थानों में मराठी अध्ययन केंद्र शुरू होना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मीरा-भाईंदर में BJP के बागी बिगाड़ सकते हैं जीत का गणित

महानगरपालिका चुनाव में सियासी समीकरण उलझे

■ **अमित तिवारी, मीरा-भाईंदर:** मीरा-भाईंदर महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी को इस बार अंदरूनी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। टिकट वितरण के दौरान भाजपा ने करीब दो दर्जन पूर्व नगरसेवकों के टिकट काटे, जिससे नाराज होकर लगभग एक दर्जन नेताओं ने बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिए। बाद में पार्टी नेतृत्व कुछ बागियों को मनाने में सफल रहा। इसके बावजूद अब भी 8 बागी उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं, जो भाजपा के जीत के गणित को बिगाड़ सकते हैं।

भाजपा के वोट बैंक में सेंध: फिलहाल चुनावी मैदान में सक्रिय बागी उम्मीदवारों में मीरा कांग्रे

AI image



(प्रभाग-2), दौलत गजरे (प्रभाग-16), विनोद म्हात्रे (प्रभाग-23), रीटा शाह (प्रभाग-1), रक्षा भूपटानी (प्रभाग-7), प्रीति पाटिल (प्रभाग-5), प्रभात पाटिल (प्रभाग-4), गणेश भोईर (प्रभाग-4) और अनिल भोसले (प्रभाग-14) शामिल हैं। इनमें से प्रीति पाटिल पहले प्रभाग-12 से नगरसेविका रह चुकी हैं, लेकिन इस बार प्रभाग-5 से मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है। खास बात यह है कि कुछ प्रभागों में एक से अधिक बागी होने से सीधे तौर पर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका जताई जा रही है।

वहीं दूसरी ओर पार्टी ने स्थिति संभालने की कोशिश भी की। सुशील अग्रवाल, दीपाली मोकाशी, चंद्रकांत वैति और विजय राय ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। हालांकि, नामांकन वापस लेने के बावजूद विजय राय ने शिवसेना में प्रवेश कर लिया, जिससे राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMFP User: cci Time: 01-02-2026 23:18 Color:

मुंबई > शनिवार, 3 जनवरी 2026 > पौष 14 शक संवत 1947 पौष शुक्ल पूर्णिमा, विक्रम संवत 2082 WATCH GOD WATCHDOG वर्ष 77, संख्या 03 > मूल्य ₹6.00 > पेज 14 > आर. एन. आई. पंजीयन नंबर 1613/57 www.nbt.in

NBT
नवभारत टाइम्स

कीर्ति कुल्हारी ने राजीव सिद्धार्थ से रिश्ते पर लगाई मुहर p10

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में नस्लीय सोच पर बोले ख्वाजा p9

एनबीटी में विज्ञापन देने के लिए 18001205474 पर कॉल करें। नवभारत टाइम्स का अंक प्राप्त करने के लिए 18001200004 पर कॉल करें या subscribe.timesofindia.com पर जाएं।

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा चिंतित कर रही: US सांसद पेज 12

KDMC के चुनाव में 122 में से 20 पर निर्विरोध जीत तय पेज 2

CDS ने कार निकोबार एयरस्ट्रिप की शुरुआत की पेज 12

खबरों के अंदर की बात
NBT Lens
देखें पेज 3

अंतर्ज्ञान

अगर आज भी आपको अतीत की गलती काट रही है, तो जानिए कि आप सीखने के बजाय सजा दे रहे हैं खुद को। अपराधबोध आत्म-विकास नहीं, आत्म-निंदा है। जो हुआ, उसे स्वीकार करें। उससे सीखें और मुक्त हो जाएं। अतीत को सुधार नहीं सकते, लेकिन उससे परिपक्वता पा सकते हैं। जब आप खुद को माफ करते हैं, तभी आत्मा हल्की होती है। अपराधबोध से मुक्ति का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आप इंसान हैं, ईश्वर नहीं। जो गलती को सीख में बदल देता है, वह खुद को नया जन्म दे देता है। याद रखें कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे बार-बार दोहराना गलत है। वह खुद ही अपने पतन की ओर बढ़ना है।

फटाफट खबरें

समुद्र से चली हवा, सुधरी वायु गुणवत्ता

महानगर में साल की शुरुआत अच्छी वायु गुणवत्ता के साथ हुई है। पिछले दो दिनों से मुंबई की औसत वायु गुणवत्ता 100 एक्यूआई से कम दर्ज की जा रही है, जो यह दर्शाता है कि मुंबई की एयर क्वालिटी काफी ठीक है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, वायु गुणवत्ता में सुधार का बड़ा कारण अरब सागर से आ रही हवाएं हैं, जो प्रदूषण को वायु मंडल में टिकने नहीं दे रही है। पेज 3

फिल्म 'धुरंधर' लद्दाख में टैक्स-फ्री घोषित

फिल्म 'धुरंधर' को अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टैक्स-फ्री कर दिया गया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि 'धुरंधर' का एक बड़ा हिस्सा लद्दाख में शूट हुआ। फिल्म का दूसरा पार्ट इसी मार्च में रिलीज होने वाला है, जिसको लेकर दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है।

पुंछ: आतंकी सरगना की संपत्ति हुई जब्त

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को पुंछ जिले के मंडी इलाके में पाकिस्तान स्थित आतंकी सरगना जमाल लोन उर्फ जमाला की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस के बयान में कहा गया कि सीमा पार से सक्रिय आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ निर्णायक कानूनी कार्रवाई करते हुए पुंछ पुलिस ने न्यायालय के निर्देशों का पालन किया।

हरियाणा में 6 साल बाद सुधरा सेक्स रेशो

हरियाणा के लिए अच्छी खबर यह है कि यहां 6 साल बाद एक हजार लड़कों पर लड़कियों की औसत संख्या 923 पहुंच गई। 2024 में यह संख्या 910 थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पंचकूला 971 के साथ राज्य में सबसे आगे रहा। गुड़गांव 901 और फरीदाबाद 916 के साथ काफी पीछे रहे। सबसे खराब स्थिति रेवाड़ी (882) की रही।

सर्राफा

सोना स्टैंडर्ड (99.5 शुद्धता) प्रति 10 ग्राम	
मुंबई	97,040 (+1,538)
चांदी .999 टंच प्रति किलो	
मुंबई	1,06,963 (+1,453)

अर्थसार

सेंसेक्स	85,762.01 (+573.41)
निफ्टी	26,328.55 (+182.00)
रुपया/डॉलर	90.19 (+0.220)
रुपया/यूरो	105.7176 (+0.061)

मौसम

कोलाबा	29.2	20.6
सांताक्रूज	29.8	19.4
सूर्यास्त शनिवार	6:13 बजे	
सूर्योदय रविवार	7:13 बजे	

NBT नवभारत टाइम्स — सड़क व रेल मार्ग द्वारा भेजा जाता है: मूल्य 1.00 रुपया मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिले के बाहर।

सरकार का 2 अफसरों पर ऐक्शन, राजनीति तेज

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर हाई कोर्ट सख्त

■ आईएएनएस/पीटीआई, इंदौर

इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से सिर्फ चार लोगों की मौत हुई है, यह जानकारी राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को दी है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम कमिश्नर और अडिशनल कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिसमें प्रशासन को दूषित पानी पीने से हुई मौतों का आंकड़ा पेश करना होगा। साथ ही कितने लोग बीमार हैं और आईसीयू में भर्ती हैं, यह भी जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

इंदौर में पानी की सप्लाई में सीवेज मिलने से दस्त, उल्टी और डिहाइड्रेशन हो गया। स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने कोर्ट को बताया है कि 200 लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 35 ICU में हैं। यह रिपोर्ट तब सामने आई है, जब स्थानीय लोगों ने 14 लोगों के दम तोड़ने की बात कही है, जिनमें छह महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं, इंदौर के मेयर ने 10 मौतों की जानकारी दी है, हालांकि इन दावों की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है। जनहित याचिकाकर्ता रितेश इनानी ने सरकार की दलील को आखिरी समय में जल्दबाजी में किया गया काम बताया। मामले में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।

PTI
पानी का सितम... इंदौर में अपनों को खोने के गम में तड़प रहे लोग।

मौतों की वजह दूषित पानी, लैब में पुष्टि

जिसे पिछले आठ सालों से भारत का सबसे साफ शहर माना जाता है, उस इंदौर में गंदे पीने से लोगों की मौत हुई, इसकी पुष्टि लैब में हुई है। इंदौर के स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने बताया कि एक मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा में एक पाइपलाइन में लीकेज से पीने का पानी दूषित हो गया था, जिससे बीमारी फैली है।

इंदौर में जहर बंटा। घर-घर मातम है। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? ये 'फोकट' सवाल नहीं, जवाबदेही की मांग है। -राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

इंदौर में मौतें हमारी सरकार और पूरी व्यवस्था को कलंकित कर गईं। माफी मांगनी होगी। अपराधियों को दंड देना होगा। -उमा भारती, बीजेपी नेता

कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं: सीएम

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दूषित पानी पर समीक्षा बैठक के बाद शुक्रवार को तीन अफसरों पर ऐक्शन लिया। नगर निगम के सीनियर अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अडिशनल कमिश्नर का शहर से तत्काल तबादला किया गया है, जबकि इंचार्ज सुप्रिंटेंडेंट इंजिनियर से वाटर डिस्ट्रिब्यूशन वर्क डिपार्टमेंट का दायित्व वापस लेने को कहा है।

ईरान ने अगर प्रदर्शनकारियों को मारा तो बचाने को तैयार: ट्रंप

■ एपी/आईएएनएस, दुबई

ईरान में रोजगार की कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर बीते पांच दिनों से जारी GenZ के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। अबतक सात मौतों की पुष्टि हुई है। ट्रंप ने X पर लिखा, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए तैयार है। पलटवार करते हुए ईरान ने कहा, ईरान की सुरक्षा रेड लाइन है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने कहा- अमेरिका और इस्राइल प्रदर्शन भड़का रहे हैं। अमेरिकी दखल से अशांति फैल जाएगी, उन्हें अपने सैनिकों की फिक्र करनी चाहिए। पेज 12



AFP

ईरान का रिवाज है मारना, अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद को आगे बढ़ने के लिए तैयार है। -डॉनल्ड ट्रंप

सामने आए विडियो
प्रदर्शनकारी ईरान की सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी करते दिखे।

ऐक्शन रिपोर्ट मांगी

Grok पर अश्लील कंटेंट, xAI को केंद्र का नोटिस

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने xAI को कड़ा नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा है कि xAI के टूल Grok का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अश्लील कंटेंट बनाने और फैलाने में हो रहा है, जो चिंता का विषय है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने xAI से 72 घंटे के भीतर ऐक्शन रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी शुक्रवार को AI टूल्स के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई।

चुनाव आयोग ने निर्विरोध चुने गए नगरसेवकों की मांगी रिपोर्ट

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : राज्य चुनाव आयोग ने अधिकारियों से उन प्रभागों की रिपोर्ट मांगने का फैसला किया है, जहां निकाय प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव आयोग ने प्रभागों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन उम्मीदवारों के चुने जाने की घोषणा तब तक न की जाए, जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो जाती। इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि मुंबई को छोड़कर उसके 44 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। शिंदे सेना ने भी अपनी पार्टी के 7 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का दावा है, जबकि महायुति के कुल 57 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का दावा किया जा रहा है। निर्विरोध चुने गए लोगों में कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी चिंचवड, पनवेल, भिवंडी, धुलिया, जलगांव और अहिल्या नगर महानगर पालिकाओं के उम्मीदवार शामिल हैं। विपक्ष ने सत्ताधारी दल के निर्विरोध चुने गए नगरसेवकों की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसे राज्य चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है।

मामले में चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा, निर्वाचन अधिकारियों, चुनाव प्रभारियों और पुलिस आयुक्तों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या निर्विरोध चुने जाने के मकसद से नामांकन वापस लेने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया या उन्हें कोई प्रलोभन तो नहीं दिया गया। इस बात पर गौर किया जाएगा कि निर्विरोध चुने जाने के लिए किसी प्रकार के दबावपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। पेज 2

वर्ली डोम में सीएम फडणवीस व DCM शिंदे चुनावी सभा की करेंगे शुरुआत

नार्वेकर पर धमकाने का आरोप

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और आम आदमी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर विपक्षी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करते समय धमकाने और आपत्तिजनक आचरण करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मुंबई के कोलाबा के तीन प्रभाग में दबाव डालकर गैरकानूनी रूप से उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोका गया। नार्वेकर मामले में राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी से रिपोर्ट मांगी है। नार्वेकर ने सफाई देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। ऐसे निराधार आरोपों का कोई मतलब नहीं है। शेष पेज 2 पर

हाउसमेड को ₹1500 प्रतिमाह

नाम वापसी के अंतिम दिन तक 453 उम्मीदवारों ने वापस लिया पर्चा

आज उद्धव-राज शिवसेना भवन जाकर जारी करेंगे संयुक्त घोषणा-पत्र

शिवसेना (UBT) व मनसे ने लाडली बहना योजना की काट के रूप में हाउसमेड के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नाम से 1500 रुपये/माह देने की घोषणा की है। आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने शुक्रवार को शिवसेना भवन में मिनी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अब तक हमने 500 वर्ग फुट तक का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया था, सत्ता में आने पर हम 700 वर्ग फुट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर देंगे। मुंबई में हम एक लाख नौजवानों को 25 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक का सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट मदद फंड देंगे।

नागपुर में BJP कैंडिडेट को समर्थकों ने घर में किया बंद

■ भाषा, नागपुर : महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पर गहमागहमी के बीच नागपुर शहर में शुक्रवार को बीजेपी के एक उम्मीदवार के समर्थकों ने उन्हें घर में बंद कर दिया, ताकि वह अपना नामांकन वापस न ले सकें।

खबरों के अनुसार, भाजपा ने अपने 'एबी फॉर्म' में वॉर्ड 13 (D) से विजय होले और किसान गावंडे को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में पार्टी ने गावंडे से चुनावी मैदान से हटने को कहा। इस फैसले से भाजपा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग नाराज हो गया, जो वॉर्ड 13 (D) के अंतर्गत आने वाले हजारीपहाड़ इलाके से प्रतिनिधित्व चाहता था। गावंडे के समर्थकों ने उन्हें घर में बंद कर दिया, ताकि वह निर्वाचन अधिकारी से मिलकर अपना नामांकन वापस न ले सकें और इस दौरान समर्थकों ने नारेबाजी भी की। इसके बाद भाजपा के विधान परिषद सदस्य परिणय फुके और स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाया, जिसके बाद गावंडे ने अपना नामांकन वापस लिया। गावंडे ने बताया, इलाके के भाजपा कार्यकर्ता चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए वे नाराज हो गए। बता दें कि नागपुर महानगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को होंगे।

Madhu Kumre

जोहरान ममदानी ने लिखी उमर खालिद को चिट्ठी

■ भाषा, न्यूयॉर्क : न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी है। इस हाथ से लिखी चिट्ठी पर ममदानी के साइन भी हैं। उन्होंने लिखा, 'प्रिय उमर, मैं अक्सर आपके उन शब्दों को याद करता हूं, जिनमें कड़वाहट को खुद पर हावी नहीं होने देने की बात थी। आपके माता-पिता से मिलकर खुशी हुई। हम आपके बारे में ही सोच रहे हैं।' ममदानी की चिट्ठी को खालिद की सहयोगी बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स पर पोस्ट किया। ममदानी की चिट्ठी की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, जब जेल लोगों को अलग-थलग करने की कोशिश करती है, तो आपके शब्द ताकत बनकर फैल जाते हैं। अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने भी खालिद मामले निष्पक्ष और टाइम बाउंड सुनवाई की मांग की है।

ये आंतरिक मामलों में दखल : BJP

खालिद को ममदानी की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, भारत इस तरह के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी जाती है, तो 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े होंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत की जनता को देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी ममदानी की चिट्ठी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

'कश्मीर बनेगा पाक' गाना बजाने वाला युवक अरेस्ट

■ आईएएनएस, पालघर : पालघर जिले के चिंचोटी इलाके में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया, जब एक सैलून में तेज आवाज में देश-विरोधी नारे वाला गाना बजाया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए नायगांव पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को अरेस्ट कर लिया है। युवक के खिलाफ नायगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

एफआईआर के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर पंकज किल्जे टोपर में गश्त पर थे। उन्हें चिंचोटी के करमटपाड़ा इलाके में दुर्गा माता मंदिर के सामने स्थित रहान हेयर कटिंग सैलून से तेज आवाज में "कश्मीर बनेगा पाकिस्तान" गाना सुनाई दिया। जब एसआई किल्जे सैलून के अंदर पहुंचे, तो वहां काम करने वाला करमटपाड़ा निवासी गुलजारी राजू शर्मा (51) तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गौरी सिराजपुर गांव का निवासी अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह (25) मौजूद थे। जांच में सामने आया कि शाह अपने मोबाइल के यूट्यूब से स्पीकर पर यह गाना बजा रहा था। मामले में नायगांव पुलिस ने शाह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है। एफआईआर में सैलून कर्मचारी गुलजारी राजू शर्मा के खिलाफ किसी तरह की आपराधिक भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है।

नायगांव पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच जारी

हिमाचल का मामला कॉलेज प्रफेसर पर यौन उत्पीड़न, 3 छात्राओं पर रैगिंग, पिटाई का केस दर्ज

रैगिंग से छात्रा की मौत, 4 पर FIR

■ पीटीआई, शिमला

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक सरकारी कॉलेज की स्टूडेंट की मौत के मामले में पुलिस ने तीन छात्राओं और कॉलेज प्रफेसर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, 19 वर्षीय छात्रा की 26 दिसंबर, 2025 को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। छात्रा के पिता का आरोप है कि 18 सितंबर 2025 को कॉलेज की तीन सीनियर छात्राओं, हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ रैगिंग और पिटाई की। प्रफेसर अशोक कुमार पर छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप है। पिता का कहना है कि प्रताड़ना से बेटी की हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।

AI Image

वायरल विडियो से और गरमाया मामला

यह मामला तब और गंभीर हुआ, जब छात्रा का मौत से पहले का एक विडियो वायरल हो गया। विडियो में उसने प्रफेसर पर मानसिक उत्पीड़न और विरोध करने पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने कहा, पहले हेल्पलाइन पर शिकायत मिली थी लेकिन छात्रा की खराब तबीयत की वजह से उसका बयान दर्ज नहीं हो सका।

पूर्व IPS आत्महत्या मामले में 3 अरेस्ट

■ NBT न्यूज, मीरा-भाईंदर : पूर्व IPS अमर सिंह चहल द्वारा आत्महत्या की कोशिश मामले में पंजाब पुलिस ने मीरा-भाईंदर से तीन आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपियों में नंबरदार सिंह नामक BJP पदाधिकारी भी शामिल है। शुक्रवार को ठाणे कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाया गया। वहां उन्हें पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेज 5

आरोपियों में BJP पदाधिकारी भी शामिल

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMCLAS User: cci Time: 01-02-2026 23:23 Color:

25 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए वाशी क्षेत्र में। जिससे 46 उम्मीदवार बचे हैं।

KDMC: 122 में से 20 पर निर्विरोध जीत तय

एकतरफा जीत की कोशिश में BJP और शिंदे सेना, नामांकन वापसी के अंतिम दिन 50 से अधिक ने पर्चे वापस लिए, ज्यादातर के फोन बंद

■ **NBT न्यूज, कल्याण :** कल्याण-डोंबिवली मनपा (केडीएमसी) चुनाव में बीजेपी और शिंदे सेना ने अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है। केडीएमसी में अब तक कुल 20 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इनमें 14 बीजेपी और 6 शिंदे सेना के उम्मीदवार शामिल हैं। शिवसेना (UBT), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS), कांग्रेस सहित अन्य दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जब एनबीटी ने इन उम्मीदवारों से बात करने की कोशिश की, तो लगभग सभी के फोन स्विच ऑफ आए। उधर, चुनाव आयोग ने नामांकन वापस लेने वाले उम्मीदवारों की जांच-पड़ताल करने की बात कही है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, नामांकन के पहले ही दिन बीजेपी के दो उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित कर दिए गए थे, क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को विपक्षी उम्मीदवारों की सामूहिक नामांकन वापसी के चलते बीजेपी और शिंदे सेना के 18 अन्य उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो गई है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक 50 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए।

> विपक्ष ने निर्विरोध जीतने के पीछे दबाव और धनबल की बात कही

दबाव और धनबल के इस्तेमाल का आरोप : विपक्ष ने निर्विरोध जीतने वाले मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। कल्याण ग्रामीण के पूर्व मनसे विधायक प्रमोद (राजू) पाटील ने सत्ता पक्ष पर दबाव, धनबल और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों से नामांकन वापस करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने पैनल प्रणाली की भी आलोचना की।

ठाणे में शिंदे सेना के 7 प्रत्याशियों के सामने कोई नहीं

NBT न्यूज, ठाणे: ठाणे मनपा में भी ठाकरे बंधुओं को झटका लगा है। यहां शिंदे सेना के 7 उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही जीते माने जा रहे हैं। इनमें 6 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। निर्वाचित सभी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के विधानसभा क्षेत्र से हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय जेया ने निर्विरोध निर्वाचन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। वागले इस्टेट वॉर्ड 18 ब से पूर्व विधायक रविन्द्र फाटक की पत्नी जयश्री फाटक निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। उनके सामने मैदान में रही उद्धव सेना की उम्मीदवार स्नेहा नागरे ने शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। जयश्री फाटक इससे पहले भी नगरसेविका थीं। वॉर्ड 18 क से शिंदे शिवसेना की सुखदा संजय मोरे निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। उनके सामने मनसे की प्रार्थी गाडगे के नामांकन अवैध घोषित हुआ था। इसके अलावा कांग्रेस की वैशाली पवार ने शुक्रवार को पर्चा वापस लिया। सुखदा शिंदे शिवसेना के महासचिव, पूर्व महापौर संजय मोरे की पत्नी हैं। वॉर्ड 18 ड से शिंदे सेना के राम रेपाले निर्विरोध चुने गए हैं।

भिवंडी: BJP के छह का निर्विरोध जीतना तय

NBT न्यूज, भिवंडी : भिवंडी-निजामपुर मनपा के चुनावी इतिहास में पहली बार छह नगरसेवक निर्विरोध चुने जाने वाले हैं। ये सभी छह उम्मीदवार बीजेपी के हैं। इन विजेताओं में एक मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में प्रभाग 17 ब से सुमित पाटील, प्रभाग 18 अ से अश्विनी फुटाणकर, प्रभाग 18 ब से दीपा मढवी, प्रभाग 18 क से अब्दुस अहमद शेख (अल्पसंख्यक उम्मीदवार), प्रभाग 16 अ से परेश (राजू) चौघुले एवं प्रभाग 23 ब से भारती चौधरी शामिल हैं। बीजेपी की इस सफलता पर विधायक महेश चौघुले ने कहा कि यह जीत बीजेपी के विकास कार्यों की जीत है।

पनवेल में भी 6 उम्मीदवारों के सामने कोई नहीं: पनवेल में महायुति ने बड़ी बढ़त हासिल करते हुए छह सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है। शुक्रवार को नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन था। इस दौरान महायुति दलों को छोड़ अन्य बड़े दलों के उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके चलते महायुति उम्मीदवारों का जीतना तय है।

Kaushik Naik

शुक्रवार को जूनियर ठाकरे बंधु यानी आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने 17 मुद्दों का संयुक्त मिनी घोषणा पत्र जारी किया।

'हम 700 वर्ग फीट के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेंगे'

आदित्य-अमित ने मिनी घोषणा पत्र किया घोषित

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई :** बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए हैं और गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को जूनियर ठाकरे बंधु यानी आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने 17 मुद्दों का संयुक्त मिनी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मुंबईकरों के लिए कई सुविधाएं शामिल हैं। महायुति सरकार द्वारा दी जा रही लाडली बहन योजना के तोड़ के रूप में मुंबई में हाउसमेड का काम करने वाली महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया है। इसे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम दिया गया है। इस दौरान आदित्य ने कहा कि हम मुंबईकरों का बोझ कम करेंगे। अभी तक हमने 500 वर्ग फुट तक का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया था। अगर हम मुंबई में दोबारा सत्ता में आए, तो हम 700 वर्ग फुट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर देंगे। मुंबई में हम एक लाख नौजवानों को 25 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक का सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट मदद फंड देंगे।

> मुंबईकरों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कही

आदित्य ने कहा कि महायुति सरकार चुनाव के समय भी लाडली बहन योजना की राशि नहीं दे रहे हैं, हम सत्ता में आएंगे तो यह करेंगे। हम मछुआरों की महिलाओं के लिए भी यह करेंगे। मछुआरों की महिलाओं के लिए मां साहेब किचन से 10 रुपये में खाना दिया जाएगा। अमित ठाकरे ने इस दौरान कहा कि हमें सरकार का घमंड तोड़ना है। हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक पालनाघर शुरू करेंगे, इसमें सभी बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। हम इंटरनैशनल स्टैंडर्ड के टॉयलेट बनाएंगे, इसके अलावा हम मुंबई में एक और कैंसर हॉस्पिटल शुरू करना चाहते हैं।

आदित्य-अमित के अन्य ऐलान

- बीएमसी स्कूलों में जूनियर कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
- 10वीं के बाद BMC के जरिए जूनियर कॉलेज शुरू किए जाएंगे
- सभी बोर्ड स्कूल शुरू किए जाएंगे उनमें मराठी भाषा जरूरी होगी।
- जहां भी BMC पार्किंग है, वह फ्री रहेगी।
- 1 फ्लैट की एक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
- चलने वालों के लिए हम सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराएंगे।
- मुंबई में क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू होगा।
- मुंबईकरों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे और पानी की दर स्थिर करने का प्रयास करेंगे।
- हर वॉर्ड में एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है।



जनता की मांग

शाम होते ही स्काइवॉक बन जाता है नशेड़ियों का अड्डा

दहिसर ईस्ट स्काइवॉक महीनों से अंधेरे में डूबा हुआ है, जिससे मोबाइल टॉर्च पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह यह नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए असुरक्षित है। शराब पीना, धूम्रपान और अन्य गलत काम यहां आम हो गए हैं। प्रशासन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा बढ़ाने, लाइट्स ठीक करने, सीसीटीवी लगाने और पुलिस गश्त बढ़ाने की हमारी मांग जायज है। यहां से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह जरूरी मुद्दा है। **- चेतन चौहान**

भेजें वॉर्ड की समस्याएं

आपके वॉर्ड या प्रभाग के क्या मुद्दे हैं? क्या समस्याएं हैं, जिनके समाधान की आप अपने नवनिर्वाचित नगरसेवक से उम्मीद रखते हैं, हमें अपने नाम, वॉर्ड और प्रभाग के साथ लिख भेजें वॉट्स ऐप नंबर **9967397376** पर। हम उन्हें नवभारत टाइम्स (NBT) के माध्यम से 'जनता की मांग' कॉलम के तहत पहुंचाएंगे निवर्तमान चुनाव उम्मीदवार तक।

सुना है कि...

दो की रार, तीसरे की मौज

प्रभाग क्रमांक 225 से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के दो कार्यकर्ता पर्चा दाखिल करने नामांकन केंद्र पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पार्टी के एक आला नेता के दिखते ही एक कार्यकर्ता बिना पर्चा दाखिल किए वापस लौट आया। दूसरा कार्यकर्ता अंतिम क्षण तक पर्चा दाखिल करने के लिए जद्दोजहद करता नजर आया। लेकिन चुनाव अधिकारी ने समय सीमा खत्म होने का हवाला देते हुए पर्चा स्वीकृत करने से मना कर दिया। अब आलम यह है कि दोनों कार्यकर्ता जिस उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे, उसकी बैठकों में शामिल हो रहे हैं।

बदल गए नेताजी के सुर

कांदिवली के प्रभाग 24 में एक सेवा ट्रस्ट चलाने वाले समाजसेवी कारोबारी कभी भगवा और हिंदुत्व का गुणगान करते नहीं थकते थे। यहां तक कि कई अस्थायी कार्यालयों को भगवामय कर चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि शिंदे साब से सीधा संपर्क है, तो टिकट मिल ही जाएगा। लेकिन महायुति से यह प्रभाग जैसे ही बीजेपी के पाले में गया और सीट महिला आरक्षित हो गई, तो समाजसेवी पाला बदलकर उद्धव सेना में चले गए और टिकट मिलते ही हिंदुत्व, भगवा और उत्तर भारतीय का राग छोड़कर आमची मुंबई, मराठी माणुस और मराठी अस्मिता की बात करने लगे। उनका कहना है कि जीत पक्की है, लेकिन धर्मसंकट में हूं। **- धूमकेतु**

आया राम, गया राम

कांग्रेस के कई नेता BJP में

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई:** बीएमसी चुनाव से ऐन पहले मालाड में कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में बीजेपी जॉइन कर ली। कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला महासचिव अरविंद क्वाड्रोस तथा कांग्रेस झुग्गी पुनर्विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुरुगन पिल्लई सहित बड़ी संख्या में जिले के कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की।

आखिरी दिन 269 ने नाम वापस लिए

नवी मुंबई में अब 499 उम्मीदवार बचे मैदान में

■ **NBT न्यूज, नवी मुंबई:** नवी मुंबई मनपा चुनाव की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। आखिरी दिन 269 लोगों ने नाम वापस लिए, जिसके बाद 499 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, जो कि 111 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 956 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग 200 लोगों के फॉर्म किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो गए। लगभग तीन सौ लोगों ने फॉर्म वापस ले लिए। इसके चलते अब चुनावी मैदान में केवल 499 अधिकृत उम्मीदवार ही बचे हैं।

वाशी और बेलापुर में उलटफेर : बेलापुर में शिंदे सेना की अधिकारिक उम्मीदवार प्रिया कोटे का नाम रिजेक्ट होने के बाद शिंदे सेना जिला प्रमुख किशोर पाटकर ने निर्दलीय उम्मीदवार दिपाली सुदीप घोलप को अपना समर्थन दिया। दिपाली घोलप ने शुक्रवार को शिवसेना जॉइन की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। शिंदे सेना उपनेता विजय नहाटा ने कहा कि वह एक उच्च शिक्षित उम्मीदवार हैं और उनके साथ जुड़ने से प्रभाग क्रमांक 28 में शिंदे सेना को फायदा होगा। प्रभाग 18 अ से शिंदे सेना की उम्मीदवार अपर्णा पाटिल ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद नाराज होकर निर्दलीय उतरी राखी पाटिल ने शिवसेना जॉइन की और शिंदे सेना ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया।

भिवंडी: 437 उम्मीदवार

नामांकन पत्रों की वापसी के बाद भिवंडी मनपा चुनाव में 437 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बता दें कि मनपा चुनाव लड़ने के लिए कुल 1033 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 74 नामांकन पत्र अवैध पाया गया था। इसके बाद 959 उम्मीदवार बचे थे। जिसमें 229 उम्मीदवारों ने दो बार नामांकन पत्र दाखिल किया था और 287 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसके बाद 443 उम्मीदवार बचे। छह का निर्विरोध चुना जाना तय है।

ठाणे: 649 उम्मीदवार

ठाणे मनपा में 131 प्रभागों के लिए कुल 1107 लोगों ने नामांकन भरा था। इसमें से 99 लोगों का नामांकन अवैध पाया गया। उसके बाद 1008 लोग बचे थे। 2 जनवरी को नामांकन वापस लेने के बाद अब 649 लोग चुनाव मैदान में रह गए हैं। मनपा क्षेत्र में 16 लाख 49 हजार 867 कुल मतदाता हैं। सात उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।

बागियों को मनाने के जतन आ रहे हैं काम

आखिरी दिन कई निर्दलीयों ने नामांकन वापस लिए

AI Image

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई:** बीएमसी चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था। इस दौरान यूबीटी, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने अपने-अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने में काफी हद तक सफलता हासिल की। कई बागियों ने निर्दलीय के तौर पर दाखिल किए गए अपने नामांकन वापस ले लिए, जिससे अधिकारिक उम्मीदवारों की राह आसान हो गई है। अब 227 प्रभागों में से कई जगहों पर मुकाबला सीमित होकर दो प्रमुख दलों के बीच सिमटता दिख रहा है।

कोलाबा के प्रभाग नंबर 225 से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की भाभी हर्षिता नार्वेकर बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बीजेपी मुंबई उपाध्यक्ष कमलाकर दलवी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के समझाने पर उन्होंने नामांकन वापस ले लिया।

एनसीपी को लगा झटका : हालांकि, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को झटका लगा है। प्रभाग 211 से उम्मीदवार सूफियान अंसारी ने बिना वरिष्ठ नेताओं को सूचना दिए अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे पार्टी में नाराजगी है।

यहां भी यही हाल

प्रभाग नंबर 1 में पूर्व बीजेपी नगरसेविका सुनीता राम नगीना यादव ने बगावत की थी, लेकिन दहिसर विधायक मनीषा चौधरी और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के प्रयासों से उन्होंने भी नाम वापस ले लिया। जिसके बाद अब लड़ाई शिंदे सेना की रेखा यादव और कांग्रेस की शीतल म्हात्रे के बीच होगी। मुलुंड के प्रभाग 106 में यूबीटी ने बागी सागर देवरे को मनाने में सफल रही, जिससे अब यूबीटी-मनसे गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है। इसी तरह प्रतीक्षा नगर (प्रभाग 173), कुर्ला (प्रभाग 159 और 157), बोरीवली, धारावी और अन्य इलाकों में भी बीजेपी ने बागियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कई पूर्व पार्षदों और पदाधिकारियों ने पार्टी के पक्ष में अपना नामांकन वापस लिया।

नार्वेकर पर धमकी देने के आरोप

■ पेज 1 से आगे

NBT रिपोर्ट, मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विवादों में फंस गए हैं। उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने नार्वेकर की धमकी वाला एक विडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें नार्वेकर पर सुरक्षा हटाने की धमकी का आरोप लगाया गया है। वे मुंबई पुलिस को फोन कर पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ की सुरक्षा तुरंत हटाने के निर्देश देते दिखाई देते हैं। वह राठौड़ से कहते हैं कि अगर सहयोग नहीं करोगे, तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। सामने से यह भी कहा जाता है कि साहब हम आंदोलनकर्ता हैं। दूसरी ओर नार्वेकर की धमकी के बाद हरिभाऊ राठौड़ ने कहा कि नार्वेकर ने मुझसे कहा कि वह मेरे सारे विशेषाधिकार छीन लेंगे। मैंने उनसे कहा कि साहब, आप मुझे फांसी पर भी चढ़ा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि सब जानते हुए भी मेरे साथ पंगा क्यों ले रहे हो? यह सब मैंने रिकॉर्ड किया है। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा अध्यक्ष पर भड़क गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएमसी और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। नार्वेकर ने चुनाव अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया। नार्वेकर और उनका परिवार ए वॉर्ड (कोलाबा) को अपनी जागीर समझता है। उनके परिवार के 3 सदस्य कोलाबा के 3 प्रभाग से चुनावी मैदान में हैं।

5-5 करोड़ में प्रत्याशियों को खरीदा गया: जाधव

■ **NBT न्यूज, ठाणे:** मनसे के ठाणे पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव ने उम्मीदवारों को पैसे देकर नामांकन वापस लिए जाने के आरोप लगाए हैं। मनसे कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ ठाणे कोर्ट नाका स्थित बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने काला फीता बांध कर निषेध जताया। मीडिया से बात करते हुए जाधव ने आरोप लगाया कि शिंदे सेना और BJP ने उम्मीदवारों को पीछे हटने के लिए 5-5 करोड़ रुपये दिए और इस सब में 100 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई है। जाधव ने बताया कि कोपरी के मनसे उम्मीदवार को 5 करोड़ का ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नामांकन वापस लिया, उनके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए, तो सारा मामला बाहर आ जाएगा।

अपना अति आत्मविश्वास छोड़िए, BJP उम्मीदवारों को मिली दो-टूक नसीहत

Navin.Pandey@Timesofindia.Com

■ **मुंबई:** बीएमसी चुनाव में नामांकन के बाद अब प्रचार की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली बढ़त के भरोसे चुनाव लड़ना भारी पड़ सकता है। क्षेत्र की समस्याओं पर फोकस करें। मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र के एक प्रभाग में हुई बैठक के दौरान पार्टी के एक नेता ने उम्मीदवारों को अतिआत्मविश्वास से बाहर निकलने की दो टूक नसीहत दी।

बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर कमर कस ली है। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। कई प्रभारियों को अन्य राज्यों से बुलाया गया है, जो लगातार बैठकों के जरिए जमीनी हालात की समीक्षा कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। बैठक में यह भी साफ किया गया कि मुकाबला पूरी तरह खुला है और हर वोटर तक दोबारा पहुंचना है। पिछले चुनावों के नतीजों, मौजूदा राजनीतिक समीकरणों और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रचार करें।

'ध्यान दें, इस चुनाव की जमीन अलग है'

बैठक में एक उम्मीदवार ने यह कहते हुए आत्मविश्वास जताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को उस प्रभाग से बड़ी लीड मिली थी और वे खुद भी पिछले नगरसेवक चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी हैं। उम्मीदवार का यह दावा सुनते ही बैठक में मौजूद पार्टी के नेता ने हस्तक्षेप किया और साफ कहा कि मनपा चुनाव की जमीन लोकसभा-विधानसभा से अलग होती है।

प्रभाग 87 किसमें कितना है दम

उद्धव के गढ़ में कमल खिलाने मैदान में हैं दो बार के नगरसेवक पारकर

Priya.Pandey@Timesofindia.com

■ **मुंबई:** उद्धव सेना और महायुति के बीच बीएमसी चुनाव में जोरदार मुकाबला नजर आ रहा है। सांताक्रुज (ईस्ट) के प्रभाग 87 से उद्धव सेना से पूर्व महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर की पत्नी पूजा महाडेश्वर मैदान में हैं। जिनका मुकाबला दो बार नगरसेवक रहे कृष्णा (महेश) पारकर से है। पिछले चुनाव में कृष्णा महज 34 वोटों से चुनाव हारे थे। इसके अलावा कांग्रेस से प्रमोद नार्वेकर, अजित पवार की NCP से संदीप उद्धरकर भी मैदान में हैं।

> पूर्व महापौर की पत्नी पूजा महाडेश्वर से BJP उम्मीदवार का मुकाबला

यह प्रभाग 2002 से ही लगातार महाडेश्वर परिवार के पास है। इसके पहले भी कई चुनाव तत्कालीन शिवसेना जीत चुकी है। 2002, 2007 में विश्वनाथ महाडेश्वर यहां से चुनाव जीते थे। 2012 में पूजा महाडेश्वर ने यहां जीत हासिल की थी। 2017 में सीमांकन के बाद रोचक मुकाबले में विश्वनाथ महाडेश्वर चुनाव जीते और महापौर भी बने। कुछ साल पहले हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं, महेश पारकर 2017 के पहले तक पास के वॉर्ड में थे, जिसका हिस्सा पिछले चुनाव में एक हो गया। पारकर भी दो बार नगरसेवक रहे हैं और बीएमसी में कई जिम्मेदारी निभा चुके हैं।

पूर्व महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर की पत्नी पूजा महाडेश्वर उद्धव सेना से मैदान में हैं।

दो बार के नगरसेवक कृष्णा (महेश) पारकर से है पूजा महाडेश्वर का मुकाबला।

प्रभाग 92 से भरे गए सबसे ज्यादा पर्चे

एच पूर्व में आने वाले छह प्रभागों में से सबसे ज्यादा फॉर्म भारत नगर वाले प्रभाग 92 से भरे गए हैं। इस प्रभाग में कुल 19 लोगों ने नामांकन किया है। वहीं दूसरे स्थान पर प्रभाग 93 है, जहां से 13 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। वहीं, बेहरामपाड़ा के प्रभाग 96 से 11 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है। यहां सभी उम्मीदवार मुस्लिम हैं। चौथे स्थान पर प्रभाग 87 है, जहां से 10 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है।

मराठी-मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा

इस प्रभाग करीब 15,000 मराठी मतदाता हैं, जबकि 11,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। उत्तर भारतीय और गुजराती-मारवाड़ी की संख्या यहां 15,000 हैं। मैदान में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। वाकोला सिग्नल पर लगने वाली ट्रैफिक से लेकर खार सबवे की बदहाली, लंबे समय से अटकी एसआरए की परियोजनाएं यहां चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं।

भिवंडी: वाहन में मिले 4.40 लाख रुपये नकद

■ **NBT न्यूज, भिवंडी :** भिवंडी मनपा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के तहत फ्लाइंग स्क्वाड ने शहर में वाहन चेकिंग शुरू कर दी गई है। जिसके तहत स्क्वाड ने 1 जनवरी की शाम साईबाबा चेक पोस्ट इलाके में एक वाहन से **4.40** लाख रुपये की नकदी जब्त की है। आचार संहिता दल के प्रमुख एवं अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके और सहायक दल प्रमुख समीर जवरे के नियंत्रण में फ्लाइंग स्क्वाड नंबर 1 के अधिकारी दीपक नाइक और उनके सहयोगियों ने यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले नदी नाका स्थित फ्लाइंग स्क्वाड ने एक वाहन से **8.28** लाख रुपये की नकदी जब्त की थी।

> आदर्श आचार संहिता के तहत फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMMAH User: cci Time: 01-02-2026 23:04 Color:

बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्टः पालघर में पहली माउंटेन टनल का काम हुआ पूरा

18 महीने में पूरा किया गया काम

एमटी-5 सुरंग की खुदाई दोनों सिरों से अत्याधुनिक ड्रिल और ब्लास्ट तरीके से 18 महीने में पूरी की गई। इस दौरान वेंटिलेशन, अग्नि सुरक्षा उपाय और उचित प्रवेश और निकास व्यवस्था सहित सभी सावधानियों का पालन किया गया है।

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: शुक्रवार को पालघर में भारत की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना (बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। यहां एक माउंटेन टनल (सुरंग) की खुदाई पूरी कर ली गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह माउंटेन टनल-5 (MT-5) प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही सात पहाड़ी सुरंगों में से पहली और सबसे लंबी है। इसकी कुल लंबाई 1.48 किलोमीटर है। सुरंग की खुदाई का हिस्सा 1.39 किलोमीटर लंबा है।

प्रोजेक्ट में 8 टनल शामिल

बता दें कि इससे पहले ठाणे और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबी पहली अंडरग्राउंड सुरंग का निर्माण सितंबर 2025 में पूरा हुआ था। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना कुल 508 किलोमीटर लंबी है, जिसमें सुरंगों की कुल लंबाई 27.4 किलोमीटर है। इनमें से 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंगें और 6.4 किलोमीटर सतही (जमीन पर) सुरंगें हैं। परियोजना में शामिल आठ पर्वतीय सुरंगों में से कुल 6.05 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली सात सुरंगें महाराष्ट्र में हैं। बुलेट परियोजना में 350 मीटर लंबी एक सुरंग गुजरात में स्थित है।

बुलेट ट्रेन परियोजना से रोजगार का निर्माण हो रहा है। परियोजना पूरी होने पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद सड़क परिवहन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 95 प्रतिशत की कमी आएगी। - अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री



फटाफट खबरें

आचार संहिता उल्लंघन के 7651 मामले

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: बीएमसी चुनाव के बीच महानगर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 7651 मामले सामने आए हैं। ये मामले 15 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के बीच के हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति को कुरूप करने के 1390 और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 442 मामले शामिल हैं। हालांकि आचार संहिता उल्लंघन को लेकर किसी भी मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है।

ST बसों में UPI से टिकट लोकप्रिय

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: राज्य परिवहन महामंडल की बस सेवाओं में यूपीआई से टिकट खरीदने को यात्रियों की पसंद बढ़ रही है। फोनपे और गूगल पे जैसे माध्यमों से रोज लाखों लेनदेन हो रहे हैं। सितंबर 2025 में 49.79 लाख टिकट बिके। दिसंबर 2025 में 62.59 लाख लेनदेन से 83.67 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया गया। यह डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकार्यता दिखाता है।

रेलवे स्टेशनों पर शुरू किया जाएगा हेल्प डेस्क

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क शुरू करेगी। जीआरपी कमिश्नर राकेश कलासागर ने इसके निर्देश दिए हैं। हेल्प डेस्क से यात्रियों को आपात स्थिति में मदद मिलेगी। यहां हर समय एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी।

जिसे बंद करना है, उसी सड़क का BMC कर रही कॉन्क्रीटीकरण

कुछ महीनों में बंद कर दी जाएगी बांद्रा की यह सड़क

Suraj.Pandey@timesofindia.com

■ मुंबई: बीएमसी के रोड विभाग ने कुछ ही समय बाद बंद होने वाले रोड के कॉन्क्रीटीकरण का काम शुरू किया है। दरअसल, बांद्रा के निर्मल नगर की म्हाडा कॉलोनी के रीडिवेलपमेंट का काम प्राइवेट बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से हाइवे तक को जोड़ने वाली सड़क रीडिवेलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने प्लान के मुताबिक, अगले कुछ महीनों में बंद कर दी जाएगी। उसके बजाय दूसरी जगह पर नया रोड बनाकर सीधे बांद्रा टर्मिनस वाले रोड से जोड़ा जाएगा। इसके बावजूद, बीएमसी के रोड विभाग ने उस रोड का काम शुरू किया है, जिसे सीधे तौर पर पैसे का दुरुपयोग बताया जा रहा है। रोड विभाग के एक इंजिनियर ने मामला संज्ञान में आने के बाद कहा कि हमने उस हिस्से पर काम नहीं करने का फैसला किया है, हमारी टीम जाकर मुआयना करेगी। हालांकि, जमीनी स्तर पर काम जारी था।

> दूसरी जगह पर नई सड़क बनाकर सीधे बांद्रा टर्मिनस वाली सड़क से जोड़े जाने की है तैयारी

ट्रैफिक जाम से लोगों को हो रही परेशानी

रोड के काम के चलते इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है। सकरे रास्तों पर फेरीवालों के चलते मुसीबत और बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कुछ दिनों पहले यहां के रोड पर ऑड-ईवन पार्किंग का आदेश जारी किया था, जो कि केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है। इस संदर्भ में ट्रैफिक पुलिस के सीनियर पीआई मनोज शिंदे से संपर्क नहीं हो सका।

निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से हाइवे की ओर जाने वाला रास्ता, जो रीडिवेलपमेंट के तहत बंद होने वाला है, उसका काम करते ठेकेदार के लोग।

पाइप लाइन और जेपी रोड के जंक्शन का हिस्सा लंबे समय से अधूरा पड़ा है।

छह महीने से अधूरा काम

पास ही में पाइप लाइन रोड के और जे पी रोड के जंक्शन पर कॉन्क्रीटीकरण का काम ठेकेदार ने छह महीने से अधूरा छोड़ दिया है, जिससे वहां भारी ट्रैफिक जाम लगता है। यह रोड बांद्रा टर्मिनस जाने वाले रोड का हिस्सा है। जिससे यहां दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ठेकेदार की टीम ने बताया कि उस जगह नीचे पाइपों का काफी जाल है, जिसे पाइप लाइन वाले रोड के काम के साथ पूरा किया जाएगा।

NCB मुंबई ने बीते साल 5560 किलो ड्रग्स ज़ब्त की, 51 आरोपी अरेस्ट



AI image

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट ने बीते साल ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 5560 किलो मादक पदार्थ एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ जब्त किए, जिनमें कोकीन, चरस, गांजा, मेफेड्रोन, बड़ी मात्रा में कोडीन आधारित कफ सीरप, फार्मा ड्रग्स, एलएसडी ब्लॉट्स और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ शामिल हैं। इन कार्रवाइयों में 51 लोगों को अरेस्ट किया गया। साथ ही करीब 18 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई।

एनसीबी मुंबई ने बीते वर्ष में 24 मामले दर्ज करते हुए सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिसीवर, हवाला ऑपरेटर, किंगपिन और नेटवर्क से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार किया। लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी और गहन जांच के आधार पर कई अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय और राज्य स्तर के ड्रग नेटवर्क ध्वस्त किए गए। डोंगरी क्षेत्र से संचालित मेफेड्रोन नेटवर्क पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में रायगढ़ के MIDC क्षेत्र से 47.687 किलो केटामाइन बरामद की गई। साथ ही अमेरिका से जुड़े कोकीन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए उसके सरगना को मलेशिया से निर्वासित कराया गया। पुणे में क्लोरल हाइड्रेट के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसे बाद में राज्य आबकारी विभाग को सौंपा गया।

फार्मा ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़

सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीबी मुंबई केटामाइन निर्माण में उपयोग होने वाले केमिकल इंटरमीडिएट्स की अवैध सप्लाई रोकने में सफलता रही। इस दौरान 46.8 किलो केमिकल इंटरमीडिएट्स जब्त किए गए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा फार्मा ड्रग्स के अवैध नेटवर्क से जुड़े कई आरोपियों को मुंबई और वाराणसी से पकड़ा गया। एक अन्य कार्रवाई में विदेशी मूल के व्यक्ति द्वारा संचालित फार्मा ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया। अंधेरी व कल्याण क्षेत्र से नाइट्राजेपाम टैबलेट्स एवं CBCS बोतलें बरामद की गईं। आपूर्ति श्रृंखला पर प्रहार के साथ-साथ एनसीबी मुंबई ने स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान तेज किए।



जस्टिस ढेरे मेघालय HC में सीजे नियुक्त हुईं

जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे

जस्टिस एमएस सोनक

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की जज रेवती मोहिते ढेरे की मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति को मंजूर दे दी है। जस्टिस ढेरे मुख्य रूप से बदलापुर में स्कूली बच्चियों के यौन उत्पीड़न केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले की सुनवाई को लेकर चर्चा में आई थीं। उन्होंने सड़कों के गड्ढों में जान गंवाने वाले और घायल होने वालों के लिए मुआवजे का प्रावधान भी किया था। वहीं, केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के जज एमएस सोनक की झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोनों जजों को चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

कांदिवली शताब्दी में जल्द शुरू होंगे दो ऑर्थो OT

■ NBT रिपोर्ट मुंबई: बीएमसी के कांदिवली शताब्दी अस्पताल में जल्द ही ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी के लिए दो ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध होंगे। अस्पताल की ऑर्थो ओटी फिलहाल मरम्मत के कारण बंद की गई है। जानकारी के अनुसार ओटी का मुख्य कार्य पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ तकनीकी कनेक्शन अधूरे रहने के कारण बार-बार समस्या आ रही है।

अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. अनय गुप्ता ने बताया कि तकनीकी कनेक्शनों को पूरा करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा। इसी अवधि में ऑर्थो सर्जरी के मरीजों को एमडब्ल्यू अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मरीजों को यहां एडमिट कर आवश्यक प्रक्रिया के बाद सर्जरी के लिए एमडब्ल्यू अस्पताल ले जाया जा रहा है और सर्जरी कर फिर वापस लाया जा रहा है। मरम्मत और कनेक्शन का काम पूरा होने के बाद ऑर्थो विभाग के लिए दो अलग-अलग ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध होंगे। पहले ऑर्थो के लिए केवल एक ही ओटी थी, लेकिन अब दो स्वतंत्र ओटी शुरू होने से भविष्य में मरीजों को बेहतर और तेज उपचार मिल सकेगा।

HC ने मुआवजे के मामले में हेलमेट के तर्क को किया खारिज

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पांच साल पहले सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक शख्स की मां को दिए गए 1.3 करोड़ रुपये के मुआवजे को चुनौती दी गई थी। शख्स की मौत कार द्वारा उसकी स्कूटी को टक्कर मारने से हुई थी। कार का बीमा था। मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने शख्स की मां को मुआवजा देने का फैसला सुनाया था, जिसे बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। गोवा बेंच में रहते जस्टिस एमएस सोनक ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस सोनक ने इस मामले में बीमा कंपनी के उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दुर्घटना के समय शख्स ने हेलमेट नहीं पहना था। जस्टिस सोनक ने कहा कि हेलमेट और दुर्घटना का कोई संबंध नहीं है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि कार गलत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही थी। कार चालक ने ओवरटेक करने की कोशिश की थी। ऐसे में हेलमेट पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामले से जुड़ा हादसा 17 जनवरी, 2021 को हुआ था।

> बीमा कंपनी की अपील खारिज

स्वच्छ हवा के साथ नए साल की शुरुआत, पवई में 40 रहा AQI

दो दिन और रहेगी हवा साफ, महानगर में फिर बढ़ सकता है AQI

Suraj.Pandey@timesofindia.com

■ मुंबई: नए साल के पहले ही दिन मुंबई में हुई बेमौसम बारिश और अरब सागर से आई हवाओं ने प्रदूषण को धो डाला है। शुक्रवार को भी मुंबई का औसत एक्यूआई 79 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो गुरुवार 90 एक्यूआई की तुलना से अच्छा है। विशेषज्ञ के अनुसार, आगामी दो दिनों तक हवा साफ रहने की संभावना है। लेकिन उसके बाद फिर वायु की गुणवत्ता बिगड़ सकती है।

वायु प्रदूषण पर मॉनिटरिंग करनेवाली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एप समीर की रीडिंग के अनुसार, मंगलवार को सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता पवई की 40 एक्यूआई दर्ज की गई, जिसे अच्छा माना जाता है। वहीं घाटकोपर, चेंबूर में 62 एक्यूआई, देवनार में 92 एक्यूआई, मझगांव में 78 एक्यूआई दर्ज की गई। बीकेसी एकमात्र ऐसा इलाका है, जहां एक्यूआई 109 दर्ज किया गया, जिसे असंतोषजनक माना जाता है। एनवायरोकैटलिस्ट्स के संस्थापक एवं प्रमुख विश्लेषक सुनील दहिया ने बताया कि 1 जनवरी को हुई बारिश के चलते मुंबई की वायु गुणवत्ता में उतना सुधार नहीं हुआ है, जितना अरब सागर से मुंबई की ओर आनेवाली हवाओं के चलते हुआ। इन हवाओं का प्रदूषण साफ करने में बड़ा योगदान है। तेज हवाएं मुंबई में प्रदूषण को टिकने नहीं दे रही हैं। आगामी दो दिन तक मुंबई की वायु गुणवत्ता ठीक रहेगी, लेकिन उसके बाद हवा की गुणवत्ता बिगड़ सकती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत ऐतिहासिक पहल

MPCB ने 850 उद्योगों को 'वाइट कैटेगरी' में किया शामिल

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (MPCB) ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 850 औद्योगिक इकाइयों को 'वाइट कैटेगरी' में शामिल किया है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जबकि MPCB देश का पहला प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, जिसने इतने उद्योगों को वाइट कैटेगरी में सम्मिलित किया है। वाइट कैटेगरी में उन उद्योगों को वर्गीकृत किया जाता है, जो बेहद कम प्रदूषण या फिर जीरो प्रदूषण निर्मित करते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल (CPCB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उद्योगों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट और ब्लू कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है। फरवरी 2025 में CPCB ने केवल 54 उद्योग वाइट कैटेगरी में शामिल किए थे। इसके बाद MPCB ने पहले 222 और अब 850 उद्योग इस श्रेणी में शामिल किए हैं। इन उद्योगों को अनुमति के लिए केवल एक पेज का ऑनलाइन आवेदन पर्याप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उद्योगों से किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ये उद्योग शामिल

वाइट कैटेगरी में शामिल उद्योगों में हैंडमेड ज्वेलरी निर्माण, पर्यावरण अनुकूल अगरबत्ती व सोलर इंडस्ट्री, कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, टीवी-वीसीआर व टेप रिकॉर्डर असेंबली, बुक बाइंडिंग, सीमेंट पाइप निर्माण, बिना रासायनिक प्रक्रिया वाला लेदर व फुटवियर, पापड़ उद्योग, फ्लोर मिल, मसाला ब्लेंडिंग, सूखे मसालों की प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। मंडल के अध्यक्ष सिद्धेश कदम ने कहा कि इस निर्णय से शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

अनुमति लेना हुआ आसान

मंडल के सदस्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यावरणीय अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल और तेज किया गया है, जिससे उद्योगों को लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि पहले इन इंडस्ट्रीज को अनुमति के लिए काफी पेपर वर्क करना पड़ता था, प्रोसेस लंबी और जटिल होती थी।

5 दिन बाद भी नहीं सुलझा शिशु की मौत का मामला

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: चेंबूर इलाके में चार दिन पहले लाल कपड़े में लिपटा मिला लगभग सात महीने के शिशु का शव अब तक पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। आरसीएफ पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है।

जांच अधिकारी के अनुसार, जिस स्थान से शिशु का शव मिला था, उसके आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए। इसमें एक महिला बैग लेकर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके गर्भवती होने या हाल में प्रसूति से गुजरने का कोई इतिहास नहीं मिला। इसके अलावा आसपास के सभी अस्पतालों से भी सात महीने की अवधि में हुई डिलिवरी का रिकॉर्ड मंगाया गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सात माह के इस शिशु को किन परिस्थितियों में झाड़ियों में फेंका गया।

> चेंबूर में झाड़ियों के बीच लाल कपड़े में मिला था शव

राजावाडी अस्पताल भेजा गया था

29 दिसंबर को आरसीएफ के मैसूर कॉलोनी क्षेत्र में लावारिस हालत में यह शिशु मिला था। मैसूर कॉलोनी स्थित साई आंगन सोसायटी की सड़क के पास झाड़ियों के पास लाल कपड़े में लिपटा शिशु अचेत अवस्था में पड़ा था। पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शिशु को तत्काल राजावाडी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि शिशु लड़का था और उसकी उम्र लगभग सात महीने बताई गई। आरसीएफ पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 94 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।

दाते आज संभालेंगे DGP का पदभार

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक (DGP) का पदभार संभालेंगे। वे पिछले 21 महीनों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने एक अहम प्रशासनिक फैसले में एनआईए प्रमुख सदानंद दाते को तत्काल उनके मूल कैडर महाराष्ट्र वापस भेजने की मंजूरी दी थी। इसके बाद शनिवार को दाते राज्य पुलिस के मुखिया का पद संभालने जा रहे हैं। इससे पहले आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पिछले दो वर्षों से महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं।

विदेश यात्रा निजी स्वतंत्रता का अहम पहलू : हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्म्स रेसलर काइल कमिंग को दी विदेश यात्रा की अनुमति | कई मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले कमिंग नारकोटिक्स मामले में आरोपी

Krishna.Shukla@timesofindia.com

■ मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि विदेश यात्रा का हक जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू है। मनमानी और अनुचित पाबंदी से यह अधिकार सीमित नहीं हो सकता। मुकदमे का सामना करने से भी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार से वंचित किया जा सकता। यह टिप्पणी कोर्ट ने एक कुश्ती चैंपियन (आर्म्स रेसलर) काइल कमिंग को पासपोर्ट लौटाने का निर्देश देते हुए की है।

नारकोटिक्स मामले में आरोपी कमिंग को विशेष अदालत ने पासपोर्ट लौटाने से इनकार कर दिया था। कुश्ती के कई मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले नारकोटिक्स मामले में आरोपी कमिंग (याचिकाकर्ता) को बेल की शर्तों के तहत साल 2024 में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता को कारोबार के सिलसिले में 15 दिनों के लिए थाईलैंड जाना था। विशेष अदालत ने याचिकाकर्ता के फरार होने की आशंका के मद्देनजर याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा के आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आदेश को 18 नवंबर 2025 को याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस एनजे जमादार के सामने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने कहा, निचली अदालत ने बेहद तकनीकी कारणों को आधार बनाकर आवेदन खारिज किया है। याचिकाकर्ता प्रतिष्ठित आर्म्स रेसलर है। एक जूता कंपनी ब्रांड एंबेसडर के तौर पर याचिकाकर्ता की सेवा लेना चाहती है। याचिकाकर्ता के पास कोई कथित मादक पदार्थ नहीं मिला है, इसलिए उन्हें यात्रा के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए।

सरकारी वकील ने किया था याचिका विरोध : वहीं, सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा, विशेष अदालत का आदेश न्याय संगत है। याचिकाकर्ता गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। लिहाजा इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इन दलीलों पर जस्टिस जमादार ने कहा, विदेश यात्रा जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है। मुकदमे का पेंडिंग होना विदेश यात्रा से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्होंने याचिकाकर्ता को 16 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के बीच सशर्त विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। साथ ही विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर उसे याचिकाकर्ता को पासपोर्ट देने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने क्यों दी विदेश यात्रा की अनुमति :

NBT Lens खबरों के अंदर की बात

अदालत ने माना कि केस के मौजूदा पड़ाव पर आरोपों की वैधता की गहराई से जांच अपेक्षित नहीं है। आरोपी के पास मादक पदार्थ बरामदगी नहीं हुई है। यात्रा की अनुमति के आवेदन में कथित अनियमितता थी, लेकिन यह विदेश यात्रा से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं जिसे अदालत नियंत्रित न कर सके। वैसे भी याचिकाकर्ता की समाज में जड़े हैं, जो उन्हें यहां वापस लाएगी।

BKC में 2.95 करोड़ की ठगी का मामला, FIR दर्ज

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) पुलिस ने एक हीरा कंपनी से 2.95 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में सेल्स एग्जेक्यूटिव और ब्रोकर पर केस किया है। कंपनी का ऑफिस भारत डायमंड बोर्स, बीकेसी में है। आरोपी धवल पटेल (सेल्स एग्जेक्यूटिव) और कौशिक सुतारिया (ब्रोकर) फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, कंपनी निर्धारित समय के लिए कैश सौदे के आधार पर ब्रोकर्स और डीलर्स को हीरे देती है। तय अवधि में भुगतान होने पर आधिकारिक बिल जारी किए जाते हैं। धवल पटेल अगस्त 2024 से कंपनी में कार्यरत था और भरोसेमंद कर्मचारी माना जाता था। सितंबर से दिसंबर के बीच पटेल ने सुतारिया के जरिए 2 फर्मों को 6 ट्रांजैक्शन में हीरे दिए थे। जब भुगतान की समय-सीमा नजदीक आई, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पटेल से संपर्क किया। उसने भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन 15 दिसंबर से मेडिकल लीव पर चला गया और फिर गायब हो गया। बाद में पता चला कि वह दुबई चला गया है। जांच में खुलासा हुआ कि पटेल ने जाली दस्तावेज बनाकर दूसरी फर्म को हीरे बेच दिए। शिकायत पर BKC पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

> आरोपी सेल्स एग्जेक्यूटिव और ब्रोकर फरार

पाटील ने संभाला WR के SDGM का कार्यभार

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: भारतीय रेल यातायात सेवा (IRTS) के 1995 बैच के अधिकारी नरेंद्र पाटील ने 1 जनवरी को पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (SDGM) का कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले वे पश्चिम रेलवे में मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक थे। वे मुख्य माल परिवहन प्रबंधक भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में पश्चिम रेलवे ने पहली बार 100 मिलियन टन माल लदान का आंकड़ा पार किया। पाटील दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में मंडल रेल प्रबंधक रह चुके हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, मध्य, दक्षिण मध्य और पश्चिम रेलवे तथा रेलवे बोर्ड में परिचालन, वाणिज्य, संरक्षा, योजना और जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया है।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMSHIK User: cci Time: 01-02-2026 22:53 Color:

सफलता के मार्गदर्शक

TIMES interact

READER ENGAGEMENT INITIATIVE



















बात जीवन में जब सफलता की होती है, तो इसके कई सूत्रधारक होते हैं, जो कहीं न कहीं से हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, ताकि हम बेहतर कर सकें। जब आप उम्मीद से बेहतर करते हैं और समाज को अपनी कार्यशैली से प्रभावित करते हैं, तो सम्मान के हकदार होते हैं

लीक से हटकर चलते हैं स्टार्स

Abhishek.Singh2@timesofindia.com

सफलता के सपने देखना और सफलता हासिल करना दोनों अलग-अलग बातें हैं। आज का यूथ सफलता हासिल करने पर ज्यादा फोकस करता है और सही रणनीति के साथ खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उसे सीमाओं से आगे जाकर लकीर खींचना पसंद है और इसके लिए वह परिश्रम भी करता है।

आज के दौर में आंत्रप्रेन्योरशिप की ओर यूथ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यही कारण है कि प्रोफेशनल कोर्स के साथ ही उनके हौसले की उड़ान उनके भीतर ऊर्जा का संचार करती है और वे अपनी मंजिल हासिल कर पाते हैं। यह वह दौर होता है जब उनकी आंखों में बड़े सपने होते हैं और उन्हें अपने लिए रास्ते खुद तलाशने होते हैं। एक प्रोफेशनल दीपक अहूजा कहते हैं कि आंत्रप्रेन्योरशिप का फैसला सहज नहीं होता है। यह ऐसा पड़ाव होता है, जब आपको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करना होता है। जैसे-जैसे आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते जाते हैं, लोग आपसे जुड़ते जाते हैं और जब आप सम्मानित होते हैं तो महसूस होता है कि आपने अपने काम से माइलस्टोन स्थापित किया है।

बेहतर शुरुआत से बनती है बात

यह सच है कि सफर में आप हमेशा अकेले होते हैं। खास तौर पर जब आप लीक से हटकर कुछ करने को सोचते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका खुद निभानी होती है। जैसे-जैसे आपका काम और टीम बढ़ती है, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों ही बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा होता है, जब आप अपनी कार्यशैली से दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरों से प्रभावित होते भी हैं। यानि कि कभी आप किसी के लिए रोलमॉडल की भूमिका में होते हैं तो कभी कोई और आपके लिए इस भूमिका का निर्वहन करता है। कई लोग इस बात को मानते हैं कि जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस होती है, जो सिर्फ जवाब न दे, बल्कि सोचने की दिशा दे। यहां मार्गदर्शक की भूमिका अहम हो जाती है।

PIC: ISTOCK

क्षमताओं को देना होता है विस्तार

मार्गदर्शक कोई जादू की छड़ी नहीं होता, जो एक पल में सब बदल दे। वह जीवन का रास्ता तय नहीं करता, बल्कि रास्ता देखने की नजर देता है। एक अच्छा मार्गदर्शक वही होता है, जो युवा की क्षमताओं को पहचानता है, उसकी कमजोरियों को दूर करने में उनकी मदद करे और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। एक प्रोफेशनल सुधीर गर्ग कहते हैं कि मुझे अपने काम से बेहद प्यार है, लेकिन मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूं। मैं देश दुनिया के ऐसे थिंकर्स से प्रभावित रहता हूं, जिनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं। कई बार जब आप मुश्किल में घिर जाते हैं तो वे आपके लिए मददगार बनते हैं। इसी तरह से एक प्रोफेशनल मोनिका बंसल कहती हैं कि मैं अपनी क्षमताओं को विस्तार देने पर ज्यादा फोकस करती हूं। हर दिन पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश में सफलता का मंत्र छिपा है। आपका कॉम्पिटिशन आपसे ही होता है और ये बातें मुझे निखरने और लीक से हटकर कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद जब काम को सम्मान मिलता है तो यह सही मायने में दिलचस्प होता है।













अब एक क्लिक पर मिलेगा पुलिस अफसरों का शेड्यूल

महाराष्ट्र पुलिस के पोर्टल पर ACP-DySP को देनी होगी पुलिस स्टेशनों के दौरे की डिटेल्स

GOOD न्यूज

Manish.Jha@timesofindia.com

■ मुंबई: पुलिस-पब्लिक को-ऑर्डिनेशन की दिशा में महाराष्ट्र पुलिस ने नई पहल की है। इसके तहत जल्द ही महाराष्ट्र पुलिस का पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। इस पोर्टल पर ACP-DySP को पुलिस स्टेशनों के दौरे की डिटेल्स देनी होगी। ऐसे में, लोगों को एक क्लिक पर पोर्टल से पुलिस के आला अफसरों की डिटेल्स पल भर में मिल जाएगी, जिसके बाद वह संबंधित पुलिस स्टेशनों में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे।

- वरिष्ठ अधिकारियों के पुलिस स्टेशनों में हर हफ्ते जाने और आईओ से मिलना जरूरी
- लंबित अपराधों की जांच, एफआईआर और शिकायती मामलों को सुलझाने में मिलेगी मदद

डीजीपी ऑफिस के अनुसार पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज होने के बाद सुपरवाइजरी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स (IO) द्वारा तैयार किए गए केस पेपर्स को समय-समय पर रिव्यू नहीं करने की शिकायतें बढ़ रही थीं। शिकायतों के समाधान के लिए डीजीपी ऑफिस ने उक्त पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया है। पोर्टल पर एसीपी और डीवाईएसपी को पुलिस स्टेशनों के दौरे की विस्तार से जानकारी भरनी होगी, ताकि डीसीपी, अडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी और सीपी को इसकी जानकारी रहे। इसका मकसद पुलिस स्टेशनों में एसीपी और डीवाईएसपी के हर हफ्ते जाने और संबंधित अपराधों की जांच, एफआईआर और शिकायती मामलों को सुलझाने में आईओ (जांच अधिकारी) का मार्गदर्शन और लंबित केसों का रिव्यू कर उनकी संख्या कम करना है। इससे चार्जशीट में गलतियां नहीं होंगी और पीड़ितों को जल्द न्याय भी मिलेगा। हालांकि, मुंबई में सीपी खुद सप्ताह में शिकायतें सुन रहे हैं, जबकि डीसीपी नियमित दौरा करते हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस अफसरों के शेड्यूल की जानकारी पोर्टल पर आने से यह अनिवार्य हो जाएगा कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर पुलिस स्टेशन का हफ्ते में कम से कम एक बार दौरा करेंगे। यह दौरा लॉ ऐंड ऑर्डर, सरप्राइज चेक या पुलिस स्टेशन के फॉर्मल इंस्पेक्शन के लिए नियमित दौरों से अलग होगा। बता दें कि डीजीपी ऑफिस से मार्च, 2025 में एक ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें एसीपी और डीवाईएसपी को अपने नियमित कैलेंडर के अलावा हफ्ते में एक बार संबंधित पुलिस स्टेशनों का दौरा करना अनिवार्य था, लेकिन ये वरिष्ठ अधिकारी इस नियम का सख्ती से पालन नहीं कर रहे थे।

AI Image

“वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करेगी, जिस पर एसीपी और डीवाईएसपी को पुलिस स्टेशनों के अपने दौरे के बारे में डिटेल्स भरनी होंगी। इसे डीजीपी मुख्यालय के अधिकारियों समेत कई सीनियर अधिकारी मॉनिटर करेंगे।

-निखिल गुप्ता, ADGP (लॉ ऐंड ऑर्डर, महाराष्ट्र पुलिस)

“हर हफ्ते एक बार आईओ के साथ एसीपी या डीवाईएसपी केस पेपर्स लेकर बैठने, रिव्यू करने और फॉलो-अप करने से बहुत बड़ा असर होता है। ऐसे ही, फॉलोअप से 24 साल पुराने मर्डर का केस सॉल्व हुआ था।

-आंचल दलाल, SP (रायगड पुलिस)

नियमित रिव्यू से हुआ मामले का खुलासा

2 करोड़ की ठगी के मामले में सोलापुर शहर पुलिस के तहत नियमित रिव्यू के दौरान एसीपी ने तीन साल पुराने फाइनैंशल फ्रॉड केस में वॉन्टेड एक आरोपी के बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड चेक करने का निर्देश दिया था। बच्चों के परमानेंट एजुकेशन नंबर (PEN) और यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑन एजुकेशन (UDISE) डेटा को ट्रेस करने पर आरोपी का आंध्र प्रदेश के अंदरूनी हिस्से में लोकेशन मिला, जहां से आरोपी को अरेस्ट किया गया। आरोपी ने बच्चों को वहां दाखिल कराया था।

फटाफट खबरें

पालघर में ‘महाराष्ट्र पुलिस दिवस’ मनाया

■ NBT न्यूज, पालघर : कोलगांव स्थित पुलिस परेड मैदान में पालघर पुलिस ने ‘महाराष्ट्र पुलिस दिवस’ मनाया। पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के मार्गदर्शन में हुई पुलिस परेड में विभिन्न थानों के पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विनायक नरले और उप पुलिस अधीक्षक कुमार सुशांत उपस्थित थे।

चेन स्नैचिंग गिरोह के दो आरोपी अरेस्ट

■ NBT न्यूज, कल्याण : कोलसेवाडी पुलिस ने ठाणे शहर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज चेन स्नैचिंग के मामलों का पर्दाफाश करते हुए एक बड़े गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम कासिम नरिबशाह इरानी (38) और मुख्तार शेख हुसैन उर्फ इरानी (32) हैं। पूछताछ में आरोपियों ने ठाणे शहर, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, भिवंडी, मुंबई, नवी मुंबई और कर्नाटक राज्य में जूलरी चुराने और चेन स्नैचिंग की कई वारदातें कबूल कीं। पुलिस जांच में कुल 52 मामलों का खुलासा हुआ है।

ट्रेनिंग से रहे नदारद, जारी किए गए नोटिस

■ NBT न्यूज, ठाणे: चुनाव ट्रेनिंग से गैर-हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ठाणे मनपा प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। ऐसे लोगों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया है और नोटिस के बाद भी हाजिर न होने पर क्रिमिनल केस दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई है। मनपा आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी सौरभ राव ने कहा है कि गैर-हाजिर रहना अनुशासन तोड़ना है।

निर्दलीय की जिद से परेशान हुई BJP

■ NBT न्यूज, नालासोपारा: वसई-विरार मनपा के नालासोपारा (पश्चिम) वॉर्ड-11 में शिवसेना (शिंदे गुट) की कार्यकर्ता संध्या नाईक को चुनाव से पहले टिकट देने की बात कही गई थी, जिसके बाद उन्होंने वॉर्ड में जन समस्याओं पर काम करना शुरू किया। बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया। नालासोपारा (पश्चिम) से एक भी सीट शिंदे के खाते में नहीं गई। इससे नाराज नाईक ने निर्दलीय नामांकन भर दिया और वह बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी।

8 करोड़ के ठगी केस में BJP पदाधिकारी सहित तीन गिरफ्तार

पूर्व IPS चहल के आत्महत्या की कोशिश का मामला

■ अमित तिवारी, मीरा-भाईंदर



पंजाब कैडर के पूर्व IPS अधिकारी एवं पूर्व IG अमर सिंह चहल द्वारा आत्महत्या की कोशिश के बाद सामने आए 8 करोड़ रुपये की निवेश ठगी के मामले में पंजाब पुलिस ने मीरा-भाईंदर BJP पदाधिकारी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले में अमर सिंह ने ठगी के बाद आत्महत्या प्रयास किया था। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में अमर सिंह चहल ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनके साथ करीब 8 करोड़ रुपये की ठगी की गई, जिसके चलते वे गंभीर मानसिक तनाव में थे।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में रंजीत नंबरदार सिंह भी है, जो BJP का पदाधिकारी बताया जा रहा है। रंजीत के अलावा इस केस के दो अन्य आरोपी प्रतीक और आशीष पांडे हैं। तीनों आरोपियों को शुक्रवार को ठाणे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाया गया। वहां उन्हें पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने आरोपियों से रात भर गहन पूछताछ की है। फिलहाल पुलिस कई बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन और अन्य संभावित सहयोगियों की जांच कर रही है।

- ठगी के चलते गंभीर मानसिक तनाव में थे चहल, सुसाइड नोट में है खुलासा
- मीरा-भाईंदर में पंजाब पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने शेयर बाजार, IPO, ब्लॉक ट्रेड और अन्य निवेश योजनाओं में असाधारण मुनाफे का लालच देकर चहल को फंसाया। उनका भरोसा जीतने के लिए फर्जी डिजिटल डैशबोर्ड और नकली मुनाफे के आंकड़े दिखाए गए। इसके बाद बार-बार मुनाफे को दोबारा निवेश करने का दबाव बनाया गया। जब चहल ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की, तो उनसे ‘सेवा शुल्क’, ‘टैक्स’ और अन्य चार्ज के नाम पर कई करोड़ रुपये और वसूले गए, लेकिन एक बार भी वास्तविक निकासी नहीं हुई। पुलिस के अनुसार इसी के चलते चहल गंभीर मानसिक तनाव में थे।

चुनाव में दिखी MVA की दरार

■ NBT न्यूज, मीरा-भाईंदर : मीरा-भाईंदर मनपा चुनाव में महाविकास आघाडी (एमवीए) में टूट साफ नजर आने लगी है। एक ओर जहां शिवसेना (UBT) और मनसे ने कई सीटों पर तालमेल कर साथ उतरने का फैसला किया है, वहीं कांग्रेस ने गठबंधन से अलग राह अपनाते हुए 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।

निकाय चुनाव महा मुकाबला

कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने महाविकास आघाडी में टूट के लिए सीधे तौर पर शिवसेना (UBT) को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने आघाडी में 40 सीटों की मांग की थी और उसी के अनुरूप पार्टी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) ने भी गठबंधन में दरार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

सीट बंटवारे को लेकर असहमति अब चुनावी मैदान में भी दिखाई दे रही है। कई वॉर्डों में शिवसेना (UBT) और मनसे आमने-सामने हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। शिवसेना (UBT) ने कुल 56 सीटों में से 18 सीटों पर नवयुवकों को मौका देकर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है।

मनसे यहां 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें 4 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है।

भिवंडी: घर-घर जाकर डबल वोटर्स के भरे जाएंगे ‘परिशिष्ट-1’

■ NBT न्यूज, भिवंडी : भिवंडी मनपा क्षेत्र की मतदाता सूची के भाग में दर्ज दोहरे मतदाताओं के घर-घर जाकर उनका ‘परिशिष्ट-1’ भरने के आदेश सभी सुपरवाइजर एवं सभी मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को दिया गया है। मनपा के सहायक आयुक्त तथा अतिरिक्त मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा यह आदेश मनपा आयुक्त तथा मुख्य चुनाव अधिकारी अनमोल सागर के निर्देश पर दिया गया है। उक्त कार्य पूरा कर 4 जनवरी तक संबंधित कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

चुनाव अधिकारी ने भिवंडी मनपा क्षेत्र में सक्रिय BLO को जारी किए आदेश

भिवंडी मनपा क्षेत्र की मतदाता सूची में दोहरे मतदाताओं के तकरीबन 27 हजार से अधिक नाम दर्ज हैं, जिनके सामने स्टार लगाया गया है। मनपा आयुक्त तथा मुख्य चुनाव अधिकारी अनमोल सागर के निर्देश पर मनपा के सहायक आयुक्त तथा अतिरिक्त मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में दर्ज दोहरे मतदाताओं के घर-घर जाकर उनका परिशिष्ट-एक भरने का आदेश दिया गया है।

सहायक आयुक्त तथा अतिरिक्त मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा सभी सुपरवाइजर एवं बीएलओ को दिए गए आदेश में कहा गया है कि यह कार्य चुनाव से संबंधित है और समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है। मतदाता सूची के भाग में दर्ज दोहरे मतदाताओं के घर-घर जाकर उनका ‘परिशिष्ट-1’ भरने का काम तत्काल प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। परिशिष्ट-एक भरने के बाद संबंधित मतदाता उसे आवंटित किए गए मतदान केंद्र के अलावा किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर सकेगा। मतदाता को इस बात से अवगत कराया जाए कि यदि वह उक्त नियमों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित स्थानीय निकाय के प्रावधानों के अनुसार वह दंड का पात्र होगा। सुपरवाइजर एवं बीएलओ को संपूर्ण सूची के दोहरे मतदाताओं का ‘परिशिष्ट-1’ भरकर लिखित रिपोर्ट 4 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक संबंधित कार्यालय में पेश करना होगा।

चुनावी तैयारियों पर समीक्षा बैठक

■ NBT न्यूज, भिवंडी : भिवंडी मनपा के आम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव निरीक्षक प्रकाश थवील की अध्यक्षता में चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाणे, पुलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे, सभी चुनाव निर्णय अधिकारी, मनपा के नोडल अधिकारी, उत्पाद शुल्क कार्यालय, पुलिस विभाग और मनपा के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

इस दौरान चुनाव निरीक्षक प्रकाश थवील ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने और आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस विभाग, एसएसटी, एफएसटी और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को उचित सावधानी बरतने और मुस्तैद रहने के लिए निर्देश दिया।

16 वर्षीय किशोरी ने की खुदकुशी

■ NBT न्यूज, वसई : नायगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के चिंचोटी इलाके में 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार चिंचोटी स्थित लोखंडी पाडा निवासी भाग्यश्री नवले (16) अपने परिवार के साथ रहती थी। बुधवार दोपहर उन्होंने अज्ञात कारणों से घर की छत पर लगे लोहे के पाइप पर साड़ी बांधकर फांसी लगा ली।

स्टेट अपडेट

ACB ने लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा

■ भाषा, जालना : जालना जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने लघु सिंचाई विभाग में तैनात कार्यकारी अभियंता रोहित प्रह्लाद देशमुख (35) को गुरुवार को उनके कार्यालय में एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा लिया। देशमुख पर भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया, आरोपी अधिकारी ने भूमि के मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने के बदले 7 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने शुरुआत में उसे 4 लाख रुपये दिए थे।

परंपरा से हटकर BJP ने जालना में मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट

■ भाषा, जालना : जालना शहर में 15 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सहयोगी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी मुस्लिम मतदाताओं को अपने हक में करने के लिए इस समुदाय से उम्मीदवार उतार रहे हैं। अपनी पिछली परंपरा से हटकर बीजेपी ने शहर में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषक इस बदलाव का कारण हाल में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल के प्रभाव को मानते हैं और इस कदम से मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं।

BJP ने वापस लिया प्रत्याशी का नाम

■ भाषा, पुणे : बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद पुणे मनपा चुनाव में पूजा मोरे-जाधव की उम्मीदवारी वापस ले ली है। जाधव को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के कोटे के तहत वॉर्ड नंबर-2 से उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने एबी फॉर्म दिया था।

MPSC से आयुसीमा में छूट की मांग तेज

■ आईएएनएस, पुणे : MPSC की तैयारी कर रहे छात्रों ने भर्ती विज्ञापन में देरी को लेकर एक साल की आयु-सीमा में छूट की मांग तेज कर दी है। पुणे में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। खास तौर पर पीएसआई पद के उम्मीदवार चाहते हैं कि आयुसीमा की कट-ऑफ तिथि 1 जनवरी तक बढ़ाई जाए।

CSMT पर रेलवे की नई व्यवस्था यात्रियों की मुसीबत

टैक्सीवाले भी प्रभावित, रेलवे का तर्क- ‘जगह की है कमी’

Akhilesh.Tiwari@Timesofindia.com

■ मुंबई : CSMT स्टेशन पर रेलवे की नई व्यवस्था यात्रियों के लिए परेशानी और टैक्सी चालकों के लिए संकट बनती जा रही है। मुंबई में टैक्सी को स्टेशन कनेक्टिविटी का अहम साधन माना जाता है, लेकिन CSMT के बाहर टैक्सी मिलना अब मुश्किल होता जा रहा है।

रेलवे की नई नीतियों के चलते टैक्सी स्टैंड को लगभग सिकोड़ दिया गया है, जिससे न सिर्फ यात्रियों को दिक्कत हो रही है बल्कि सैकड़ों टैक्सी चालकों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ा है। पहले मेल-एक्सप्रेस रिजर्वेशन काउंटर के बाहर तीन लेन का टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, जहां यात्री आसानी से टैक्सी पकड़ लेते थे। अब तीन लेन सिमटकर सिर्फ एक लेन रह गई है, जबकि बाकी जगह पर रेलवे अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। जो एक लेन टैक्सी के लिए छोड़ी गई है, उसमें भी ड्राइवरों को ‘पिक एंड रन’ के लिए कहा गया है, यात्री को बैठाकर निकल जाओ, रुको मत। पांच मिनट से ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं है, वरना RPF द्वारा कार्रवाई और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है।

करीब 30 साल से टैक्सी चला रहे टीपू शेख का कहना है कि मामूली बात पर 1500 रुपये तक का फाइन ठोक दिया जाता है, जबकि दिनभर की कमाई भी कई बार इतनी नहीं होती। वहीं 25 वर्षों से टैक्सी चला रहे अच्छेलाल तिवारी बताते हैं कि CSMT ऐसा स्टेशन है जहां दूर-दराज से लोग इलाज के लिए आते हैं, जिनमें बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल होते हैं। स्टेशन के बाहर टैक्सी न मिलने से इन यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। टैक्सी चालक फिरोज खान ने बताया कि इस फैसले से यात्रियों की सुविधा घट रही है और सैकड़ों टैक्सी चालक बेरोजगारी के कगार पर पहुंच रहे हैं। CSTM जैसे व्यस्त स्टेशन पर यह व्यवस्था रेलवे के लिए सुविधा नहीं, बल्कि आम जनता और टैक्सी चालकों के लिए ‘काल’ साबित होती नजर आ रही है।

इस मामले में RPF इंस्पेक्टर ने बताया कि हमें जो आदेश दिया जाता है हम उसका पालन करते हैं। वहीं रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला का कहना है कि जगह की शॉर्टेज की वजह से एक लाइन टैक्सी को दिया गया है, जिसमें यात्री को टैक्सी में बैठने या उतारने के बाद तुरंत आगे बढ़ना है, रुकना मना है।

- बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए रिजर्वेशन काउंटर के बाद तीन लेन का था टैक्सी स्टैंड
- अब सिर्फ एक लेन है टैक्सी वालों के लिए, बाकी की लेन में पार्क होते हैं रेलवे के वाहन

मैराथन के चलते पामबीच रोड पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद

नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील

■ NBT न्यूज, नवी मुंबई : नवी मुंबई में ‘रन नवी मुंबई मैराथन’ के मद्देनजर पाम बीच रोड पर यातायात में अस्थाई बदलाव किया गया है। इसके तहत सीवुड्स क्षेत्र में यातायात नियंत्रण लागू होगा। सुरक्षा-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 4 जनवरी को रात 2 बजे से सुबह 11 बजे तक पाम बीच रोड पर बेलापुर की ओर से वाशी, मुंबई और ठाणे की दिशा में जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही मोराज सर्कल तक पूरी तरह बंद रहेगी। वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात विभाग के अनुसार, पाम बीच रोड पर तेज गति से चलने वाले वाहनों के कारण मैराथन प्रतिभागियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। मोराज सर्कल से बेलापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों दिशाओं का ट्रैफिक नियंत्रित तरीके से चलाया जाएगा। मैराथन का आयोजन 4 जनवरी को सुबह 6 से 10 बजे के बीच पाम बीच रोड पर किया जाएगा।

4 जनवरी की रात 2 बजे से दिन 11 बजे तक बंद रहेगी वाहनों की आवाजाही

वैकल्पिक मार्गों पर एक नजर

वाशी की ओर से किल्ला जंक्शन जाने वाले और किल्ला जंक्शन से वाशी की ओर आने वाले वाहन पाम बीच रोड के उपलब्ध एकल लेन मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा वाहन चालक सायन-पनवेल हाईवे होते हुए उरण फाटा मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और प्रशासन का सहयोग करें।

विज्ञापन संख्या. 1/2026

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड
में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि
23 जनवरी, 2026 (15.00 बजे तक) है।
नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों को
लोक उद्यम चयन बोर्ड में अग्रेषित करने की अंतिम तिथि **02 फ़रवरी, 2026** (17.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
https://pesb.gov.in
में लॉग इन करें।

BIGGEST INTERNATIONAL CONSUMER EXPO
Hurry ! Visit Today
Hurry Don't Miss
UPTO 70% off
iicf
INDIA INTERNATIONAL CONSUMER FAIR
www.iicfexhibitions.in
Entry by Ticket ₹50
FULLY A/C
Electronic Partner: vijay sales
60,000 Sq. Ft. Area of Electronics / Appliances
3 Days Left
MMRD Ground, Bandra Kurla Complex
Near Asian Heart Hospital. BKC
Near Aqua Line Metro Station - BKC
Timings weekday: 1 pm to 9.30 pm
Sat & Sun & Holidays: 11.00 am to 9.30 pm
Date 3rd, 4th, 5th Jan 2026
FREE ENTRY: Bring this paper Ad & Get 1 Person Entry Free Valid Till 4pm only on 3rd Jan
All National & Multinational Brands
AN EXPO ON
ELECTRONICS, APPLIANCES, IT, FURNITURES, FURNISHING & INTERIORS, DRESS MATERIALS, HOME TEXTILES, HEALTH & BEAUTY, HANDICRAFTS, AYURVEDIC MEDICINE, AUTOMOBILES, FOOT WEARS, BEDSHEET BEDCOVER, ARTIFICIAL JEWELLERY, KIDS BOOK & TOYS, FOOD COURT & MANY MORE......
RUSH LIMITED STOCKS
Get upto 70% Off on selected products @ Vijay Sales
60,000 sq. ft area of Electronics & Appliances
30,000 sq. ft. area of Furniture & Interior
Lakhs of Consumer Products
Huge display of Automobiles
Get 70% Off on all Consumer Products
Buy any 3+ Coffee @ Tempting Tale & Get Flat 15% Off
International Stalls
Call: 7387779275
WORLD CLASS FAMILY SHOPPING EXPERIENCE

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTM6 User: kamlesh.mestry Time: 01-02-2026 23:23 Color:

TIMES interact

Connecting People, Connecting Needs.

To book your ad

Logon to: ads.timesofindia.com or Call: 18001205474 (Toll Free)

Scan QR Code

GET NOTICED

वैदिक ज्योतिष संस्थान रजि.
ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र एवं स्वरज्ञान
जानुआरी २०२६ से नये वर्गोका आरंभ
निःशुल्क शिक्षण
हिन्दी माध्यम केन्द्र:
रविवार ९ से ११ ज्योतिष / मलाड ११ से १ वास्तु
नगीनदास खांडवाला कॉलेज, एम. के. इ. एम. हाईस्कूल (एन. एल.)
गेट नं ३, ५वा माला, १ भारतनगर, एस. वी. रोड, मालाड (प).
आचार्य अशोकजी 93222 61709
www.vedicjyotishsansthanmumbai.com / Email: vjtvv1@gmail.com
प्रवेश के लिये फोनपे पहेलेसे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हे.

TO ADVERTISE IN THIS SECTION CALL JITESH DOMINIC: 9867407521

SOCIAL EVENT

माँ शाकम्भरी पूर्णिमा
माँ शाकम्भरी प्राकट्य महोत्सव
28वाँ वार्षिक महोत्सव
रविवार, 4 जनवरी 2026
श्री कुंदनजी (मुंबई), ज्योति शर्मा
एवं टीम द्वारा संगीतमय भजन,
कीर्तन एवं नृत्य-नाटिका प्रस्तुति,
माँ का मंगलपाठ
कार्यक्रम प्रारंभ : शाम 4 बजे से
भजन एवं कीर्तन : रात 7 बजे से महाआरती : रात 9:30 बजे
महाप्रसाद : रात 9:30 बजे से
महोत्सव स्थल: नारायण बैंक्विट्स, तीसरी मंज़िल,
टोपीवाला शॉपिंग सेंटर, स्टेशन के पास, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई
वैले पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
अखंड ज्योत, छप्पन भोग, माँ की अद्भुत झाँकी एवं महाप्रसाद
माँ के इस मंगलमयी अनुष्ठान में सपरिवार पधारकर दर्शन लाभ लेकर पुण्य के भागी बनें।
निवेदक: नन्दलाल कैंया चैरिटेबल ट्रस्ट
नारायण रेकी सत्संग परिवार
सुनिल पाटोदिया वेलफेयर फाउण्डेशन
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन मुंबई सिटी

प्रॉपर्टी

मुंबई प्रॉपर्टीज

दादर

RUSTOMJEE Crown 4 BHK 1790 Sq Ft 9.50 Cr High Ceilings / Done Up Pool, Gym, Kids Play Area Highrise Estates 99 200 11 888

बोरीवली पश्चिम

बोरीवली-(वेस्ट) देवीदास लेन क्रॉस रोड एक्सर 2 BHK फ्लैट 750 यूजेबल कारपेट, फर्निश्ड, पार्किंग के साथ. (2.01 Cr.) Mukesh Estate : 9820074825.

बोरीवली-(वेस्ट) एल. टी. रोड, चंदावरकर लेन, 3 BHK फ्लैट 1150 यूजेबल कारपेट, पार्किंग के साथ. (3.50 Cr.) Mukesh Estate : 9820074825.

गोरेगांव पूर्व

Available for SALE at SHAGUN TOWERS Goregaon East
- Large 2 BHK, Carpet 826 sq ft
- North Exit, Filmcity Road View
- Middle Floor
- 1 Basement Car Park
- Warm Shell Condition
- Modern Amenities, Good Society
- Excellent Conectivity for WEH & Metro line, Mall, Schools Nearby
- Immediate Possession

—Sale Price 3 Crores—
Schoolmate Consultancy Nitin - 9820364270

मुलुंड पश्चिम

FOR_SALE 2 BHK- 705 sq. ft. & 3 BHK- 961 sq. ft., Podium Parking with 2-way ramp, Valji Ladha Road, Mulund West. (P51800065546) Call 9930 333 456

ठाणे

AVAILABLE-FOR-SALE 1) 3.5 BHK at Neelkanth Woods 2) 2 BHK for Sale at Tata Serein 3) 2 BHK for RENT at Asteria. Contact : 9867605500

3BHK 1301 built-up flat for sell - Suncrest CHS, Louiswadi, Thane (W) Lift, own parking, 15 min from stn. Exp 2.81 Cr. Call- 9969998159

वर्ली

GODREJ Sea Facing 3 BHK 1765 Carpet / 2 Car Parks Terrace Deck / Done Up Pool, Gym, Kids Play Area Highrise Estates 99 200 11 888

गोरेगांव पश्चिम

GOREGAON (W) "SIDDHARTH NAGAR"
2 BHK Rs. 1.99 cr*
3 BHK Rs. 2.87 cr*
Full C.C. Received**
8693890177
Maha Rera No : P51800077958

महालक्ष्मी

MINERVA 3 BHK - 8.70 Cr Spacious Layout / 3 Car Parks Well Planned with Sun Decks Ready / OC / Amenities Highrise Estates 99 200 11 888

कांदिवली पश्चिम

कांदिवली-W 2BHK + 3 बाथरूम 612 कारपेट / 810 SBA, B-201, फरेरा अपार्ट., लेडी फातिमा रोड, Opp. पोइसर बस डेपो, SV रोड, 1.25Cr (Nego) Call: मेहता 9323170296 (ब्रोकर वेलकम)

KANDIVALI West Alok dhanukarwadi, New Tower 1 bedroom 1.13 cr+/ 2 bedroom 1.67 cr+, jodi flats 1+2 bedroom 2.80 Cr+ site. - 93222 87656

दक्षिण मुंबई

CHOWPATTY, New Tower, 2 BHK. RERA Carpet 800 sq ft. 1 Reserved Parking, Near Jain Temple, 4 CR for Sale. Contact: 80807 23577

PRIME RETAIL Spaces @FORT Near ZARA store 2400sqft /800sqft with 2 car park CTC Prerna 9820192000 /Raj 9820132000

REQD 4 BHK TO BUY IN SOUTH/ CENTRAL MUMBAI WITH CLEAR OC & TITLE READY POSSESSION OR 1 YEAR TIME. WHATSUP 9320972485

SEA Facing 4 BHK Boutique New, Ready, OC Fully Furnished, 4 Car Parks Lush Greenery, Peaceful Highrise Estates 99 200 11 888

बिक्री के लिए

जयपुर

BUNGALOW FOR SALE in C Scheme, most posh location in heart of city. 1077 sq yds/9693 sq ft. Contact 9414450170

प्रॉपर्टी ऐन्सलेरीज

वाणिज्यिक परिसर (अचल संपत्ति)

PRIME Commercial Office 1750 SFT @ Deonar, S.T.Road, Opp. Metro, Nr. Freeway. Glass Bldg.Long Lease / Sale. Call Owner : 98214 32040

लीज और किराए पर

1) ON-RENT,70,000 sq.ft. Highway face N.A.plot built to suit One Lac sqft Vertical 25000 sq.ft. x 4 floors= 100000 sq.ft. for Godown/ Pharma/ Garment / Car Centre/ assembling, Nr Fountain Hotel, 3 km from Kashimira.
2) ON Rent 6000 sq.ft.(1st-3000'& 2nd -3000') office fully furnished at Marol Maroshi Road,3 km from Airport, Nr Seven Hills Hospital.
3) Very Prime Plot 24000 sq.ft. Next to Fun Republic. One lac sqft,10000 sq.ft.@10 floors= 100000 sq.ft. built to suit Glass Façade Jewellery /Showroom /Corporate office/ Bank /IT
4) ON Rent Gr.Floor, besides Lodha Aqua, Mira Road, Super Market 1650 Carpet with A/C & with Racks / Office.
5) On Rent,Gala 4000 sq.ft.at kaman Bhiwandi Road facing. Near Bhajanlal Dairy.
Ph: 9820236654 / 9870643011. Email- gkp.fittech@gmail.com

आवास चाहिए

WANTED 2 BHK flat in Vile Parle East. Preference for old CHS in quiet peaceful locality. Contact: 9167621773

बिक्री के लिए भूमि

KASHID-MURUD Road sea view & road touch land for sale. 6 acre. 5acre 4acre 2acre. 51/ 35/ 60/ 140 Guntha 9421960557 9272713411

भर्ती

रिक्त पद

LILAVATI-JEWELLERS बोरीवली (वेस्ट) सोना/ सिल्वर/ अकाउंट्स के लिए सेल्स / फीमेल स्टाफ तुरंत चाहिए. संपर्क: 9152509160.

भर्ती-रिक्त पदों की स्थिति

प्रशासन

मानव संसाधन विकास और प्रशासनिक

REQ. Male Admin Head, staying nearby Lower Parel only + min 5yrs exp. in Facility Management 98755 69000 E: pundliklokre@gmail.com

तकनीकी

इंजीनियर्स

LEADING Pipe Fitting MFG Co. in Vasai / Mira Road Req.. 1) QC Engineers B.E/ DME /B.S.C must have 2 to 3 years' experience in Steel Piping & Fittings, experience in LAB Metallurgical-TPI with preparing documentation & handling of inspection with knowledge of industry ASME code. English communication & Computer proficiency must. 2) Sales Assistant (Back office) sales persons for preparing quotation / Data entry and proficiency in Computer & Fluency in English speaking. Drafting must. Also required Senior Sales person to deal with MNC Company. Staying nearby Mira Road preferred to meet for spot appointments. Fittech Industries Pvt. Ltd, Unit No.12, J.D. Industrial Estate, Beside Lodha Aqua, Mira Road (E). 7410730973 / 9967417320 / 8898866471 Email id : hr@fittechind.com

अकादमिक

शिक्षक

REQD. Female Teacher for Primary Std. (I-IV) and K.G (pre-primary). Meet personally with C.V & photo. Principal, Queen Mary High School, Gokuldham, Malad (E). 9867511017. Time 9-1.

The Bishop's International School (ICSE)
Invites Applications (Females Only) for Pre-primary, Primary and Secondary section with min. 2 yrs. of experience.
Subjects: English, Math, Science, Social Science, Art, ICT & Hindi.
Apply within 10 days to the email id. Mention subjects applied for in the email subject line.
Also Required: Front Office Clerk with Experience in ICSE School Administration.
Email: info@thebishopsinternationalschool.com

अन्य रिक्तियां

सामान्य

चौक के रिकवरी काम के लिए लड़के (Field Executives) तुरंत चाहिये. संपर्क : विजय - 9930443090

एकाधिक रिक्तियां

GOREGAON-WEST- Garment(Uniforms) Factory Req. Telecaller, Field Salesman, Sr Accountant, Factory Manager, Merchandiser (Sal. 30000-40000) Gopesh Uniforms. 8169796810

सेवानिवृत्त व्यक्ति

GRAND-OPPORTUNITY to Restart 2ND Career. Retirees, Pensioners, Sr.Citizen. Flexible working hrs.Age:40+.Good pay + huge Incentives. 9804901322

सेवाएं

कानूनी सलाह

GIFT DEED
RELEASE DEED
SALE DEED
WILL
POINT ADVISORY 7021653529

खरीदारी

फर्नीचर और साज सामान

'CHAIR-DOCTOR': Rathod Chairs, Bhayander- 500 Models. We are Masters in Repairing All Branded Office Chairs With Free Pickup & Drop. 'Subhash'- 9029718393, 'Rathod'- 9892011842

TO PLACE A PERSONAL ANNOUNCEMENT IN THIS SECTION CALL: 9867505472

HEALTH & WELLNESS

NEW YEAR DETOX WITH AYURVEDA
• The Feel of Nature •
New Year SPECIAL OFFER
FLAT 25% OFF
(Limited Period up to 31 Jan 2026 Only)
JIVAYU
Kandivali West
Call Now 7710087752
- PANCHAKARMA DETOX
- ALL AYURVEDIC THERAPIES
- JOINT, BACK & PAIN RELIEF STRESS,
- ANXIETY & SLEEP CARE
- DEEP DETOXIFICATION
- REJUVENATION & IMMUNITY BOOST

www.jivayupanchakarma.in
Dr Govinddev Jhirmiria
MD (Panchakarma), B.A.M.S. (MUMBAI)
Consultation by Appointment
8080717752
B-1, Khajuria Nagar CHS Ltd., Opp. Milap Cinema, Off S. V. Road, Kandivali (W), Mumbai - 67.

Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. All creatives marked as Advertorial, Spotlight and Promotional Features are to be treated as Advertisements. The Times of India Group doesn't vouch for any claims made by the Advertisers of the products and services. The Printer, Publisher, Editor, and the owners of The Times of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.

More TIMES interact ads on subsequent pages...

SOCIAL EVENT

॥ ॐ श्रीरामाय नमः ॥
सत्संग समिति, मुम्बई द्वारा आयोजित
सिंहस्थलपीठाधीश्वर श्री १००८
श्रीक्षमारामजी महाराज
के नेतृत्व में श्री रामचरितमानस के
सामूहिक पाठ एवं सत्संग का भव्य आयोजन
शनिवार ३ जनवरी से रविवार ११ जनवरी २०२६
समय : दोपहर १२.१५ बजे से सायं लगभग ५ बजेतक
स्थान : श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर प्रांगण, जे. बी. नगर, अंधेरी (पू), मुम्बई.
स्तुति एवं प्रवचन दि. ४ से १२ जनवरी तक - प्रतिदिन प्रात : ५ बजे से
(संतवाणी के मार्मिक प्रवचन का कैसेट सुनाया जायेगा) समय से पहुँचना अनिवार्य है।
कीर्तन, भजन एवं सत्संग सांय ८.०० बजे से लगभग ९ बजे तक
स्थान : गोपाल कुंज - पोस्ट ऑफिस के सामने जे. बी. नगर, अंधेरी (पूर्व)
सम्पर्क सूत्र : 9820035569, 9820082843

७५वाँ जन्मोत्सव
परम पूज्य सद्गुरुदेव
डॉ. श्री राजेन्द्र जी महाराज
अमृतवाणी सत्संग
अमृतवाणी पाठ, भजन एवं प्रवचन
शनिवार, ३ जनवरी २०२६
सायं : ८.३० बजे से
महाप्रसाद : ८.३० बजे से
अमोघ धाम, एच.डी.एफ.सी. बैंक के सामने, मार्वे रोड, मालाड (प), मुंबई
आप सपरिवार आमंत्रित हैं
श्री विनीत जी - ९८३३२ ८८३७४ । श्रीमती सुचिता जी (दीदी) - ९७८३७ ८४७३३

दादी परिवार, भायंदर
रजि. क्र.-E-0013414 (THN)
शनिवार 3 जनवरी 2026 दोपहर 2 बजे से
20वाँ वार्षिक उत्सव
दिव्य सत्संग एवं भजन संध्या
पूज्यनीया देवी चित्रलेखाजी की अमृतमयी वाणी में दिव्य सत्संग दोपहर 3 बजे से
श्रीमती मीतु अग्रवाल कोलकाता द्वारा सायं 7 बजे से
अखण्ड ज्योत, अलौकिक श्रृंगार, छप्पन भोग, महाप्रसाद
स्थान : बालाजी ग्राउंड (पपैया), टेम्बा रोड, मैक्सस मॉल के पास, भायंदर-पश्चिम
आमंत्रित कलाकार: श्रीमती रितु शर्मा, श्रीमती मनिषा देवड़ा, श्री गोविंद शर्मा, ट्विंकल बगड़िया
संपर्क 85914 50244, 93227 96178, 99201 92141, 98673 35195
आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित है।
AJAY BANKA

॥ श्री गिरिराज महाराज सदा सहाय ॥
श्री बृज उत्सव संस्थान ट्रस्ट मुंबई
एवं **श्री बृज उत्सव सखी क्लब**
बृजवासी हांडा उत्सव
गीत संगीत एवं भजनों से भरी एक अनूठी शाम
धमाल पर धमाल
प्रस्तुतकर्ता : केशव स्पिरिचुअल रॉक बैंड
दिनांक : 4 जनवरी 2026, रविवार, सायं 5.00 बजे से 8.30 बजे तक
कार्यक्रम स्थल : बृजवासी पैलेस हॉल, बृजवासी इस्टेट, सोनावाला मार्ग, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई 400063.

श्री बृज उत्सव संस्थान ट्रस्ट (मुंबई)	कार्यकारिणी प्रभारी सदस्य	
श्री महेश बंशीधर अग्रवाल (अध्यक्ष)	श्री विनोद रा. गोयल (मंत्री)	श्री सुरेशचंद्र मो. अग्रवाल (कोषाध्यक्ष)
श्री रमनलाल अग्रवाल (चौधरी)	श्री चन्द्रकान्त रा. अग्रवाल	श्री सुभाष अग्रवाल (थाना)
श्री बृजमोहन अग्रवाल (अंजला)	श्री नरेन्द्र मो. अग्रवाल	श्री बद्रीधर अग्रवाल
श्री मनोज बांकेबिहारी अग्रवाल	श्री प्रमोद अग्रवाल	श्री नरेन्द्र चेतराम गुप्ता
श्री दिनेश बा. गोयल	श्री रमाकांत अग्रवाल	श्री दिनेश मो. अग्रवाल
श्री रविशंकर अग्रवाल	श्री गोविंद ब. अग्रवाल	श्री नरेन्द्र जगदीश प्रसाद (थाना)
श्री श्यामसुंदर अग्रवाल	श्री हेमंत ओ. अग्रवाल	श्री राज रमेश अग्रवाल
श्री अशोक बी. अग्रवाल (थाना)	श्री सुशील मित्तल	श्री रमेश बंसल
श्री राकेश बी. गुप्ता	श्री सुभाष अग्रवाल (गोकुलधाम)	श्री बलदेव ओ. गुप्ता
	श्री प्रदीप अग्रवाल (मीरा रोड)	

सहयोगी संस्थाएं : अग्रवाल परिवार • रोटरी क्लब ऑफ मुंबई होराइजन्स
श्री बृज एकता परिवार • अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन (थाना)
विनीत : श्री बृज उत्सव संस्थान ट्रस्ट (मुंबई)
श्री महेश बंशीधर अग्रवाल (अध्यक्ष), श्री विनोद रा. गोयल (मंत्री), श्री सुरेशचन्द्र मो. अग्रवाल (कोषाध्यक्ष)
श्री बृज उत्सव सखी क्लब
निर्मला विनोद गोयल (अध्यक्ष), कल्पना अजय अग्रवाल (मंत्री), रचना भरत अग्रवाल (कोषाध्यक्ष)
सभी प्रभारी कार्यकारिणी सदस्य एवं सदस्याएँ
वैले पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
Manish Chaganlal Ji Agrawal
सौजन्य : SHUBHAM GOLD BULLION MERCHANT

माँ शाकम्भरी पूर्णिमा
माँ शाकम्भरी प्राकट्य महोत्सव
28वाँ वार्षिक महोत्सव
शनिवार 3 जनवरी 2026
त्रिकुण्डीय सपाद लक्ष (1,25,000 आहुतियाँ)
दुर्गा होम हवन : शाम 4 बजे से, विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण,
महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, शक्ति स्तुति,
कनकधारा स्तोत्र पाठ : शाम 7:30 बजे से महाआरती : रात 9:30 बजे
अखंड ज्योत, छप्पन भोग, माँ की अद्भुत झाँकी एवं महाप्रसाद
हवन यजमान

अनिल एवं निलम कैंया	अनिल एवं अर्चना पाटोदिया	अनिल एवं मधु केडिया
भरत एवं शिवानी चौदनोदिया	दिनेश एवं सुनिता खेमका	प्रदीप एवं सुमन अग्रवाल
अजय एवं ऋतु बूबना	राजेश एवं अनीता जसरापुरिया	लालचन्द एवं मधु चौधरी
पुरुषोत्तम एवं मनीषा मसलीसरिया	राजेंद्र एवं मंजू चौधरी	पंकज एवं मालिनी लढ़िया
सुधीर एवं शिल्पा केडिया	महेश एवं मीना पोद्दार	प्रदीप एवं आशा पंसारी
रोहित एवं प्रेरणा अग्रवाल	पवन एवं रीतु अग्रवाल	संदीप एवं रश्मि हरलालका

महोत्सव स्थल : माँ शाकम्भरी मंदिर, कृष्णवाटिका देवस्थान, गोकुल धाम, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई
माँ के इस मंगलमयी अनुष्ठान में सपरिवार पधारकर दर्शन लाभ लेकर पुण्य के भागी बनें।
निवेदक: नन्दलाल कैंया चैरिटेबल ट्रस्ट
नारायण रेकी सत्संग परिवार
सुनिल पाटोदिया वेलफेयर फाउण्डेशन
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन मुंबई सिटी
गोयनका एण्ड एसोसिएट्स वेलफेयर ट्रस्ट

श्री ढ़ाँढण सेवा समिति मुंबई
द्वारा आयोजित
वार्षिकोत्सव २०२६
श्री ढ़ाँढणवाली दादीजी का श्रृंगार युक्त अलौकिक झांकी, अखंड ज्योत, छप्पनभोग व भक्तिमय सुमधुर भजनो का कार्यक्रम
रविवार ४ जनवरी २०२६; समय सायं ४.३० बजे से रात्रि ९बजे तक
आमंत्रित भजन गायक श्री. मुलचंद बजाज (कोलकत्ता)
श्री. प्रमोद शर्मा (मुंबई), कु. बेबी खुशी (मुंबई), कु. बेबी पलक (मुंबई)
उत्सव स्थल FM Banquet, Udyog Nagar, Kamat Club Lane,Goregaon (W), Mumbai- 62.
निवेदक ट्रस्टीगण:

श्रीगोपाल बजाज (अध्यक्ष)	कृष्णमुरारी भरतिया (महामंत्री)	विष्णु बजाज (कोषाध्यक्ष)	नन्दू पोद्दार (उपाध्यक्ष)	दिनेशकुमार बजाज (सहमंत्री)
सज्जन बजाज	रवि बजाज	अंकुर बजाज	प्रीतम बजाज	विनोद भरतिया
राजीव बजाज	सुनील बजाज	अनुपम बजाज	प्रशांत बजाज	राहुल बजाज

श्रीमती उषादेवी बजाज श्रीमती संगीता रवि बजाज श्रीमती सविता बजाज
Valet Parking Available
सौजन्य: Vital Laboratories Pvt. Ltd. सभी श्रध्दालु भक्तगण सादर आमंत्रित है।

TO PLACE A PERSONAL ANNOUNCEMENT IN THIS SECTION CALL: 9867505472

TO PLACE A PERSONAL ANNOUNCEMENT IN THIS SECTION CALL: 9867505472

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 03-01-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTM7 User: c-suman.v Time: 01-02-2026 23:21 Color:

फटाफट खबरें

पान मसाला, रजिस्ट्रेशन जरूरी

पीटीआई, नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 1 फरवरी से हेल्थ और नैशनल सिक्योरिटी सेस कानून लागू हो रहा है। इसके आते ही पान मसाला बनाने वाली कंपनियों को इस कानून के तहत अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत कराना होगा। मंत्रालय ने साफ किया गया है कि अगर किसी ओनर की एक से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, तो उसे हर फैक्ट्री के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

डॉलर के मुकाबले 22 पैसे गिरा रुपया

NBT रिपोर्ट, मुंबई: शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90 के स्तर को पार कर गया। कारोबार के अंत में रुपया 22 पैसे गिरकर 90.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की घटती कीमतों और घरेलू शेयर बाजार में आई रेकॉर्ड तेजी ने रुपये को और ज्यादा गिरने से बचा लिया।

Shree Cement पर जांच के आदेश

पीटीआई, नई दिल्ली: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने Shree Cement के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने कंपनी से कामकाज को लेकर जरूरी जानकारी मांगी है। कंपनी ने बताया कि उसे 1 जनवरी को मंत्रालय के अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय निदेशक के दफ्तर से इस बारे में एक लेटर मिला है।

'AI करेगा साइबर सुरक्षा की जांच'

NBT रिपोर्ट, मुंबई: बाजार नियामक Sebi अब AI की मदद से शेयर बाजार की कंपनियों की साइबर सुरक्षा की जांच करेगा। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि सेबी एक ऐसा आधुनिक AI टूल बना रहा है, जो कंपनियों की साइबर सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेगा। यह AI टूल बताएगा कि किस कंपनी को साइबर हमलों का कितना खतरा है।

सेंसेक्स उछला, निफ्टी ने बनाया नया रेकॉर्ड

शेयर बाजार में नए साल की शुरुआत तेजी के साथ

AI Image

NBT रिपोर्ट, मुंबई: शेयर बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी अपने अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। लगातार तीसरे दिन बढ़त बनाते हुए निफ्टी 182 अंक (0.70%) चढ़कर 26,328.55 पर बंद हुआ। वहीं, पावर, बैंकिंग और मेटल कंपनियों के शेयरों में खरीदारी की वजह से सेंसेक्स 573.41 अंक (0.67%) बढ़कर 85,762.01 पर बंद हुआ। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ने की खबर से ITC जैसे शेयरों में गिरावट जारी रही।

पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स 720.56 अंक (0.84%) और निफ्टी 286.25 अंक (1.09%) चढ़ा है। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.97% और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.79% की बढ़त रही।

सिगरेट और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स और VST इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट जारी रही। इसकी वजह सरकार द्वारा इन प्रोडक्ट्स पर 1 फरवरी से लागू होने वाली अडिशनल एक्साइज ड्यूटी है। ITC का शेयर 3.79% गिरकर 350.15 रुपये पर बंद हुआ।

कौन चमके और कौन गिरे? : सेंसेक्स की 30 बड़ी कंपनियों में NTPC, ट्रेंट, बजाज फाइनैंस, पावर ग्रिड, मारुति, SBI, ICICI बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा मुनाफे में रहे। दूसरी तरफ ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

सेक्टर का हाल : पावर, एनर्जी, पीएसयू बैंक, रियल्टी, मेटल और ऑटो सेक्टर में 1% से 2.7% तक की बढ़त रही। केवल FMCG सेक्टर ही ऐसा रहा जो नुकसान में बंद हुआ। विदेशी निवेशकों (FIIs) ने गुरुवार को 3,268.60 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? : HDFC सिक्योरिटीज में डिप्टी वीपी नंदीश शाह ने कहा, NSE के कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 28% बढ़ गया। बाजार में निवेशकों की जोरदार भागीदारी दिखाई दे रही है। हफ्ते के लिहाज से निफ्टी में बढ़त बाजार के मौजूदा बुलिश मूड को और मजबूत करता है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने बताया कि भारत में गाड़ियों की अच्छी बिक्री से बाजार को रेकॉर्ड बनाने में मदद मिली।

13 साल में 10 लाख को 4 करोड़ बनाने वाले सिद्धार्थ नहीं रहे

परिवार संग छुट्टियों पर गए थे, दिल का दौरा पड़ा

NBT रिपोर्ट, मुंबई: पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) Aequitas के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ भैया का निधन हो गया है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि परिवार के साथ छुट्टियों पर गए सिद्धार्थ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। सिद्धार्थ भैया महज 47 साल के थे। सिद्धार्थ ने साल 2012 में Aequitas की नींव रखी थी। सिद्धार्थ शेयर बाजार में 'कॉन्ट्रा स्टॉक पिकर' के तौर पर मशहूर थे। वे 'वैल्यू' और 'ग्रोथ' निवेश के तरीकों का इस्तेमाल कर स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों को शुरुआती दौर में ही पहचान लेते थे, जो आगे चलकर मोटा मुनाफा देते थे। उनका 4,000 करोड़ रुपये का PMS फंड, 'इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड', सालाना 33% की रफ्तार से बढ़ा है। अगर किसी ने 13 साल पहले उनके फंड में 10 लाख रुपये लगाए होते, तो आज ये पैसे बढ़कर करीब 4 करोड़ रुपये हो गए होते।

सालभर में 20% की रही तेज़ी, अब डिफेंस स्टॉक्स में कितना दम?

Akhilesh.Singh1
@timesofindia.com

AI Image

नई दिल्ली : पिछले साल में निफ्टी में करीब 9% बढ़त के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयर इससे दोगुनी से ज्यादा रफ्तार से दौड़े। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में करीब 20% की बढ़त दर्ज की गई। निवेशकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि नए साल में ऐसी रफ्तार बनी रहेगी या नहीं। बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर सरकार के बढ़ते जोर के चलते रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का कारोबार दमदार बना हुआ है और ये शेयर आगे भी निवेशकों को फायदा दे सकते हैं।

क्यों दमदार?

- डिफेंस काउंसिल ने हाल में 79000 करोड़ रुपये में रक्षा प्रणालियों के अपग्रेडेशन और नई खरीद की मंजूरी दी है।
- रक्षा मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक 1.82 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं।
- इस बार के कुल कॉन्ट्रैक्ट वित्त वर्ष 2025 में 2.1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से ज्यादा हो सकते हैं।
- इस वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय का मॉडर्नाइजेशन बजट 1.49 लाख करोड़ रुपये का है।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के मुताबिक, इस बार के आम बजट में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट 10% के बजाय 20% बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा होने पर मॉडर्नाइजेशन बजट ही 1.79 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के ऑर्डर्स में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। PL कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, 'डिफेंस कैपेक्स लगातार बढ़ रहा है। सरकार स्वदेशी पर जोर बनाए हुए है। देश में रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए ऑर्डर्स और मुनाफे की तस्वीर बेहतर हुई है।'

किन पर दांव?

एलारा कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, 'तीसरी तिमाही में भारत डायनेमिक्स की सेल्स सालाना आधार पर 16% और HAL की 6% बढ़ने का अनुमान है। ऊंचे बेस के बावजूद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री 10% बढ़ सकती है।' वहीं, PL कैपिटल ने कहा, 'रक्षा खरीद की हालिया मंजूरी से सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, आइडियाफोर्ज, BEL, डेटा पैटर्न्स, कोचीन शिपयार्ड, GRSE, HAL, BDL, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नॉलजीज और एस्ट्रा माइक्रोवेव्स को फायदा हो सकता है।'

चॉइस ब्रोकिंग के VP (टेक्निकल रिसर्च एंड एल्गो) कुणाल वी परार ने कहा, 'स्वदेशी पर सरकार के फोकस और रक्षा पर ज्यादा खर्च के चलते डिफेंस सेक्टर का आकर्षण बढ़ेगा। HAL, BEL और BDL हमारे टॉप पिक्स हैं।' एलारा कैपिटल ने HAL (टारगेट प्राइस 5679 रुपये), BEL (TP 466 रुपये), BDL (TP 1625 रुपये) और जेन टेक्नॉलजीज (TP 2118 रुपये) को खरीदने की सलाह दी है।

निर्यातकों को सस्ते कर्ज के लिए 7295 करोड़ का पैकेज


AI Image

NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सरकार ने निर्यातकों की मदद के लिए शुक्रवार को 7,295 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। इसमें MSME एक्सपोर्टर्स के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के ब्याज में छूट की व्यवस्था की गई। इसके लिए 5181 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 2114 करोड़ रुपये के कोलैटरल गारंटी सपोर्ट का भी इंतजाम किया गया। दोनों उपायों की धनराशि वित्त वर्ष 2031 तक के लिए है।

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत पात्र MSME निर्यातकों को 2.75% तक सब्सिडी मिलेगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी अजय भादू ने बताया कि सबवेंशन रेट्स की साल में मार्च और सितंबर में समीक्षा की जाएगी। प्रति फर्म सालाना लाभ 50 लाख तक का होगा।

वहीं, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए कोलैटरल गारंटी के तहत MSME निर्यातकों को एक्सपोर्ट से जुड़े वर्किंग कैपिटल लोन पर क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें प्रति फर्म 10 करोड़ रुपये की कोलैटरल गारंटी दी जाएगी। भादू ने बताया कि गारंटी कवरेज का 85% हिस्सा माइक्रो एंड स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए और 65% तक हिस्सा मीडियम एक्सपोर्टर्स के लिए होगा। FIEO के प्रेसिडेंट एस सी रल्हन ने कहा, 'MSME निर्यातकों को कर्ज की ऊंची लागत और कोलैटरल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आज उठाए गए कदमों से इन मुश्किलों का हल निकलेगा। ग्लोबल मार्केट्स में पैठ बढ़ाने में MSME को मदद मिलेगी।'

दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार रही सुस्त


AI Image

पीटीआई, नई दिल्ली: भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार दिसंबर के महीने में थोड़ी धीमी रही। दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) नवंबर के 56.6 से गिरकर दिसंबर में 55 पर आ गया है। बता दें कि PMI का 50 से ऊपर बढ़त को दिखाता है, इससे नीचे होना गिरावट का संकेत है।

KFC, Pizza Hut चलाने वाली कंपनियों का मर्जर

Domino's को टक्कर देने साथ आए Sapphire और Devyani इंटरनैशनल

AI Image

- **ग्लोबल ब्रैंड्स:** KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी और टैको बेल जैसे ब्रांड्स एक ही छत के नीचे आएंगे।
- **विदेशी बाजार:** भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और नाइजीरिया में भी दबदबा बढ़ेगा।

पीटीआई, नई दिल्ली : भारत में KFC और Pizza Hut जैसे मशहूर ब्रैंड्स को चलाने वाली दो बड़ी कंपनियां सफायर (Sapphire) फूड्स (SFIL) और देवयानी (Devyani) इंटरनैशनल (DIL) अब एक होने जा रही हैं। मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी के पास 3,000 से ज्यादा आउटलेट होंगे। गुरुवार को हुई बोर्ड मीटिंग में दोनों कंपनियों ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। नई कंपनी का कुल सालाना कारोबार करीब 8,000 करोड़ रुपये का होगा। यह मर्जर ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में फास्ट-फूड सेक्टर (QSR) की रफ्तार थोड़ी धीमी है और मांग में ज्यादा बढ़त नहीं दिख रही है।

इस मर्जर के बाद नई कंपनी का कामकाज भारत के साथ-साथ नाइजीरिया, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका तक फैल जाएगा। KFC, Pizza Hut और Taco Bell के अलावा इस कंपनी के पास कोस्टा कॉफी, टी लाइव, न्यू यॉर्क फ्राइज और सनूक किचन जैसे ग्लोबल ब्रैंड्स के लाइसेंस भी होंगे। इस कदम से भारत में KFC और पिज्जा हट के लिए एक ही बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी बन जाएगी।

Q शेयरों का क्या होगा? : मर्जर की शर्तों के मुताबिक, सफायर फूड्स के हर 100 शेयरों के बदले निवेशकों को देवयानी इंटरनैशनल के 177 शेयर मिलेंगे। सफायर के प्रमोटर्स की 25.35% हिस्सेदारी में से 18.5% हिस्सा देवयानी इंटरनैशनल की एक ग्रुप कंपनी खरीदेगी और बाकी हिस्से का शेयरों में अदला-बदली (स्वैप) होगा।

Q कितना समय लगेगा? : अमेरिका की कंपनी Yum! Brands ने इस मर्जर को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि, सरकारी और कानूनी मंजूरियां मिलने में अभी 12 से 15 महीने का वक्त लग सकता है। इसके बाद ही यह मर्जर पूरी तरह से प्रभावी होगा।

Q क्या है मकसद? : फिलहाल जुबिलेंट फूडवर्क्स (Domino's चलाने वाली कंपनी) भारत की सबसे बड़ी फास्ट-फूड ऑपरेटर है। इसके 6 देशों में 3,480 स्टोर हैं। देवयानी इंटरनैशनल इस मर्जर के जरिए जुबिलेंट को कड़ी टक्कर देने और मुनाफे को बढ़ाने की तैयारी में है।

Q क्या होगा फायदा? : देवयानी के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने कहा कि जुगलबंदी से कंपनी का खर्च कम होगा, टेक्नोलॉजी बेहतर और सप्लाई चेन मजबूत होगी, जिसका फायदा शेयरधारकों, ग्राहकों को मिलेगा।

मनोरंजन





मेगा मुंबई

ठाणे मनपा पर लहराएगा महायुति का परचम: शिंदे

'उद्धव को चुनाव में याद आते हैं मराठी माणुस'

मनपा चुनाव में निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों ने शुक्रवार को ठाणे में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की।

निकाय चुनाव महा मुकाबला

NBT न्यूज, ठाणे: राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ठाणे मनपा में महायुति के 100 से अधिक नगरसेवक चुन कर आएंगे और 15 जनवरी के बाद मनपा में महायुति का परचम लहराएगा। मनपा में शिंदे शिवसेना के 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। शिंदे ने सभी का शुक्रवार की शाम अभिनंदन किया और उसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उक्त बातें कहीं।

शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर एकबार फिर तंज कसा और कहा कि उन्हें सिर्फ चुनाव के समय मुंबई और मराठी भाषियों की याद आती है। वे लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ की राजनीति करते हैं, जबकि हम विकास की राजनीति करते हैं। शिंदे ने आलोचना करते कहा कि उद्धव ने मुंबई के लिए कोई काम किया हो, तो एक ठोस काम बताएं।

एक ही पैनल पर मां-बेटे कैंडिडेट

ठाणे मनपा चुनाव मैदान में एक ही पैनल में अलग-अलग वॉर्ड से मां और बेटा भाग्य आजमा रहे हैं। वॉर्ड 23-ब कलवा में प्रमिला केनी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। दूसरी तरफ, 23-ड से उनका बेटा मंदार केनी शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में हैं।

प्रमिला केनी शिंदे शिवसेना में थीं। उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बगावत कर दी है और निर्दलीय मैदान में उतर पड़ीं। निर्दलीय प्रमिला केनी को NCP (SP) ने अपना अधिकृत समर्थन दिया है। NCP (SP) की उम्मीदवार दीपा गावंडे ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। बता दें कि प्रमिला पहले भी नगरसेविका थीं।

कार्यकर्ताओं से मिले BJP प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण

> बूथ स्तर पर BJP का संगठन मजबूत करने पर दिया जोर

NBT न्यूज, मीरा-भाईंदर : मीरा-भाईंदर में आयोजित BJP के कार्यकर्ता सम्मेलन में महाराष्ट्र BJP प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की मेहनत का असली इम्तिहान होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में, हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक सक्रिय रहते हुए पार्टी को जीत दिलाने के लक्ष्य पर काम करना होगा।

विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे चुनाव चिह्न 'कमल' को केंद्र में रखकर काम करें और संगठन को मजबूत बनाएं। वहीं जिलाध्यक्ष दिलीप जैन ने संगठनात्मक तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए हर स्तर पर कार्य योजना बनाई गई है।

बीते साल ठाणे में आग की 700 घटनाएं

NBT न्यूज, ठाणे : बीते साल 2025 में ठाणे के विभिन्न इलाकों में आग लगने की 700 से अधिक घटनाएं हुई हैं।

ईंटभट्टी पर काम करने वाली महिला ने की खुदकुशी

NBT न्यूज, वसई : नायगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कामन इलाके में बुधवार को ईंट भट्टी पर काम करने वाली 40 वर्षीय महिला ललिता प्रमोद सुरुम ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि ललिता ने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्व रेलवे

निविदा सं. : ईआरडब्ल्यूके-एमजीपी-डब्ल्यूएम एमसी-25आर1, दिनांक 01.01.2026, मुख्य कारखाना प्रबंधक, पूर्व रेलवे कांचरापाड़ा, उत्तर 24 परगना, पिन-743145 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का नाम: खुली निविदा के माध्यम से बाहरी एजेंसी द्वारा 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए [illegible] शॉप नं. 30/कांचरापाड़ा की विभिन्न [illegible] मशीनों एवं इसके सहायक पुर्जों का रखरखाव"। निविदा मूल्य: रु. 26,91,760.25, बयाना राशि: रु. 53,800/-, निविदा कागजात की लागत: रु.0.00, निविदा की अंतिम तिथि और समय: दिनांक 22.01.2026 को 15.00 बजे। निविदा कागजात और संपूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
MISC-346/2025-26
निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है
हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

निविदा सं. : ईआरडब्ल्यूके-एमजीपी-एमसी-एमटीटीएम-25, दिनांक 01.01.2026, मुख्य कारखाना प्रबंधक, पूर्व रेलवे कांचरापाड़ा, उत्तर 24 परगना, पिन-743145 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का नाम: खुली निविदा के माध्यम से 36 माह की अवधि के लिए "डिजिटल एवं कम्प्यूटरीकृत लोड टेस्टिंग सिस्टम (विभागीय संख्या-[illegible]-74) के साथ 100 टन हाइड्रोलिक हॉरिजॉन्टल टेन्साइल टेस्टिंग मशीन की मरम्मत एवं रखरखाव (यांत्रिक एवं विद्युत) के लिए एएमसी"। निविदा मूल्य: रु. 12,25,119.85, बयाना राशि: रु. 24,500/-, निविदा कागजात की लागत: रु.0.00, निविदा की अंतिम तिथि और समय: दिनांक 22.01.2026 को 15.00 बजे। निविदा कागजात और संपूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
MISC-345/2025-26
निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है
हमें यहां देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

दक्षिण पूर्व रेलवे-निविदा

निविदा सूचना सं.: [illegible]/2026/01, दिनांक 02.01.2026, भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, मुख्यालय (पांचवीं मंजिल), न्यू प्रशासनिक भवन, 11, गार्डनरीच रोड, कोलकाता-700043 द्वारा "ई" प्रोक्योरमेंट प्रणाली के लिए खुली ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसे वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। सभी निविदाएं अपराह्न 2.00 बजे बंद कर दी जाएंगी।

क्र.सं.	निविदा सं.	बंद होने की तिथि	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	ईएमडी (रु. में)
1	46253097ए	27/01/26	[illegible]	3001 अदद	1,17,170/-
2	65255048	23/01/26	[illegible] (प्री-बिड बैठक दिनांक 09/01/26 को पूर्वाह्न 11.00 बजे [illegible])	07 सेट	3,18,010/-
3	ओई25568	27/01/26	25केवी एसी [illegible] ट्रांसफॉर्मर 1050 केवीए [illegible]	05 अदद	3,30,400/-
4	11253436	22/01/26	[illegible]	384 अदद	1,07,520/-
5	12253245	19/02/26	[illegible]	129 अदद	1,75,053/-
6	46255077	05/02/26	[illegible]	438.24 एमटी	8,68,770/-
7	46255082	29/01/26	130 [illegible] (37/2.10) [illegible]	10 एमटी	2,06,260/-

इच्छुक निविदाकार [illegible] www.ireps.gov.in [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
(PR-1026)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक - २०२५-२०२६

जाहीर सूचना

मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे दिनांक २६ डिसेंबर, २०२५ रोजी अन्वयेच्या मतदार यादीच्या सुधारीत कार्यक्रमानुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक - २०२५-२०२६ करिता तयार करण्यात आलेली, मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी दिनांक ०३ जानेवारी, २०२६ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (https://www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qlBMCElect2025) संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

दिनांक - ०३ जानेवारी, २०२६

सही/-
भूषण गगराणी
आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका

कर मतदान, सांगतंय संविधान! PRO/2671/ADV/2025-26

BAJAJ AUTO LTD.
Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune 411035

AUCTION SALE OF WORKSHOP MACHINERY

MACHINERY VIZ: VMC/HMC:- ACE/NTC/ MAZAK/ ARROW/CINCINATTI MILACRON; LIEBHER HOBBING CNC MACHINE; HMT CNC LATHE; CNC TOOL & CUTTER GRINDER MAKE WIDIA; CNC SHAPING MACHINE; 3 AXIS CNC VERT MILIING MACHINE- BED TYPE (BOHNER); HONING:- GEHRING/ NAGEL TWIN SPINDLE HONNING MACHINE/GLEASON HURTH GEAR TOOTH HONING; FANUC ROBO DRILL; MAHO JIG BORING; MURATA TWIN SPINDLE TURNING; HMT CNC LATHE; CNC 3 D CO-ORDINTE MEASURE M/C; INDUCTION HARDENING M/C; TIG WELDING; DAIHEN JAPAN MAKE DOUBLE INVERTER AC/DC PULSED TIG;

APPROX.10MT DB PANNEL; AC LOTS; LOADING/UNLOADING LIFTING TACKELS; CRANE; CONVEYOR LOTS; CHILLERS; ETC.

E-WASTE ITEMS; (COMPUTERS / LAPTOPS / PRINTERS ETC.)

AND MANY OTHER ITEMS (TOTAL ABOUT 241 LOTS) will be sold on "As is where is" basis by Public Auction at Akurdi, Pune Plant premises on 17-01-2026 from 9-30 a.m. subject to terms and conditions as mentioned in the catalogue.

For Inspection and Participation at auction, separate refundable CMD must be paid in advance as mentioned in the catalogue.

For detailed catalogue please contact:

GANDHI AUCTIONEERS PVT. LTD.
Mob: 9820106675 (Mon-Sat: 10 to 5 p.m.)
or write to jgandhi@gaplonline.com

NOTE : -

[: राजस्थान पत्रिका , दैनिक जागरण delhi, नवभारत टाइम्स delhi, अमर उजाला delhi, हिन्दुस्तान delhi, Pioneer hindi delhi, जनसत्ता delhi,]

English NEWSPAPERS
[Times Of India delhi, Indian Express delhi, The Hindu delhi, Financial Express delhi, economic times delhi , the Pioneer english delhi , the tribune delhi] ETC.

We are providing all news paper pdf hindi and English want to read daily newspapers by pdf please msg me on telegram

2. आकाशवाणी (AUDIO)

whatsapp Group ka link pane ke liye Newspaper_pdf_bot par jaye.

Click here to contact:-https://t.me/Newspaper_pdf_bot
Or type in Search box of Telegram
@Newspaper_pdf_bot And you will find a channel
BACKUP GROUP LINK
https://t.me/joinchat/5P9EL1JaqoYzNTI1

Hindi-English News Paper Website:- onlineftp.in